



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



PATRIOTIC IAS

THE HINDU NEWSPAPER

DAILY CURRENT AFFAIRS

05 APRIL 2025

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

05_04_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography)

1. Pulwama takes a leap to meet tulip bulbs demand
पुलवामा ने ट्यूलिप बल्ब की मांग पूरी करने के लिए बड़ी छलांग लगाई
2. Taken to task
ज़िम्मेदार ठहराया गया
3. A people still waiting to move out of the margins
अब भी हाशिये से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे लोग

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : **9971932488**
Website : patrioticias.in



Pulwama takes a leap to meet tulip bulbs demand

GS Paper I: Tulip

Peerzada Ashiq
SRINAGAR

Scientists in Kashmir have embarked on an ambitious project to indigenise tulip bulbs to make India self-reliant and match the skill and production of Netherlands – a major global exporter that meets the annual demand of India's 20-25 lakh tulip bulbs and cut flowers annually. This will also pave the way for hosting more blooming tulip gardens across the country, especially Capital New Delhi.

To realise the goal, over a lakh tulips are already in full bloom at the Council of Scientific and Industrial Research-Indian Institute of Integrative Medicine (CSIR IIM) in Pulwama's Bonera area.

"The indigenisation of tulip bulb production in India is expected to bring sig-



Feast for the eyes: The Pulwama centre with over one lakh tulip bloom. SPECIAL ARRANGEMENT

nificant changes to the country's floriculture sector. Currently, India imports around 20-25 lakh tulip bulbs and cut flowers annually, primarily from the Netherlands. By establishing sustainable production models for high-quality tulip bulbs, India will be able to meet its ever growing domestic demand while also creating oppor-

tunities to export tulip bulbs to international markets," Dr. Jitendra Singh, Minister of Science and Technology and Earth Sciences, told *The Hindu*, in an online interview.

Launching pad

Spread over 60 hectares at an altitude of 5,400 feet, Pulwama's Bonera station is emerging as the launch-

ing pad of the ambitious project that also aims to see new tulip blooming destinations adding to India's tourism map in the future.

Theme-based gardens

"The Ministry envisions establishing theme-based tulip gardens and production centres in regions with suitable agro-climatic conditions across the country. Given its temperate climate, J&K is poised to become a key hub for tulip bulb production," Mr. Singh said.

The Union Minister said the Kashmir centre was developing "novel and elite varieties of high-value cut and bulbous crops, particularly tulips, to reduce import dependency and promote self-sufficiency in the sector". The Pulwama station already has eight varieties of tulips in its rows.

Kashmir is home to the iconic Indira Gandhi Memorial Tulip Garden in Srinagar, which sees over 1.5 million flowers blooming every spring and attracts thousands of tourists from across the country. However, the region imports around 15 lakh bulbs every year from the Netherlands to curate Asia's biggest tulip garden. Over five lakh tulip bulbs were also planted in other parts of the country, mostly in New Delhi, officials said.

Tulip cultivation, according to the scientists, offers an alternative and profitable income stream, particularly in regions where traditional agriculture is constrained by climatic or environmental limitations.

Currently, the CSIR IIM centre in Pulwama is in full bloom and awaits to take wings to widen its horizon.

Pulwama takes a leap to meet tulip bulbs demand

पुलवामा ने ट्यूलिप बल्ब की मांग पूरी करने के लिए बड़ी छलांग लगाई

Scientists in Kashmir have embarked on an ambitious project to **indigenise tulip bulbs** to make India self-reliant and match the skill and production of **Netherlands — a major global exporter that meets the annual demand of India's 20-25 lakh tulip bulbs** and cut flowers.

कश्मीर के वैज्ञानिकों ने ट्यूलिप बल्बों के स्वदेशीकरण का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके और नीदरलैंड्स के कौशल और उत्पादन के स्तर तक पहुंच सके — जो कि भारत की 20-25 लाख ट्यूलिप बल्ब और कट फ्लावर की वार्षिक मांग को पूरा करता है।

- This will also pave the way for hosting more **blooming tulip gardens** across the country, especially in **Capital New Delhi**.

इससे देशभर में, खासकर राजधानी नई दिल्ली में और अधिक फूलों से खिले ट्यूलिप बागानों की मेजबानी का मार्ग भी प्रशस्त होगा।



- To realise the goal, **over a lakh tulips** are already in **full bloom** at the **Council of Scientific and Industrial Research-Indian Institute of Integrative Medicine (CSIR IIM)** in **Pulwama's Bonera** area.
इस लक्ष्य को साकार करने के लिए, पुलवामा के बोनिरा क्षेत्र स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-भारतीय एकीकृत औषध संस्थान (CSIR IIM) में पहले से ही एक लाख से अधिक ट्यूलिप फूलों की पूरी तरह से खिली हुई स्थिति है।
- "The **indigenisation of tulip bulb production in India** is expected to bring significant changes to the country's **floriculture sector**.
"भारत में ट्यूलिप बल्ब उत्पादन के स्वदेशीकरण से देश के फूलों की खेती क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है।
- Currently, India **imports around 20-25 lakh tulip bulbs and cut flowers annually**, primarily from the **Netherlands**.
वर्तमान में, भारत हर साल लगभग 20-25 लाख ट्यूलिप बल्ब और कट फलावर का आयात करता है, मुख्य रूप से नीदरलैंड्स से।
- By **establishing sustainable production models for high-quality tulip bulbs**, India will be able to meet its **ever growing domestic demand** while also creating opportunities to **export tulip bulbs to international markets**," said **Dr. Jitendra Singh, Minister of Science and Technology and Earth Sciences**, in an online interview to *The Hindu*.
उच्च गुणवत्ता वाले ट्यूलिप बल्बों के लिए टिकाऊ उत्पादन मॉडल स्थापित करके भारत अपनी लगातार बढ़ती घरेलू मांग को पूरा कर सकेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ट्यूलिप बल्बों का निर्यात भी कर सकेगा," ऐसा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने द हिंदू को ऑनलाइन साक्षात्कार में बताया।

Launching pad

प्रारंभिक मंच

- Spread over **60 hectares** at an altitude of **5,400 feet**, **Pulwama's Bonera station** is emerging as the **launching pad** of the ambitious project that also aims to see **new tulip blooming destinations** adding to India's **tourism map** in the future.
5,400 फीट की ऊंचाई पर फैले 60 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित पुलवामा का बोनिरा स्टेशन, इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रारंभिक मंच बन रहा है, जिसका उद्देश्य ट्यूलिप फूलों के नए पर्यटन स्थलों को भारत के पर्यटन मानचित्र में जोड़ना है।

Theme-based gardens

थीम-आधारित बागान

- "The Ministry envisions establishing **theme-based tulip gardens and production centres in regions with suitable agro-climatic conditions** across the country.



"मंत्रालय की योजना देशभर में उपयुक्त कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में थीम-आधारित ट्यूलिप बागानों और उत्पादन केंद्रों की स्थापना की है।

- Given its **temperate climate**, J&K is poised to become a **key hub for tulip bulb production**," Mr. Singh said.
समशीतोष्ण जलवायु को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर ट्यूलिप बल्ब उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है," श्री सिंह ने कहा।
- The **Union Minister** said the **Kashmir centre** was developing "**novel and elite varieties of high-value cut and bulbous crops**, particularly tulips, to reduce **import dependency** and promote **self-sufficiency** in the sector".
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कश्मीर केंद्र "उच्च-मूल्य कट और बल्बस फसलों, विशेषकर ट्यूलिप्स की नई और उत्कृष्ट किस्में विकसित कर रहा है, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके और स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जा सके।"
- The **Pulwama station** already has **eight varieties of tulips** in its rows.
पुलवामा स्टेशन में पहले से ही ट्यूलिप की आठ किस्में उगाई जा रही हैं।
- Kashmir** is home to the iconic **Indira Gandhi Memorial Tulip Garden** in **Srinagar**, which sees **over 1.5 million flowers** blooming every spring and attracts **thousands of tourists** from across the country.
कश्मीर, श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध **इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन** का घर है, जहां हर वसंत में **15 लाख से अधिक फूल** खिलते हैं और यह देशभर से **हज़ारों पर्यटकों** को आकर्षित करता है।
- However, the region **imports around 15 lakh bulbs** every year from the **Netherlands** to **curate Asia's biggest tulip garden**.
हालांकि, यह क्षेत्र हर साल **एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन** को सजाने के लिए **नीदरलैंड्स** से लगभग **15 लाख बल्ब** आयात करता है।
- Over **five lakh tulip bulbs** were also planted in other parts of the country, **mostly in New Delhi**, officials said.
अधिकारियों ने बताया कि देश के अन्य हिस्सों में, **मुख्यतः नई दिल्ली** में **पांच लाख से अधिक ट्यूलिप बल्ब** भी लगाए गए।
- Tulip cultivation**, according to the scientists, offers an **alternative and profitable income stream**, particularly in regions where **traditional agriculture** is constrained by **climatic or environmental limitations**.
वैज्ञानिकों के अनुसार, **ट्यूलिप की खेती** एक **विकल्पपूर्ण और लाभकारी आय स्रोत** प्रदान करती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां **परंपरागत कृषि जलवायु या पर्यावरणीय सीमाओं** के कारण बाधित होती है।
- Currently, the **CSIR IIIM centre** in **Pulwama** is in **full bloom** and awaits to **take wings to widen its horizon**.
फिलहाल, **पुलवामा स्थित CSIR IIIM केंद्र** पूरी तरह से **फूलों से खिला हुआ** है और अपने **दायरे को बढ़ाने के लिए पंख फैलाने** को तैयार है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



GS Paper I: Society

Taken to task

The Supreme Court is right in pushing Speakers to act decisively on defections

The issue of defections in Legislative Assemblies has become a vexed one in public life in recent years. Ruling parties – the Bharatiya Janata Party in particular – have adopted an unabashed approach to augment their legislative support by encouraging defections. A commonly used modus operandi – used egregiously in Manipur in the late 2010s and later in Maharashtra – involves the Speaker, invariably from the ruling party, sitting on disqualification petitions from Opposition parties against legislators who have defected. Some defectors have even been sworn in as Ministers, pending adjudication on their party-switching by the Speaker. Many States have seen the unedifying sight of mass defections to the ruling party just after elections, making a mockery of the democratic exercise. The latest is the situation in Telangana where the petitions filed by the Bharat Rashtra Samiti (BRS) in March-April 2024, to disqualify 10 of its legislators who defected to the Congress, were notified by the Speaker only in January this year. The Supreme Court, hearing a petition by the BRS seeking timely action by the Speaker, has rightly observed that it was not “powerless” if a Speaker chose to remain indecisive. Justice B.R. Gavai’s observation that the courts cannot tell a Speaker how to decide, but that they could ask the Speaker to decide within a reasonable period, is a rational one.

A five-judge Constitution Bench, in May 2023, had reposed its faith in the Speaker’s “propriety and impartiality” to decide on defections, but “within a reasonable period”. Flowing from this judgment, the Court had, in October 2023, fixed a deadline for the Maharashtra Speaker to decide defection pleas from the Opposition after the undue delay by him in hearing them. Yet, the issue is persistent. This is inevitable as Speakers are invariably elected from ruling parties and rarely act in a non-partisan manner, despite the expectation that they will do so. In 2020, the Court had asked Parliament to amend the Constitution to strip Legislative Assembly Speakers of their exclusive power to decide upon whether legislators should be disqualified or not under the Tenth Schedule which frames the anti-defection law. It had also asked for an independent tribunal, instead of the Speaker, to be appointed for the task. No such action has been taken by Parliament since then and the problem of defections going unaddressed by Speakers within a reasonable time frame persists. If the Court forces the hand of the Speaker in Telangana, it might be one more blow for decisive action. But the scourge of defections and how it is dealt with will remain as long as voters do not punish those who indulge in such practices.

defections to the ruling party just after elections, making a mockery of the democratic exercise.

कई राज्यों में चुनावों के तुरंत बाद सत्तारूढ़ दल में बड़े पैमाने पर दल-बदल की अशोभनीय स्थिति देखने को मिली है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ती है।

Taken to task

ज़िम्मेदार ठहराया गया

The Supreme Court is right in pushing Speakers to act decisively on defections

विधायकों के दल-बदल पर स्पीकर को निर्णायक रूप से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना सुप्रीम कोर्ट का सही कदम है

The issue of defections in Legislative Assemblies has become a vexed one in public life in recent years.

हाल के वर्षों में विधानसभाओं में दल-बदल का मुद्दा सार्वजनिक जीवन में एक जटिल समस्या बन गया है।

• Ruling parties — the **Bharatiya Janata Party** in particular — have adopted an **unabashed approach** to augment their legislative support by encouraging **defections**.

सत्तारूढ़ दलों — विशेषकर भारतीय जनता पार्टी — ने दल-बदल को प्रोत्साहित करके अपने विधायी समर्थन को बढ़ाने के लिए एक निर्लज्ज रणनीति अपनाई है।

• A commonly used **modus operandi** — used **egregiously in Manipur** in the **late 2010s** and later in **Maharashtra** — involves the **Speaker**, invariably from the **ruling party**, sitting on **disqualification petitions** from Opposition parties against legislators who have defected.

एक आम तौर पर अपनाई जाने वाली रणनीति, जो 2010 के उत्तरार्ध में मणिपुर और बाद में महाराष्ट्र में बुरी तरह इस्तेमाल हुई, यह है कि विधानसभा अध्यक्ष, जो अक्सर सत्तारूढ़ दल से होते हैं, दल बदलने वाले विधायकों के खिलाफ विपक्ष द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं को लटकाए रखते हैं।

• Some **defectors** have even been **sworn in as Ministers**, pending adjudication on their party-switching by the Speaker.

कुछ दल बदलने वाले विधायक तो मंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं, जबकि स्पीकर द्वारा उनके पार्टी बदलने पर निर्णय लंबित है।

• Many States have seen the **unedifying sight** of mass



- The latest is the situation in **Telangana** where the **petitions filed by the Bharat Rashtra Samiti (BRS) in March-April 2024**, to disqualify **10 of its legislators** who defected to the **Congress**, were notified by the Speaker only in **January** this year.
ताज़ा मामला तेलंगाना का है जहां मार्च-अप्रैल 2024 में भारत राष्ट्र समिति (BRS) द्वारा कांग्रेस में गए अपने 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दायर याचिकाओं को स्पीकर ने इस वर्ष जनवरी में ही नोटिफाई किया।
- The **Supreme Court**, hearing a petition by the **BRS seeking timely action by the Speaker**, has rightly observed that it was not **"powerless"** if a Speaker chose to remain **indecisive**.
सुप्रीम कोर्ट ने BRS की ओर से स्पीकर की समयबद्ध कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सही तौर पर यह टिप्पणी की कि यदि स्पीकर निर्णय नहीं लेते हैं, तो कोर्ट "बेसहारा" नहीं है।
- **Justice B.R. Gavai's** observation that the **courts cannot tell a Speaker how to decide**, but that they could ask the Speaker to **decide within a reasonable period**, is a **rational one**.
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की यह टिप्पणी कि न्यायालय स्पीकर को यह नहीं बता सकता कि कैसे निर्णय लेना है, लेकिन वह यह कह सकता है कि उचित समय के भीतर निर्णय लिया जाए, एक तार्किक विचार है।
- A **five-judge Constitution Bench**, in **May 2023**, had reposed its faith in the **Speaker's "propriety and impartiality"** to decide on defections, but **"within a reasonable period"**.
मई 2023 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पीकर की "शिष्टता और निष्पक्षता" में विश्वास जताया था कि वे दल-बदल पर निर्णय लेंगे, लेकिन यह "उचित समय के भीतर" होना चाहिए।
- Flowing from this judgment, the Court had, in **October 2023**, **fixed a deadline** for the **Maharashtra Speaker** to decide defection pleas from the Opposition after the **undue delay** by him in hearing them.
इस निर्णय के आधार पर, अक्टूबर 2023 में अदालत ने महाराष्ट्र के स्पीकर को विपक्ष की दल-बदल याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अवांछित देरी के बाद समय सीमा तय की थी।
- Yet, the issue is **persistent**.
फिर भी, यह मुद्दा अब भी बना हुआ है।
- This is inevitable as **Speakers** are invariably elected from **ruling parties** and rarely act in a **non-partisan** manner, despite the expectation that they will do so.
यह स्थिति अनिवार्य है क्योंकि स्पीकर आम तौर पर सत्तारूढ़ दल से ही चुने जाते हैं और उनसे गैर-पक्षपातपूर्ण व्यवहार की उम्मीद के बावजूद वे ऐसा कम ही करते हैं।
- In **2020**, the Court had asked **Parliament** to amend the Constitution to **strip Legislative Assembly Speakers** of their **exclusive power** to decide upon whether legislators should be disqualified or not under the **Tenth Schedule** which frames the **anti-defection law**.
2020 में कोर्ट ने संसद से संविधान में संशोधन कर विधानसभा स्पीकर से यह विशेष अधिकार छीनने को कहा था कि वे दसवीं अनुसूची के तहत, जो दल-बदल विरोधी कानून है, यह तय करें कि विधायक अयोग्य हैं या नहीं।



- It had also asked for an **independent tribunal**, instead of the Speaker, to be appointed for the task.
कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस कार्य के लिए **स्पीकर की जगह एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण** की नियुक्ति की जाए।
- No such action has been taken by **Parliament** since then and the problem of **defections going unaddressed by Speakers** within a **reasonable time frame** persists.
तब से संसद द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और **स्पीकर द्वारा समय पर दल-बदल पर कार्रवाई नहीं होने** की समस्या बनी हुई है।
- If the **Court forces the hand of the Speaker in Telangana**, it might be one more **blow for decisive action**.
यदि कोर्ट तेलंगाना में **स्पीकर को निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है**, तो यह एक और **निर्णायक कार्रवाई का झटका** हो सकता है।
- But the **scourge of defections** and how it is dealt with will remain as long as **voters do not punish those** who indulge in such practices.
लेकिन **दल-बदल की समस्या** और इसका समाधान तब तक बना रहेगा जब तक **मतदाता ऐसे विधायकों को सज़ा नहीं देते** जो इस तरह की प्रथाओं में लिप्त होते हैं।

A people still waiting to move out of the margins

GS Paper I: Society

International Transgender Day of Visibility, which is observed on March 31, highlights the challenges that transgender individuals face. Despite legal advancements such as the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, social stigma, economic exclusion and discrimination persist. There are barriers to education, employment and health care. Workplace biases and financial discrimination hinder economic empowerment, while bullying and unsupportive environments restrict education. Health-care systems fail to address transgender-specific needs, worsening marginalisation. True inclusion requires strong policy implementation, anti-discrimination enforcement, and societal change. Governments, businesses and communities must ensure financial inclusion, equal opportunities and support, fostering empowerment beyond mere visibility.

Legal recognition versus ground reality

Weak implementation of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, hampers access to welfare schemes. As of December 2023, the National Portal for Transgender Persons received 24,115 identity card applications. However, only 15,800 certificates were issued, with over 3,200 pending beyond the mandated 30-day period. In Delhi, despite a transgender population of approximately 4,200 (2011 Census), only 23 identity cards had been issued by April 2022. The Act's bureaucratic certification process delays recognition by contrasting global standards of self-determination. It also lacks provisions for addressing police harassment, family rejection, and social exclusion.

Economic empowerment remains a challenge in India due to systemic barriers in employment and entrepreneurship. A 2018 National Human Rights Commission of India (NHRC) report found that 92% of transgender individuals were excluded from economic activities, forcing many



Vipin Benny

is Assistant Professor and Research Supervisor, Department of Commerce, St. Thomas College (Autonomous), Thrissur, Kerala

Transgender individuals continue to face barriers to acceptance, education, employment and health care

to engage in sex work. A 2022 study reported a transgender unemployment rate of 48%, far above the national average of 7%-8%.

Discrimination starts at hiring, where biases lead to exclusion, and those employed face workplace hostility, a lack of gender-neutral facilities, and resistance from colleagues. While Tata Steel has hired over 100 transgender employees, the industry-wide adoption of such policies is limited. In 2024, the Finance Ministry clarified that LGBTQ+ individuals could open joint bank accounts and nominate partners as beneficiaries, yet broader financial exclusion persists. There need to be workplace inclusion policies, diversity hiring, targeted financial programmes, and government-backed loans to ensure economic empowerment.

Hurdles in education, health-care access

Education is crucial for inclusion and the economic empowerment of transgender individuals in India, but systemic discrimination leads to significant disparities. The 2011 Census reported a transgender literacy rate of 56.1%, when the national average was 74.04%. In Kerala, 58% dropped out due to bullying, harassment, and unsupportive environments. But some States have introduced inclusive policies – Maharashtra has transgender cells in colleges and the University of Kerala has reserved seats and hostel facilities. However, nationwide policies remain weak. Ensuring equal opportunities requires gender-sensitive curricula, inclusive learning spaces, financial aid and vocational training.

Transgender individuals in India face major health-care challenges owing to systemic discrimination, financial barriers, and inadequate medical infrastructure. Despite the National Health Policy (2017) and the Ayushman Bharat, accessibility remains limited. A National Legal Services Authority survey found that 27% were denied health care due to their gender identity. Gender-affirming treatments remain costly

(between ₹2 lakh to ₹5 lakh) with limited insurance coverage. While the 'Ayushman Bharat TG Plus' card offers ₹5 lakh annual coverage, implementation gaps persist. The lack of trained health-care professionals results in substandard care, and mental health support is severely inadequate. Solutions include mandatory transgender health-care training; inclusion of gender-affirming treatments in insurance; dedicated transgender health clinics, and expanded mental health services.

Steps to help mainstream

Changing societal perceptions of transgender individuals in India requires genuine inclusion in the media, education, workplaces, and policies. While visibility has increased, portrayals often reinforce stereotypes. Deep-rooted prejudices in families, schools, and workplaces are another factor. Initiatives such as the 'I Am Also Human' campaign by the Humsafar Trust help, but broader efforts are needed. Gender sensitisation in schools, universities, and workplaces is essential. The media must depict transgender individuals in diverse roles, while cultural events such as Tamil Nadu's Koovagam Festival can promote acceptance.

International Transgender Day of Visibility underscores the need for policy reforms, social acceptance, and economic inclusion. Discrimination persists in employment, education, health care, and public spaces. Many face identity documentation issues, financial barriers, and workplace biases. Addressing these issues requires awareness campaigns, inclusive media representations, and gender sensitisation in schools and workplaces. Beyond symbolism, enforcing anti-discrimination laws, inclusive hiring, and supporting transgender entrepreneurs are also essential. True equality demands collective action to dismantle institutional barriers and to ensure dignity, empowerment, and integration.



A people still waiting to move out of the margins अब भी हाशिये से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे लोग

International Transgender Day of Visibility, which is observed on **March 31**, highlights the challenges that transgender individuals face.

31 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर डे ऑफ विज़िबिलिटी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।

- Despite legal advancements such as the **Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019**, social stigma, economic exclusion and discrimination persist. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 जैसे कानूनी सुधारों के बावजूद, सामाजिक कलंक, आर्थिक बहिष्कार और भेदभाव अब भी जारी हैं।
- There are barriers to education, employment and health care. शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में बाधाएँ बनी हुई हैं।
- **Workplace biases and financial discrimination hinder economic empowerment**, while bullying and unsupportive environments restrict education. कार्यस्थल पर पूर्वाग्रह और आर्थिक भेदभाव आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा डालते हैं, जबकि धमकाना और असहयोगी माहौल शिक्षा को सीमित करते हैं।
- Health-care systems fail to address transgender-specific needs, worsening marginalisation. स्वास्थ्य प्रणाली ट्रांसजेंडर समुदाय की विशेष जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती है, जिससे हाशियाकरण और बढ़ता है।
- **True inclusion requires strong policy implementation, anti-discrimination enforcement, and societal change.** सच्चे समावेशन के लिए मजबूत नीतियों का क्रियान्वयन, भेदभाव-रोधी कानूनों का पालन और सामाजिक बदलाव जरूरी है।
- **Governments, businesses and communities must ensure financial inclusion, equal opportunities and support, fostering empowerment beyond mere visibility.** सरकारों, कारोबारों और समुदायों को वित्तीय समावेशन, समान अवसर और समर्थन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि केवल दृश्यता से आगे जाकर सशक्तिकरण हो सके।
- **Legal recognition versus ground reality**
कानूनी मान्यता बनाम जमीनी हकीकत
- **Weak implementation of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, hampers access to welfare schemes.**
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का कमज़ोर क्रियान्वयन कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच में बाधा डालता है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- As of December 2023, the **National Portal for Transgender Persons received 24,115 identity card applications.**
दिसंबर 2023 तक नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स को 24,115 पहचान पत्र के आवेदन प्राप्त हुए।
- However, only 15,800 certificates were issued, with over 3,200 pending beyond the mandated 30-day period.
हालाँकि, केवल 15,800 प्रमाण पत्र ही जारी किए गए, और 3,200 से अधिक आवेदन निर्धारित 30 दिनों की अवधि से अधिक समय से लंबित हैं।
- In Delhi, despite a transgender population of approximately 4,200 (2011 Census), only 23 identity cards had been issued by April 2022.
दिल्ली में, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 4,200 है, अप्रैल 2022 तक केवल 23 पहचान पत्र ही जारी किए गए थे।
- The Act's bureaucratic certification process delays recognition by contrasting global standards of self-determination.
इस अधिनियम की ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया आत्म-पहचान के वैश्विक मानकों के विपरीत जाकर मान्यता में देरी करती है।
- It also lacks provisions for addressing police harassment, family rejection, and social exclusion.
इसमें पुलिस उत्पीड़न, परिवार द्वारा अस्वीकार, और सामाजिक बहिष्कार से निपटने के लिए प्रावधानों की कमी है।
- Economic empowerment remains a challenge in India due to systemic barriers in employment and entrepreneurship.
रोज़गार और उद्यमिता में प्रणालीगत बाधाओं के कारण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण अब भी एक चुनौती बना हुआ है।
- A 2018 National Human Rights Commission of India (NHRC) report found that 92% of transgender individuals were excluded from economic activities, forcing many to engage in sex work.
2018 की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 92% ट्रांसजेंडर व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों से बाहर थे, जिससे कई लोगों को यौन कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- A 2022 study reported a transgender unemployment rate of 48%, far above the national average of 7%-8%.
2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रांसजेंडर बेरोज़गारी दर 48% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 7%-8% से कहीं अधिक है।
- Discrimination starts at hiring, where biases lead to exclusion, and those employed face workplace hostility, a lack of gender-neutral facilities, and resistance from colleagues.
भेदभाव की शुरुआत नियुक्ति के समय होती है, जहां पूर्वाग्रह के कारण उन्हें नौकरी नहीं दी जाती, और जो नियोजित होते हैं, उन्हें शत्रुतापूर्ण कार्यस्थल, जेंडर-न्यूट्रल सुविधाओं की कमी, और सहकर्मियों का विरोध झेलना पड़ता है।
- While Tata Steel has hired over 100 transgender employees, the industry-wide adoption of such policies is limited.



जहां टाटा स्टील ने 100 से अधिक ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को नियुक्त किया है, वहीं पूरे उद्योग में ऐसी नीतियों को अपनाने की दर बहुत कम है।

- In 2024, the Finance Ministry clarified that LGBTQ+ individuals could open joint bank accounts and nominate partners as beneficiaries, yet broader financial exclusion persists.

2024 में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि LGBTQ+ व्यक्ति संयुक्त बैंक खाता खोल सकते हैं और अपने साथियों को लाभार्थी नामित कर सकते हैं, फिर भी व्यापक वित्तीय बहिष्कार बना हुआ है।

- There need to be workplace inclusion policies, diversity hiring, targeted financial programmes, and government-backed loans to ensure economic empowerment.

आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय समावेशन नीतियाँ, विविधता आधारित नियुक्तियाँ, लक्षित वित्तीय कार्यक्रम, और सरकार समर्थित ऋण योजनाएँ आवश्यक हैं।

Hurdles in education, health-care access

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में बाधाएँ

- Education is crucial for inclusion and the economic empowerment of transgender individuals in India, but systemic discrimination leads to significant disparities.

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रणालीगत भेदभाव के कारण गंभीर असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।

- The 2011 Census reported a transgender literacy rate of 56.1%, when the national average was 74.04%.

2011 की जनगणना के अनुसार ट्रांसजेंडर साक्षरता दर 56.1% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 74.04% था।

- In Kerala, 58% dropped out due to bullying, harassment, and unsupportive environments.

केरल में 58% ट्रांसजेंडर छात्रों ने धमकाने, उत्पीड़न, और असहयोगी माहौल के कारण पढ़ाई छोड़ दी।

- But some States have introduced inclusive policies — Maharashtra has transgender cells in colleges and the University of Kerala has reserved seats and hostel facilities.

लेकिन कुछ राज्यों ने समावेशी नीतियाँ लागू की हैं — महाराष्ट्र ने कॉलेजों में ट्रांसजेंडर सेल बनाए हैं और केरल विश्वविद्यालय ने आरक्षित सीटें और छात्रावास सुविधाएँ प्रदान की हैं।

- However, nationwide policies remain weak.

हालांकि, राष्ट्रव्यापी नीतियाँ अब भी कमज़ोर हैं।

- Ensuring equal opportunities requires gender-sensitive curricula, inclusive learning spaces, financial aid and vocational training.

समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जेंडर-संवेदनशील पाठ्यक्रम, समावेशी शिक्षण स्थल, वित्तीय सहायता, और व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक हैं।

- Transgender individuals in India face major health-care challenges owing to systemic discrimination, financial barriers, and inadequate medical infrastructure.



भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रणालीगत भेदभाव, वित्तीय बाधाओं, और अपर्याप्त चिकित्सा ढांचे के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- Despite the National Health Policy (2017) and the Ayushman Bharat, accessibility remains limited.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) और आयुष्मान भारत के बावजूद, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच अब भी सीमित है।

- A National Legal Services Authority survey found that 27% were denied health care due to their gender identity.

नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक सर्वे में पाया गया कि 27% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जेंडर आइडेंटिटी के कारण स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं दी गईं।

- Gender-affirming treatments remain costly (between ₹2 lakh to ₹5 lakh) with limited insurance coverage.

जेंडर-अफर्मिंग उपचार की लागत ₹2 लाख से ₹5 लाख तक होती है और इस पर बीमा कवरेज बहुत सीमित है।

- While the 'Ayushman Bharat TG Plus' card offers ₹5 lakh annual coverage, implementation gaps persist.

हालाँकि, 'आयुष्मान भारत TG प्लस' कार्ड ₹5 लाख वार्षिक कवरेज देता है, लेकिन क्रियान्वयन में खामियाँ बनी हुई हैं।

- The lack of trained health-care professionals results in substandard care, and mental health support is severely inadequate.

प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की कमी के कारण अमानक इलाज मिलता है और मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी बेहद अपर्याप्त है।

- Solutions include mandatory transgender health-care training; inclusion of gender-affirming treatments in insurance; dedicated transgender health clinics, and expanded mental health services.

समाधानों में शामिल हैं — ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवाओं की अनिवार्य ट्रेनिंग, बीमा योजनाओं में जेंडर-अफर्मिंग उपचार को शामिल करना, विशेष ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित करना, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

Steps to help mainstream

मुख्यधारा में लाने के लिए कदम

- Changing societal perceptions of transgender individuals in India requires genuine inclusion in the media, education, workplaces, and policies.

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने के लिए मीडिया, शिक्षा, कार्यस्थल, और नीतियों में वास्तविक समावेशन आवश्यक है।

- While visibility has increased, portrayals often reinforce stereotypes.

हालाँकि दृश्यता बढ़ी है, लेकिन प्रस्तुतियाँ अक्सर रूढ़ियों को और मज़बूत करती हैं।



- Deep-rooted prejudices in families, schools, and workplaces are another factor. परिवारों, स्कूलों, और कार्यस्थलों में गहराई से जड़े पूर्वाग्रह भी एक बड़ा कारण हैं।
- **Initiatives such as the 'I Am Also Human' campaign by the Humsafar Trust help, but broader efforts are needed.** हमसफ़र ट्रस्ट की 'I Am Also Human' जैसी पहलें मदद करती हैं, लेकिन व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है।
- **Gender sensitisation in schools, universities, and workplaces is essential.** स्कूलों, विश्वविद्यालयों, और कार्यस्थलों में जेंडर संवेदनशीलता जरूरी है।
- **The media must depict transgender individuals in diverse roles, while cultural events such as Tamil Nadu's Koovagam Festival can promote acceptance.** मीडिया को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विविध भूमिकाओं में दर्शाना चाहिए, जबकि तमिलनाडु का कूवगाम उत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वीकृति को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **International Transgender Day of Visibility underscores the need for policy reforms, social acceptance, and economic inclusion.** अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर डे ऑफ विज़िबिलिटी नीतिगत सुधारों, सामाजिक स्वीकृति, और आर्थिक समावेशन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **Discrimination persists in employment, education, health care, and public spaces.** रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, और सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव बना हुआ है।
- **Many face identity documentation issues, financial barriers, and workplace biases.** कई लोगों को पहचान दस्तावेजों, वित्तीय बाधाओं, और कार्यस्थल पर पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है।
- **Addressing these issues requires awareness campaigns, inclusive media representations, and gender sensitisation in schools and workplaces.** इन समस्याओं का समाधान जागरूकता अभियानों, समावेशी मीडिया प्रस्तुति, और स्कूलों व कार्यस्थलों में जेंडर संवेदनशीलता से संभव है।
- **Beyond symbolism, enforcing anti-discrimination laws, inclusive hiring, and supporting transgender entrepreneurs are also essential.** प्रतीकात्मकता से आगे बढ़ते हुए, भेदभाव-रोधी कानूनों को लागू करना, समावेशी भर्ती और ट्रांसजेंडर उद्यमियों का समर्थन भी जरूरी है।
- **True equality demands collective action to dismantle institutional barriers and to ensure dignity, empowerment, and integration.** सच्ची समानता के लिए संस्थागत बाधाओं को खत्म करने, और गरिमा, सशक्तिकरण, व एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु सामूहिक प्रयास अनिवार्य हैं।



Koovagam Festival

कूवगाम उत्सव

- The **Koovagam Festival** is an **annual event** celebrated in **Koovagam**, a small village in the **Kallakurichi district** of **Tamil Nadu**, India.
कूवगाम उत्सव एक वार्षिक आयोजन है जो कूवगाम, तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले के एक छोटे से गांव में मनाया जाता है।
- This festival holds **profound significance** for the **transgender community**, attracting participants from across the country.
यह उत्सव ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए गहन महत्व रखता है और पूरे देश से प्रतिभागियों को आकर्षित करता है।

Historical and Mythological Significance

ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व

- The festival is rooted in the **Mahabharata**, focusing on the story of **Aravan**, the son of **Arjuna** and **Naga princess Ulupi**.
यह उत्सव महाभारत में निहित है और इसका केंद्र बिंदु अरावन की कहानी है, जो अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का पुत्र था।
- Aravan offered himself as a **sacrifice** to ensure the **Pandavas' victory** in the **Kurukshetra war**.
अरावन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद को बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया।
- Before his sacrifice, he wished to **marry**, but no woman wanted to become a **widow**.
अपने बलिदान से पहले, उसने विवाह की इच्छा जताई, लेकिन कोई भी महिला विधवा बनना नहीं चाहती थी।
- In response, **Lord Krishna** assumed the form of **Mohini**, married Aravan, and mourned his death.
इसके उत्तर में, भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया, अरावन से विवाह किया और उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया।
- This narrative has led to Aravan being revered as the **patron deity** of the **transgender community**, who identify themselves as his **brides**.
इस कथा के कारण, अरावन को ट्रांसजेंडर समुदाय का इष्ट देवता माना जाता है, जो स्वयं को उनकी दुल्हनें मानते हैं।



Festival Celebrations and Rituals

उत्सव की रस्में और आयोजन

- **Duration and Timing:** The festival spans **15 to 18 days**, culminating on **Chitra Pournami** (full moon day) in the Tamil month of **Chithirai** (April–May).
अवधि और समय: यह उत्सव 15 से 18 दिनों तक चलता है और चित्तिरै (अप्रैल–मई) माह की चित्रा पूर्णिमा पर समाप्त होता है।

Main Rituals

मुख्य अनुष्ठान

- **Symbolic Marriage:** Transgender individuals participate in a **ceremonial marriage** to **Aravan**, symbolizing their union with the deity.
प्रतीकात्मक विवाह: ट्रांसजेंडर व्यक्ति अरावन से अनुष्ठानिक विवाह में भाग लेते हैं, जो देवता के साथ उनके संबंध का प्रतीक है।
- **Widowhood Ritual:** The next day, participants perform **mourning rituals**, symbolizing **widowhood** after Aravan's death.
विधवा अनुष्ठान: अगले दिन, प्रतिभागी शोक अनुष्ठान करते हैं, जो अरावन की मृत्यु के बाद की विधवा स्थिति को दर्शाते हैं।
- **Cultural Events:** The festival also features **cultural programs, beauty pageants, and seminars** addressing **issues faced by the transgender community**.
सांस्कृतिक कार्यक्रम: इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सौंदर्य प्रतियोगिताएं और सेमिनार भी होते हैं, जो ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं पर केंद्रित होते हैं।

Role in Promoting Acceptance

स्वीकृति को बढ़ावा देने में भूमिका

- The Koovagam Festival serves as a **platform** for the **transgender community** to **express their identity** and foster a **sense of belonging**.
कूवगाम उत्सव ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अपनी पहचान व्यक्त करने और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने का एक मंच है।
- By bringing together individuals from diverse backgrounds, it promotes **social inclusion, awareness, and acceptance** of transgender individuals in society.
यह विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को एकत्र करके समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सामाजिक समावेशन, जागरूकता, और स्वीकृति को बढ़ावा देता है।
- The festival also facilitates **dialogue** on the **rights and challenges** faced by the community, contributing to **broader societal change**.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



यह उत्सव समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और अधिकारों पर संवाद को भी बढ़ावा देता है, जिससे व्यापक सामाजिक परिवर्तन में योगदान मिलता है।

TOPICS COVERED GS Paper II: Polity, Governance, and International Relations)

1. Parliament clears revised Waqf Bill after a 14-hour debate in the Rajya Sabha

राज्यसभा में 14 घंटे की बहस के बाद संसद ने संशोधित वक्फ विधेयक पारित किया

2. Modi, Yunus set aside differences, hold talks on border security, minorities, Sheikh Hasina

मोदी और यूनस ने मतभेद भुलाकर सीमा सुरक्षा, अल्पसंख्यकों और शेख हसीना पर चर्चा की

3. Modi reaches Colombo, to discuss key issues with Sri Lankan President

मोदी कोलंबो पहुँचे, श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे

4. First Budget Session of the 18th Lok Sabha concludes with record productivity

18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र ऐतिहासिक उत्पादकता के साथ समाप्त

5. Allahabad High Court refuses to quash summons to Rahul

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल को भेजे गए समन रद्द करने से इनकार किया



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



6. A case for the Global South in securing Ukraine peace

यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल साउथ की भूमिका का
मामला

7. Focus Shifts to Humanitarian Crisis in Myanmar After Earthquake

भूकंप के बाद म्यांमार में मानवीय संकट पर ध्यान केंद्रित

PATRIOTIC IAS



Parliament clears revised Waqf Bill after a 14-hour debate in the Rajya Sabha

GS Paper II: Waqf Bill

Sobhana K. Nair
NEW DELHI

Parliament, in the early hours of Friday morning, cleared the Waqf (Amendment) Bill 2025, after nearly 14 hours of debate in Rajya Sabha, with 128 members voting in favour and 95 against. The government maintained that the law was not directed against the Muslims and that it only aimed to bring transparency in the administration of Waqf properties, while the Opposition alleged that it was aimed at reducing Muslims to “second-class citizens” and questioned both “intent and content” of the Bill.

The gap between the Treasury benches and the Opposition was much narrower in the Upper House compared to the Lok Sabha, where it was cleared on Thursday by a margin of 56 votes. Earlier, an amendment opposing the clause on the inclusion of non-Muslim members in the Waqf Board and Central Waqf Council was moved by DMK MP Tiruchi Siva, but it was defeated, with 125 votes against it and 92 in favour.

Union Minister for Minority Affairs Kiren Rijiju began his concluding remarks at 12:55 p.m. He reiterated that the government had heard all opinions, which was reflected in the difference between the original Bill and the one cleared by Parliament.

He asserted the Opposition’s overwhelming objection to the inclusion of non-Muslim members in Waqf Board and Central Waqf Council was unfounded and baseless. He



In one voice: People take part in a protest organised by SDPI against the Waqf Bill, in Bengaluru. PTI

Will crack down on ‘land scam’: Fadnavis

Vinaya Deshpande Pandit
MUMBAI

Maharashtra government will soon tackle a “massive Waqf land scam that took place in the State between 2000 and 2014”, Chief Minister Devendra

Fadnavis has said.

Stating that the Waqf Bill had nothing to do with Hindutva, he said that it was in “keeping with the constitutional spirit”.

FULL REPORT
» PAGE 4

also dismissed the Opposition’s comparison with other religious endowment boards, where there was no provision of including members from other religions. “A statutory body should be secular,” he said. He also clarified again that non-Muslims members in these administrative bodies cannot dictate the decision. “They are here only to contribute.”

“I have said repeatedly that in the Central Waqf Council of 22 members, there can only be four non-Muslim members... still the Opposition repeatedly raised the issue,” he said.

‘Targeted legislation’
Earlier in the day, opening the attack, Congress MP

Syed Naseer Hussain called it a “targeted legislation against the Muslim community” and said that it intended to make Muslims second-class citizens in the country.

He alleged that the ruling party brought the legislation in 2024 in order to strengthen its vote bank, as it was able to win only 240 seats in the Lok Sabha election.

“They have brought this Act just for communal polarisation,” he said. He added that everyone knew which political party tried to portray one community as a villain and build a narrative against it.

MORE REPORTS
» PAGE 2 & 4

Parliament clears revised Waqf Bill after a 14-hour debate in the Rajya Sabha
राज्यसभा में 14 घंटे की बहस के बाद संसद ने संशोधित वक्फ विधेयक पारित किया

Parliament, in the early hours of Friday morning, cleared the Waqf (Amendment) Bill 2025, after nearly 14 hours of debate in Rajya Sabha, with **128 members voting in favour and 95 against.**

संसद ने शुक्रवार सुबह के शुरुआती घंटों में राज्यसभा में लगभग 14 घंटे की बहस के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया, जिसमें 128 सदस्यों ने पक्ष में और 95 ने विरोध में मतदान किया।

- The government maintained that the law was not directed against the **Muslims** and that it only aimed to bring **transparency** in the administration of **Waqf properties**, while the **Opposition** alleged that it was aimed at reducing **Muslims** to “**second-class citizens**” and questioned both the “**intent and content**” of the Bill.

सरकार ने कहा कि यह कानून **मुसलमानों** के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य केवल **वक्फ संपत्तियों** के प्रशासन में **पारदर्शिता** लाना है, जबकि **विपक्ष** ने आरोप लगाया कि इसका



मकसद मुसलमानों को "दूसरे दर्जे का नागरिक" बनाना है और विधेयक की "नियत और सामग्री" दोनों पर सवाल उठाया।

- The gap between the **Treasury benches** and the **Opposition** was much **narrower in the Rajya Sabha** compared to the **Lok Sabha**, where it was cleared on **Thursday** by a margin of **56 votes**.

राज्यसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच का अंतर लोकसभा की तुलना में काफी कम था, जहां यह गुरुवार को 56 मतों के अंतर से पारित हुआ।

- Earlier, an **amendment** opposing the clause on the inclusion of **non-Muslim members** in the **Waqf Board** and **Central Waqf Council** was moved by **DMK MP Tiruchi Siva**, but it was **defeated**, with **125 votes against** it and **92 in favour**.

इससे पहले डीएमके सांसद तिरुचि शिवा द्वारा वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने वाले प्रावधान का विरोध करते हुए एक संशोधन पेश किया गया, लेकिन इसे 125 वोटों के विरोध और 92 के समर्थन के साथ खारिज कर दिया गया।

Remarks by Union Minister Kiren Rijju

केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू की टिप्पणी

- **Union Minister for Minority Affairs Kiren Rijju** began his concluding remarks at **12:55 p.m.**

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने अपनी समापन टिप्पणी दोपहर 12:55 बजे शुरू की।

- He reiterated that the government had heard **all opinions**, which was reflected in the **difference** between the **original Bill** and the one cleared by **Parliament**.

उन्होंने दोहराया कि सरकार ने सभी रायों को सुना, जो मूल विधेयक और संसद द्वारा पारित संशोधित विधेयक के अंतर में परिलक्षित होता है।

- He asserted the **Opposition's objection** to the inclusion of **non-Muslim members** in **Waqf Board and Central Waqf Council** was **unfounded and baseless**.

उन्होंने कहा कि विपक्ष की आपत्ति कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाना बिना आधार और निराधार है।

- He dismissed the Opposition's comparison with other **religious endowment boards**, where there was **no provision of including members from other religions**.

उन्होंने विपक्ष की तुलना को खारिज कर दिया, जिसमें अन्य धार्मिक न्यास बोर्डों में अन्य धर्मों के सदस्यों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

- "A **statutory body** should be **secular**," he said.

उन्होंने कहा, "एक वैधानिक निकाय को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए।"

- He clarified again that **non-Muslim members** in these **administrative bodies** cannot **dictate the decision**. "They are here only to **contribute**."

उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि इन प्रशासनिक निकायों में गैर-मुस्लिम सदस्य निर्णयों को निर्देशित नहीं कर सकते। "वे केवल योगदान देने के लिए हैं।"



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- “I have said repeatedly that in the **Central Waqf Council of 22 members**, there can only be **four non-Muslim members**... still the **Opposition** repeatedly raised the issue,” he said.
उन्होंने कहा, “मैंने बार-बार कहा है कि **22 सदस्यों** वाली **केंद्रीय वक्फ परिषद** में केवल **चार गैर-मुस्लिम सदस्य** हो सकते हैं... फिर भी **विपक्ष** बार-बार इस मुद्दे को उठाता रहा।”

‘Targeted legislation’ by the Opposition

विपक्ष द्वारा 'लक्षित कानून' का आरोप

- Earlier in the day, opening the attack, **Congress MP Syed Naseer Hussain** called it a “**targeted legislation** against the **Muslim community**” and said that it intended to make **Muslims second-class citizens** in the country.
दिन में पहले, कांग्रेस सांसद **सैयद नसीर हुसैन** ने इसे **मुस्लिम समुदाय** के खिलाफ “**लक्षित कानून**” बताया और कहा कि इसका उद्देश्य देश में **मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक** बनाना है।
- He alleged that the **ruling party** brought the legislation in **2024** in order to **strengthen its vote bank**, as it was able to win only **240 seats** in the **Lok Sabha election**.
उन्होंने आरोप लगाया कि **सत्तारूढ़ दल** ने यह कानून **2024** में अपने **वोट बैंक को मजबूत** करने के लिए लाया, क्योंकि वह **लोकसभा चुनाव** में केवल **240 सीटें** ही जीत सका।
- “They have brought this Act just for **communal polarisation**,” he said.
उन्होंने कहा, “उन्होंने यह अधिनियम केवल **सांप्रदायिक धुवीकरण** के लिए लाया है।”
- He added that **everyone knew** which **political party** tried to portray one **community** as a **villain** and build a **narrative** against it.
उन्होंने कहा कि **हर कोई जानता है** कि कौन सा **राजनीतिक दल** एक **समुदाय** को **खलनायक** के रूप में पेश करने और उसके खिलाफ **प्रचार बनाने** की कोशिश करता है।



Modi, Yunus set aside differences, hold talks on border security, minorities, Sheikh Hasina

**GS Paper II:
India-Bangladesh**

Sulastin Triatuti
NEW DELHI

Setting aside the tensions of the past eight months in their first meeting since the regime change in Dhaka, Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh's Chief Advisor Muhammad Yunus held talks on the sidelines of the BIMSTEC regional summit in Bangkok on Friday.

While both leaders raised contentious issues – including India's call for the protection of minorities in Bangladesh, Dhaka's demand for the extradition of former Bangladesh PM Sheikh Hasina, and border security issues – during the meeting, they met on cordial terms and exchanged commitments to bilateral ties. Bangladesh will host the BIMSTEC summit next year, and Mr. Modi congratulated Mr. Yu-



Prime Minister Narendra Modi meets Bangladesh Chief Advisor Muhammad Yunus, in Bangkok on Friday. ANI

nus for assuming its chairmanship.

The Modi-Yunus meeting on Friday was held just after the conclusion of the sixth summit of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), a seven-nation grouping that links South Asia and South East Asia.

Mr. Modi also met with Myanmar junta comman-

der and PM General Min Aung Hlaing for the first time since the military came to power in 2021, and Nepal PM K.P. Sharma Oli, on the sidelines of the meeting. All three leaders have chosen to visit China, while New Delhi has not issued invitations to them, due to tensions over a number of issues, and concerns over the legitimacy of the governments in Dha-

ka and Naypyitaw.

Mr. Modi expressed India's support for a "democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh", and "urged that rhetoric that vitiates the environment is best avoided", according to a statement issued by the Ministry of External Affairs.

During talks with Gen. Min Aung Hlaing, the Prime Minister "underlined the importance of early restoration of the democratic process in Myanmar, including through credible and inclusive elections", the MEA said. The General thanked India for its assistance with ongoing relief efforts after devastating earthquakes hit Mandalay and other parts of the country last week.

Mr. Modi said in a social media post that his meeting with Mr. Oli had been "productive". The two

leaders discussed the "India-Nepal friendship, especially in sectors like energy, connectivity, culture and digital technology".

New Delhi and Dhaka gave no indication of whether Mr. Yunus – whose office had also told *The Hindu* about asking to visit India – had received an invitation from Mr. Modi either.

Foreign Secretary Vikram Misri said that the Prime Minister had expressed concern over the "safety and security of minorities, including Hindus", who were targeted in the aftermath of Ms. Hasina's departure from Dhaka. "[The PM] expressed his hope that the [Bangladesh] government would fulfil its responsibilities with seriousness and ensure that these matters are properly investigated and addressed," he added.

Modi, Yunus set aside differences, hold talks on border security, minorities, Sheikh Hasina

मोदी और यूनुस ने मतभेद भुलाकर सीमा सुरक्षा, अल्पसंख्यकों और शेख हसीना पर चर्चा की

Setting aside the tensions of the past eight months in their first meeting since the regime change in Dhaka, Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh's Chief Advisor Muhammad Yunus held talks on the sidelines of the **BIMSTEC regional summit in Bangkok** on Friday.

ढाका में सत्ता परिवर्तन के बाद हुई अपनी पहली बैठक में, पिछले आठ महीनों के तनाव



को भुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनस ने शुक्रवार को बैंकॉक में BIMSTEC क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के इतर बातचीत की।

- While both leaders raised **contentious issues** — including **India's call for the protection of minorities in Bangladesh**, **Dhaka's demand for the extradition of former PM Sheikh Hasina**, and **border security issues** — they met on **cordial terms** and exchanged commitments to **bilateral ties**.

जहां दोनों नेताओं ने **विवादास्पद मुद्दे** उठाए — जैसे कि **बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भारत की अपील**, **पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की ढाका की मांग**, और **सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे** — वहीं उन्होंने **सौहार्दपूर्ण माहौल** में मुलाकात की और **द्विपक्षीय संबंधों** को लेकर प्रतिबद्धताएं जताईं।

- **Bangladesh will host the BIMSTEC summit next year**, and Mr. Modi congratulated Mr. Yunus for assuming its **chairmanship**.

बांग्लादेश अगले साल **BIMSTEC शिखर सम्मेलन** की मेज़बानी करेगा, और श्री मोदी ने श्री यूनस को इसकी **अध्यक्षता** संभालने पर बधाई दी।

- The **Modi-Yunus meeting on Friday** was held just after the conclusion of the **sixth summit** of the **Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)**, a **seven-nation grouping that links South Asia and South East Asia**.

मोदी-यूनस की शुक्रवार को हुई बैठक, **बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC)** के **छठे शिखर सम्मेलन** के तुरंत बाद हुई, जो कि **दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया** को जोड़ने वाला **सात देशों का समूह** है।

- **Mr. Modi also met with Myanmar junta commander and PM General Min Aung Hlaing for the first time since the military came to power in 2021**, and **Nepal PM K.P. Sharma Oli**, on the sidelines of the meeting.

श्री मोदी ने इस बैठक के दौरान **म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख और प्रधानमंत्री जनरल मिन आंग हलाइंग** से भी **2021 में सैन्य सत्ता में आने के बाद पहली बार मुलाकात** की, साथ ही **नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली** से भी मिले।

- All three leaders have chosen to **visit China**, while **New Delhi has not issued invitations** to them, due to **tensions over a number of issues**, and concerns over the **legitimacy** of the governments in **Dhaka and Naypyitaw**.

तीनों नेताओं ने **चीन का दौरा करने का विकल्प** चुना है, जबकि **नई दिल्ली** ने उन्हें कोई आमंत्रण जारी नहीं किया, क्योंकि **कई मुद्दों पर तनाव और ढाका और नेपीतॉ में सरकारों की वैधता** को लेकर चिंता है।

India's message on democracy and minorities

लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों पर भारत का संदेश

- Mr. Modi expressed **India's support** for a “**democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh**”, and urged that rhetoric that vitiates the environment is



best avoided, according to a statement issued by the **Ministry of External Affairs (MEA)**.

श्री मोदी ने विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी बयान के अनुसार, “लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश” के लिए भारत के समर्थन को दोहराया और परिस्थितियों को बिगाड़ने वाली बयानबाज़ी से बचने की अपील की।

- During talks with **Gen. Min Aung Hlaing**, the Prime Minister **underlined the importance of early restoration of the democratic process in Myanmar**, including through **credible and inclusive elections**, the MEA said.

जनरल मिन आंग हलाइंग के साथ वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शीघ्र बहाली, विशेष रूप से विश्वसनीय और समावेशी चुनावों के ज़रिये, के महत्व को रेखांकित किया, ऐसा विदेश मंत्रालय ने बताया।

- The **General thanked India** for its assistance with **ongoing relief efforts** after **devastating earthquakes** hit **Mandalay and other parts of the country** last week. जनरल ने पिछले सप्ताह मांडले और देश के अन्य हिस्सों में आए विनाशकारी भूकंपों के बाद चल रहे राहत प्रयासों में भारत की सहायता के लिए धन्यवाद दिया।

Meetings with regional leaders

क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात

- Mr. Modi said in a **social media post** that his meeting with **Mr. Oli** had been “**productive**”. श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी श्री ओली के साथ हुई मुलाकात “उत्पादक” रही।
- The two leaders discussed the “**India-Nepal friendship**, especially in sectors like **energy, connectivity, culture and digital technology**”. दोनों नेताओं ने “भारत-नेपाल मैत्री, विशेष रूप से ऊर्जा, कनेक्टिविटी, संस्कृति और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में” चर्चा की।

No clarity on invitation to Yunus

यूनूस को आमंत्रण पर कोई स्पष्टता नहीं

- **New Delhi and Dhaka** gave no indication of whether **Mr. Yunus** — whose office had also told *The Hindu* about asking to visit India — had received an **invitation from Mr. Modi** either. नई दिल्ली और ढाका दोनों ने इस पर कोई संकेत नहीं दिया कि क्या श्री यूनूस — जिनके कार्यालय ने द हिंदू को भारत दौरे की इच्छा जताई थी — को श्री मोदी से कोई आमंत्रण मिला था।
- **Foreign Secretary Vikram Misri** said that the Prime Minister had expressed concern over the “**safety and security of minorities, including Hindus**”, who were **targeted** in the **aftermath of Ms. Hasina’s departure from Dhaka**.



विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने “ढाका से सुश्री हसीना के प्रस्थान के बाद निशाना बनाए गए” हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।

- “[The PM] expressed his hope that the [Bangladesh] government would fulfil its responsibilities with seriousness and ensure that these matters are properly investigated and addressed,” he added.

उन्होंने कहा, “[प्रधानमंत्री] ने आशा जताई कि [बांग्लादेश] सरकार इन जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इन मामलों की ठीक से जांच और समाधान किया जाए।”

Modi reaches Colombo, to discuss key issues with Sri Lankan President

GS Paper II: India-Sri Lanka

COLOMBO

Prime Minister Narendra Modi arrived in Colombo on Friday night for a weekend visit focused on bilateral discussions and the signing of several key agreements between India and Sri Lanka. Mr. Modi travelled to Sri Lanka after attending the BIMSTEC summit in Thailand.

Invited by Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake, Mr. Modi's visit is the first by a foreign head of government since the significant political changes in Sri Lanka last year, which saw President Dissanayake and his National People's Power (NPP) alliance assume office. This follows President Dissanayake's first state visit abroad to New Delhi in December 2024, shortly after his election victory.

According to Sri Lanka's Foreign Minister Vijitha Herath, speaking in an interview with *The Hindu*



Artistic greeting: Prime Minister Narendra Modi being welcomed in Colombo on Friday. @NARENDRAMODI/X

earlier this week, a total of eight Memoranda of Understanding (MoUs) are expected to be signed during the visit, covering sectors such as energy, digital infrastructure, health, and defence

Ties 'never been better' Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha remarked to local media that bilateral ties “have never been better”. He added that Mr. Modi's visit aims to build upon the “very com-

prehensive” joint statement adopted during Mr. Dissanayake's trip to New Delhi.

The PM's official engagements begin on Saturday, April 5. Accompanied by External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Adviser Ajit Doval, and Foreign Secretary Vikram Misri, Mr. Modi will receive a ceremonial guard of honour at Independence Square in Colombo. This will be followed by bilateral talks and the signing of

agreements at the Presidential Secretariat.

Sources in Colombo indicated that Mr. Modi's schedule on Saturday also includes meetings with several opposition political figures, including representatives of the Tamil community. On Sunday, April 6, Mr. Modi is scheduled to travel to Anuradhapura in Sri Lanka's North Central Province.

Key topics expected during the discussions include ongoing economic cooperation, Sri Lanka's debt restructuring efforts, potential Indian investments, and the sensitive, long-standing fisheries conflict affecting Tamil fishermen from both Sri Lanka's northern province and Tamil Nadu.

The fisheries issue gains added significance as Mr. Modi is scheduled to travel directly from Sri Lanka to Rameswaram in Tamil Nadu on April 6, a coastal town from which many bottom trawlers operate.

Modi reaches Colombo, to discuss key issues with Sri Lankan President

मोदी कोलंबो पहुँचे, श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे

- **Prime Minister Narendra Modi arrived in Colombo on Friday night for a weekend visit focused on bilateral discussions and the signing of several key agreements between India and**

Sri Lanka.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार रात कोलंबो पहुँचे, जहाँ उनका सप्ताहांत दौरा भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय चर्चा और कई महत्वपूर्ण समझौतों के हस्ताक्षर पर केंद्रित है।



- Mr. Modi travelled to Sri Lanka after attending the **BIMSTEC summit** in Thailand.
श्री मोदी ने थाईलैंड में आयोजित बिम्सटेक सम्मेलन में भाग लेने के बाद श्रीलंका की यात्रा की।
- Invited by **Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake**, Mr. Modi's visit is the **first by a foreign head of government** since the **significant political changes** in Sri Lanka last year.
श्रीलंकाई राष्ट्रपति **अनुर कुमार डिसानायके** के आमंत्रण पर, श्री मोदी की यह यात्रा पिछले वर्ष श्रीलंका में हुए बड़े राजनीतिक बदलावों के बाद किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख की पहली यात्रा है।
- These changes saw President Dissanayake and his **National People's Power (NPP)** alliance assume office.
इन बदलावों के तहत राष्ट्रपति डिसानायके और उनकी नेशनल पीपल्स पावर (NPP) गठबंधन ने सत्ता संभाली।
- This follows President Dissanayake's **first state visit abroad to New Delhi in December 2024**, shortly after his election victory.
यह यात्रा राष्ट्रपति डिसानायके की चुनाव जीत के तुरंत बाद दिसंबर 2024 में नई दिल्ली की गई उनकी पहली विदेशी राजकीय यात्रा के बाद हो रही है।
- According to **Sri Lanka's Foreign Minister Vijitha Herath**, a total of **eight Memoranda of Understanding (MoUs)** are expected to be signed during the visit.
श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेराथ के अनुसार, इस यात्रा के दौरान कुल आठ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
- These MoUs will cover sectors such as **energy, digital infrastructure, health, and defence**.
ये समझौते ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करेंगे।

Ties 'never been better' संबंध 'अब तक के सबसे अच्छे'

- **Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha** remarked to local media that bilateral ties "**have never been better**".
श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने स्थानीय मीडिया से कहा कि द्विपक्षीय संबंध "अब तक के सबसे बेहतर" हैं।
- He added that Mr. Modi's visit aims to build upon the "**very comprehensive**" joint statement adopted during Mr. Dissanayake's trip to New Delhi.
उन्होंने कहा कि श्री मोदी की यह यात्रा डिसानायके की नई दिल्ली यात्रा के दौरान जारी "बहुत व्यापक" संयुक्त बयान को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखती है।
- The PM's official engagements begin on **Saturday, April 5**.
प्रधानमंत्री की आधिकारिक बैठकें शनिवार, 5 अप्रैल से शुरू होंगी।
- Accompanied by **External Affairs Minister S. Jaishankar**, **National Security Adviser Ajit Doval**, and **Foreign Secretary Vikram Misri**, Mr. Modi will receive a **ceremonial guard of honour** at Independence Square in Colombo.



विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ, श्री मोदी को कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।

- This will be followed by **bilateral talks** and the **signing of agreements** at the **Presidential Secretariat**.

इसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय में द्विपक्षीय वार्ता और समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे।

- Sources in Colombo indicated that Mr. Modi's schedule on **Saturday** also includes meetings with **several opposition political figures**, including representatives of the **Tamil community**.

कोलंबो के सूत्रों ने बताया कि शनिवार को श्री मोदी का कार्यक्रम विपक्षी नेताओं और तमिल समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी शामिल करता है।

- On **Sunday, April 6**, Mr. Modi is scheduled to travel to **Anuradhapura in Sri Lanka's North Central Province**.

रविवार, 6 अप्रैल को श्री मोदी श्रीलंका के उत्तर-मध्य प्रांत में स्थित अनुराधापुर की यात्रा करेंगे।

Key topics expected

अपेक्षित प्रमुख मुद्दे

- Key topics expected during the discussions include **ongoing economic cooperation, Sri Lanka's debt restructuring efforts, potential Indian investments, and the sensitive, long-standing fisheries conflict**.

चर्चा के दौरान अपेक्षित प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं — चालू आर्थिक सहयोग, श्रीलंका के कर्ज पुनर्गठन के प्रयास, संभावित भारतीय निवेश, और संवेदनशील व दीर्घकालीन मत्स्य संघर्ष।

- This fisheries conflict affects **Tamil fishermen** from both **Sri Lanka's northern province** and **Tamil Nadu**.

यह मत्स्य संघर्ष श्रीलंका के उत्तरी प्रांत और तमिलनाडु के तमिल मछुआरों को प्रभावित करता है।

- The fisheries issue gains added significance as Mr. Modi is scheduled to travel directly from **Sri Lanka to Rameswaram in Tamil Nadu** on **April 6**, a **coastal town** from which many **bottom trawlers** operate.

यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि श्री मोदी 6 अप्रैल को श्रीलंका से सीधे तमिलनाडु के रामेश्वरम, जो एक तटीय कस्बा है और जहाँ से कई बॉटम ट्रॉलर संचालित होते हैं, की यात्रा करेंगे।



First Budget Session of the 18th Lok Sabha concludes with record productivity

**GS Paper II:
Parliament**

NEW DELHI

The first Budget Session of the 18th Lok Sabha concluded on Friday, with both Houses of Parliament passing the controversial Waqf (Amendment) Bill.

The session that was marked by high productivity saw disruptions on the last day, with adjournments in both Houses.

In the Rajya Sabha, the Treasury benches began the protests, flagging the Supreme Court judgment upholding the Calcutta High Court's decision cancelling *en bloc* a "tainted" selection process which saw the appointments of nearly 24,000 teachers and non-teaching staff in government and aided schools in West Bengal.

Speaking amid the din, Trinamool Congress's Rajya Sabha leader Derek O'Brien said, "People of In-



Kiren Rijju

dia are seeing that BJP MPs in the Treasury benches are disrupting Parliament... we are not allowed to raise a single issue in Parliament." The Trinamool's demand to hold a debate on duplication of Electoral Photo Identity Cards was not heeded to.

'History created'

Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijju, said the session was a success. At the customary press conference held on conclusion of the session, he told re-

porters that the productivity of Lok Sabha during the session was 118% and that of the Upper House was 119%.

He said history was created and old records were broken in the Rajya Sabha when it sat without a break for 17.02 hours from 11 a.m. on Thursday till 4.02 a.m. on Friday to clear the Waqf Bill, besides endorsing the President's Rule in Manipur. A total of 16 Bills were passed by both Houses of Parliament.

Chairman Jagdeep Dhankhar also lauded the high productivity in the Rajya Sabha.

In his concluding remarks, he said, "After a long gap, the House witnessed welcome wit, humour, sarcasm and repartee, apart from intellectual fusion while ensuring parliamentary decorum, cross-party collaboration, and legislative rigour."

First Budget Session of the 18th Lok Sabha concludes with record productivity

18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र ऐतिहासिक उत्पादकता के साथ समाप्त

The first Budget Session of the 18th Lok Sabha concluded on Friday, with both Houses of Parliament passing the controversial Waqf (Amendment) Bill.

18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र शुक्रवार को समाप्त हुआ, जिसमें

संसद के दोनों सदनों ने विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किया।

- The session that was marked by **high productivity** saw **disruptions** on the last day, with **adjournments** in both Houses.
इस सत्र की उच्च उत्पादकता के बावजूद अंतिम दिन व्यवधान और दोनों सदनों में स्थगन देखने को मिला।
- In the **Rajya Sabha**, the **Treasury benches** began the protests, flagging the **Supreme Court judgment** upholding the **Calcutta High Court's decision** cancelling *en bloc* a



“tainted” selection process.

राज्यसभा में सत्तापक्ष ने विरोध शुरू किया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आवाज उठाई, जिसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें एक "दागी" चयन प्रक्रिया को सामूहिक रूप से रद्द कर दिया गया था।

- This selection process saw the appointments of nearly **24,000 teachers and non-teaching staff in government and aided schools in West Bengal.**
इस चयन प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग **24,000 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी** नियुक्त किए गए थे।
- Speaking amid the din, **Trinamool Congress's Rajya Sabha leader Derek O'Brien** said, “People of India are seeing that **BJP MPs** in the Treasury benches are **disrupting Parliament...** we are not allowed to raise a single issue in Parliament.”
हंगामे के बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा, “भारत की जनता देख रही है कि सत्तापक्ष में बैठे बीजेपी सांसद संसद में व्यवधान डाल रहे हैं... हमें संसद में एक भी मुद्दा उठाने नहीं दिया जा रहा।”
- The **Trinamool's demand** to hold a debate on **duplication of Electoral Photo Identity Cards** was not heeded to.
तृणमूल की मांग कि मतदाता फोटो पहचान पत्र की दोहराव की समस्या पर बहस हो, नहीं मानी गई।
- **'History created'**
'इतिहास रचा गया'
- **Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju** said the session was a **success.**
संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि यह सत्र सफल रहा।
- At the **customary press conference** held on conclusion of the session, he told reporters that the **productivity of Lok Sabha during the session was 118% and that of the Upper House was 119%.**
सत्र की समाप्ति पर आयोजित परंपरागत प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इस सत्र में **लोकसभा की उत्पादकता 118% और राज्यसभा की उत्पादकता 119%** रही।
- He said **history was created and old records were broken** in the **Rajya Sabha** when it sat without a break for **17.02 hours from 11 a.m. on Thursday till 4.02 a.m. on Friday.**
उन्होंने कहा कि राज्यसभा में इतिहास रचा गया और पुराने रिकॉर्ड टूटे, जब सदन ने **गुरुवार सुबह 11 बजे से शुक्रवार सुबह 4.02 बजे तक लगातार 17.02 घंटे तक कार्यवाही चलाई।**
- This extended session helped to **clear the Waqf Bill**, besides endorsing the **President's Rule in Manipur.**
इस लम्बे सत्र में **वकफ बिल पारित** किया गया और **मणिपुर में राष्ट्रपति शासन** को भी मंजूरी दी गई।
- A total of **16 Bills** were passed by both Houses of Parliament.
संसद के दोनों सदनों ने कुल **16 विधेयक** पारित किए।
- **Chairman Jagdeep Dhankhar** also lauded the **high productivity** in the **Rajya Sabha.**
सभापति जगदीप धनखड़ ने भी राज्यसभा की उच्च उत्पादकता की सराहना की।
- In his concluding remarks, he said, “After a long gap, the House witnessed welcome wit, humour, sarcasm and repartee, apart from **intellectual fusion** while ensuring



parliamentary decorum, cross-party collaboration, and legislative rigour.”

अपने समापन भाषण में उन्होंने कहा, “काफी लंबे समय बाद सदन ने बौद्धिक समन्वय के साथ-साथ व्यंग्य, हास्य, तर्क-वितर्क का स्वागत किया, और साथ ही संसदीय शिष्टाचार, दलों के बीच सहयोग, और विधायी कठोरता को सुनिश्चित किया गया।”



GS Paper II: Legal System

Allahabad High Court refuses to quash summons to Rahul

The Allahabad High Court on Friday refused to quash summons issued to Congress leader Rahul Gandhi in the V.D. Savarkar defamation case by a magistrate court in Lucknow. The Bench of Justice Subhash Vidyarthi noted that Mr. Gandhi had the remedy of moving the Sessions Judge under Section 397 of the Cr.PC (Section 438 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita). “The inherent powers of this court recognised by Section 482 Cr.P.C. are meant to be invoked to secure the ends of justice,” the court said while dismissing Mr. Gandhi’s plea. Mr. Gandhi had challenged an order of the trial court summoning him in the defamation case filed by advocate Nripendra Pandey.

सुरक्षा संहिता की धारा 438) के तहत सत्र न्यायाधीश के पास जाने का विकल्प है।

• “The inherent powers of this court recognised by Section 482 Cr.P.C. are meant to be invoked to secure the ends of justice,” the court said while dismissing Mr. Gandhi’s plea.

अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए कहा, “धारा 482 सीआरपीसी द्वारा मान्यता प्राप्त अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।”

• Mr. Gandhi had challenged an order of the trial court summoning him in the defamation case filed by advocate Nripendra Pandey.

Allahabad High Court refuses to quash summons to Rahul

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल को भेजे गए समन रद्द करने से इनकार किया

The Allahabad High Court on Friday refused to quash summons issued to Congress leader Rahul Gandhi in the V.D. Savarkar defamation case by a magistrate court in Lucknow.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लखनऊ की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा वी.डी. सावरकर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।

• The Bench of Justice Subhash Vidyarthi noted that Mr. Gandhi had the remedy of moving the Sessions Judge under Section 397 of the Cr.PC (Section 438 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita).

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि राहुल गांधी के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (भारतीय नागरिक



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



राहुल गांधी ने वकील नृपेन्द्र पांडेय द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत द्वारा उन्हें समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी।

Section 397 of the Code of Criminal Procedure (CrPC)

- Section 397 of the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973, and Section 438 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023: An Overview
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 397 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 438: एक अवलोकन
- Section 397 of the CrPC and Section 438 of the BNSS empower higher courts to **supervise and rectify proceedings** of subordinate criminal courts to ensure **justice and legal propriety**.
CrPC की धारा 397 और BNSS की धारा 438 उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों की कार्यवाही की **समीक्षा और सुधार** करने का अधिकार देती हैं ताकि **न्याय और विधिक औचित्य** सुनिश्चित किया जा सके।

1. Section 397 of the CrPC, 1973

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397

Purpose: Grants the **High Court and Sessions Judges** the authority to call for and examine records from subordinate criminal courts to assess the **correctness, legality, or propriety** of any finding, sentence, or order.

उद्देश्य: उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीशों को अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों से अभिलेख मांगने और किसी निर्णय, सजा या आदेश की **सही व्याख्या, वैधता या उपयुक्तता** का मूल्यांकन करने का अधिकार प्रदान करता है।

Key Provisions

मुख्य प्रावधान

- The superior court may **suspend the execution** of any sentence or order under review.
- उच्च न्यायालय किसी भी **समीक्षा के अधीन सजा या आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित** कर सकता है।
- If the accused is in confinement, the court can order their **release on bail or personal bond** during the examination of the record.
- यदि आरोपी **हिरासत में है**, तो न्यायालय **जमानत या निजी मुचलके** पर उसकी रिहाई का आदेश दे सकता है।
- Revisional powers cannot be exercised concerning **interlocutory orders** (i.e., interim orders that do not decide the case conclusively).

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



• पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग अंतरिम आदेशों (जो किसी मामले का अंतिम निपटान नहीं करते) के संबंध में नहीं किया जा सकता।

Scope and Limitations

दायरा और सीमाएं

• Revisional jurisdiction is meant to **correct substantial errors** that lead to a **miscarriage of justice**.

• पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उद्देश्य गंभीर त्रुटियों को सुधारना है जो न्याय की विफलता का कारण बनती हैं।

• It is **not intended as a second appeal**, but to ensure decisions of lower courts adhere to **legal standards**.

• इसका उद्देश्य दूसरी अपील के रूप में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय कानूनी मानकों के अनुरूप हों।

• The High Court or Sessions Judge should **not interfere with findings of fact**, unless there is a **glaring error or manifest illegality**.

• उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश को तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई स्पष्ट त्रुटि या स्पष्ट गैरकानूनीता न हो।

2. Section 438 of the BNSS, 2023

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 438

Context: The BNSS, 2023, is a legislative initiative aimed at **overhauling and modernizing** India's criminal laws.

प्रसंग: BNSS, 2023, भारत के आपराधिक कानूनों को सुधारने और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लाया गया एक विधायी प्रयास है।

Provisions: Section 438 mirrors the provisions of **Section 397 of the CrPC**, granting similar **revisional powers** to High Courts and Sessions Judges.

प्रावधान: धारा 438, CrPC की धारा 397 के प्रावधानों के समान है, और उच्च न्यायालयों तथा सत्र न्यायाधीशों को समान पुनरीक्षण शक्तियां प्रदान करती है

Key Features

मुख्य विशेषताएं

• Empowers higher courts to call for records from subordinate courts to examine **correctness, legality, or propriety** of decisions and **regularity of proceedings**.



• उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख मंगवाकर निर्णय की सत्यता, वैधता या उपयुक्तता और कार्यवाही की नियमितता की जांच करने का अधिकार देता है।

• Allows **suspension of sentences or orders** and release of accused on **bail or personal bond** during the examination.

• सजा या आदेश के निलंबन और जमानत या निजी मुचलके पर आरोपी की रिहाई की अनुमति देता है।

• Restricts revisional powers concerning **interlocutory orders**.

• अंतरिम आदेशों के संबंध में पुनरीक्षण शक्तियों को सीमित करता है।

3. Comparative Insights

3. तुलनात्मक विश्लेषण

• **Continuity and Change:** While Section 438 of BNSS retains the **core principles** of CrPC's Section 397, it aims to **modernize and streamline** legal procedures.

• निरंतरता और परिवर्तन: BNSS की धारा 438, CrPC की धारा 397 के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए, कानूनी प्रक्रियाओं को आधुनिक और सुव्यवस्थित करने की दिशा में प्रयास करती है।

• **Judicial Interpretation:** Courts have consistently ruled that revisional powers should be used **sparingly**, to correct **errors resulting in miscarriage of justice**, not to **re-evaluate evidence**.

• न्यायिक व्याख्या: न्यायालयों ने निरंतर कहा है कि पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग **संयमपूर्वक** किया जाना चाहिए, केवल उन्हीं त्रुटियों को सुधारने के लिए जो न्याय में चूक का कारण बनती हैं, न कि सबूतों की पुनः समीक्षा के लिए।



A case for the Global South in securing Ukraine peace

GS Paper II: NATO and Ukraine

As the devastating war in Ukraine edges toward a fragile ceasefire, recently reinforced by maritime and energy truces brokered in Riyadh, the question of a more enduring peace looms large, along with a related question: who will oversee its implementation?

Peace seems to be in prospect, as both sides appear weary of a long-drawn out attritional conflict. The recent Black Sea deal follows talks initiated by United States President Donald Trump, who has vowed to swiftly end the war that has now entered its fourth year.

While western leaders, notably France's President Emmanuel Macron and Britain's Prime Minister Keir Starmer, have floated the idea of a European-led peacekeeping force, this proposition is rife with challenges and contradictions. Russia has made it clear that no troops from North Atlantic Treaty Organization (NATO) member-countries would be welcome, and most of Europe is already in NATO. A peacekeeping force whose very presence would be seen as a *casus belli* is evidently a non-starter.

It is time for the Global South – a coalition of nations from Africa, Asia, and Latin America – to rise to the occasion and offer to lead a United Nations-backed peacekeeping mission in Ukraine. Doing so would not only ensure credibility and neutrality but also symbolise the emergence of the Global South as an indispensable force in shaping global stability.

The perils of a European peacekeeping force
Europe's enthusiasm for spearheading peacekeeping in Ukraine appears, at first glance, logical – its proximity to the conflict and its strategic stake in the region make it a natural candidate. While promoting a "coalition of the willing", Mr. Starmer has already promised to send British troops as part of any post-war peacekeeping operation. Yet, this logic crumbles under the weight of Russia's vehement opposition. Moscow views a European-led force as a NATO Trojan horse, a thinly veiled ploy to expand the alliance's reach into Ukraine. Such a deployment would not only exacerbate tensions but also risk transforming peacekeepers into catalysts for further conflict. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov declared during a recent visit to Qatar that it would only "further fuel the conflict and stop any attempts to calm it down".

Moreover, European public opinion is far from aligned with the ambitions of its leaders. Polls reveal widespread resistance to deploying troops in what would undoubtedly be a perilous theatre of operations. When Mr. Macron first suggested French troops for such an endeavour earlier this year, opinion polls showed an overwhelming majority of French citizens opposing the idea. Even if political will is mustered, the logistical realities of sustaining such a mission without



Shashi Tharoor

is a fourth-term Member of Parliament (Lok Sabha), Congress party, and is the award-winning author of 26 books, including 'Pax Indica: India and the World of the 21st Century'. As a senior United Nations official, he led the team responsible for peace-keeping operations in the former Yugoslavia



E.D. Mathew

is a former United Nations spokesperson. He has been part of the United Nations peacekeeping missions in Timor-Leste and Liberia

The Ukraine war is a chance for the Global South to emerge as a force that is credible and neutral in shaping global stability

heavy reliance on U.S. support – which, in the Trump era, may or may not be available – would expose Europe's limitations. In a conflict fraught with delicate balances, the stakes are too high to gamble on an arrangement perceived as partial and provocative.

The Global South has the credentials

The presence of NATO troops along the front line with Russian forces, even in a peacekeeping capacity, heightens the chances of a broader confrontation, a risk the international community can ill afford. In stark contrast, the Global South offers a compelling alternative. Unlike Europe, nations from Africa, Asia, and Latin America have largely maintained a principled neutrality in the Russia-Ukraine conflict. This impartiality – symbolised by Prime Minister Narendra Modi hugging both Russian President Vladimir Putin in Moscow and Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy in Kyiv, two weeks apart – grants them the moral high ground, making them uniquely positioned to maintain the trust of both Kyiv and Moscow. A peacekeeping mission led by the Global South would not only de-escalate tensions but also inject a much-needed sense of fairness into the proceedings.

The Global South's credentials are far from theoretical. The African Union (AU)'s record of peacekeeping, whether in Sudan, Somalia, or the Central African Republic, speaks volumes about its ability to navigate volatile environments. Similarly, BRICS member countries such as Brazil, India, South Africa and Indonesia have demonstrated their diplomatic acumen and operational expertise in UN peacekeeping missions. Even smaller nations such as Chile bring specialised skills, such as demining, which are crucial for Ukraine's reconstruction. Their track record in UN peacekeeping missions strengthens their credibility as potential leaders in Ukraine's stabilisation efforts.

For a Global South-led peacekeeping mission to succeed, several conditions must be met. A robust and well-defined ceasefire agreement is, of course, a prerequisite. Equally critical is the demarcation of a clear front line, a task demanding meticulous negotiations. Financial and logistical support from western nations, particularly the European Union, would bolster the mission's capacity. All of these would be available if the operation was authorised by the United Nations Security Council and enjoyed the approval and co-operation of both parties to the conflict. Crucially, excluding NATO troops entirely would assuage Russian concerns and underscore the mission's neutrality. Finally, as India demonstrated in Liberia, the inclusion of female peacekeepers, whose presence has been shown to foster community trust and address gender-based violence, would further enhance the

initiative's legitimacy.

India, with its storied legacy in UN peacekeeping, is especially well-placed to take a leadership role. Having contributed over 2,90,000 peacekeepers to more than 50 UN missions, India's experience is unparalleled. Currently, more than 5,000 Indian peacekeepers are deployed in nine of the 11 active peace operations. In 2007, India became the first country to deploy an all-women police contingent to a peacekeeping mission, in war-torn Liberia. More than 160 Indian peacekeepers have paid the ultimate price serving under the UN flag so far – the highest number for any troop-contributing country.

It was no accident that then UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali turned to India to lead the UN peace-keeping operation in the former Yugoslavia in 1992. As in that situation, India's neutral stance in the Ukraine conflict and its balanced relationships with Russia, the West, and Ukraine make it a natural choice to spearhead this effort. There is a strong case for India to shed its reticence and step forward with the assertiveness the moment demands.

Meanwhile, China has been far more proactive, positioning itself as a potential peacemaker despite its close ties to Moscow. Beijing has also appointed a seasoned diplomat as its special envoy for Ukraine, whereas India has yet to take comparable steps.

The broader imperative

A peacekeeping mission in Ukraine under the auspices of the United Nations offers more than just a pathway to stability in Eastern Europe. It is an opportunity for the Global South to assert its rightful place at the high table of international diplomacy. For decades, this grouping – still too inchoate to be termed a bloc – has been relegated to the margins of global decision-making, its voice often drowned out by the cacophony of western powers. Taking the lead in Ukraine would signal a shift, a bold declaration that the Global South is not merely a passive observer but an active shaper of the world order.

As we stand at this historic juncture, the choice is clear. The task of securing peace in Ukraine cannot be left to actors whose partiality risks undermining the very truce they are meant to protect. It is time for the Global South to seize the mantle of leadership, offering a vision of peace that is inclusive, credible, and enduring. A peacekeeping mission in Ukraine under the UN banner would provide the global body with a crucial opportunity to reaffirm its role in maintaining international peace and security. For India, active participation in such an effort would not only cement its standing as a global power but also affirm its growing influence in shaping international diplomacy.

A case for the Global South in securing Ukraine peace

यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल साउथ की भूमिका का मामला

As the devastating war in Ukraine edges toward a fragile ceasefire, recently reinforced by maritime and energy truces brokered in Riyadh,



the question of a more enduring peace looms large, along with a related question: who will oversee its implementation?

जब यूक्रेन में विनाशकारी युद्ध धीरे-धीरे एक नाज़ुक युद्धविराम की ओर बढ़ रहा है, जिसे हाल ही में रियाद में समुद्री और ऊर्जा युद्धविराम समझौतों से मजबूत किया गया, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है कि स्थायी शांति कैसे सुनिश्चित होगी और इसका कार्यान्वयन कौन करेगा?

- Peace seems to be in prospect, as both sides appear weary of a long-drawn out attritional conflict.
शांति की संभावना दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों पक्ष लंबे समय तक चले थकाऊ संघर्ष से थक चुके हैं।
- The recent **Black Sea deal** follows talks initiated by **United States President Donald Trump**, who has vowed to swiftly end the war that has now entered its **fourth year**.
हालिया **ब्लैक सी समझौता** उन वार्ताओं के बाद हुआ है जिन्हें **अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप** ने शुरू किया था, जिन्होंने इस **चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके युद्ध** को शीघ्र समाप्त करने का संकल्प लिया है।
- While **western leaders**, notably **France's President Emmanuel Macron** and **Britain's Prime Minister Keir Starmer**, have floated the idea of a **European-led peacekeeping force**, this proposition is rife with **challenges and contradictions**.
जबकि **पश्चिमी नेताओं**, विशेष रूप से **फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ** और **ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर**, ने **यूरोपीय नेतृत्व वाली शांति सेना** का सुझाव दिया है, यह प्रस्ताव **चुनौतियों और विरोधाभासों** से भरा हुआ है।
- **Russia** has made it clear that no troops from **NATO member-countries** would be welcome, and most of **Europe** is already in **NATO**.
रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि **नाटो सदस्य देशों** की कोई भी सेना स्वीकार्य नहीं होगी, और **यूरोप का अधिकांश हिस्सा पहले से ही नाटो का हिस्सा है।**
- A **peacekeeping force** whose very presence would be seen as a **casus belli** is evidently a **non-starter**.
एक **शांति सेना** जिसकी उपस्थिति को **युद्ध का कारण** माना जाएगा, वह स्पष्ट रूप से **अस्वीकार्य प्रस्ताव है।**
- It is time for the **Global South** — a coalition of nations from **Africa, Asia, and Latin America** — to rise to the occasion and offer to lead a **United Nations-backed peacekeeping mission in Ukraine**.
अब समय आ गया है कि **ग्लोबल साउथ** — जिसमें **अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका** के देश शामिल हैं — आगे आए और **संयुक्त राष्ट्र समर्थित यूक्रेन में शांति मिशन** का नेतृत्व करने की पेशकश करें।
- Doing so would not only **ensure credibility and neutrality** but also **symbolise the emergence of the Global South** as an indispensable force in shaping **global stability**.
ऐसा करने से न केवल **विश्वसनीयता और निष्पक्षता** सुनिश्चित होगी, बल्कि यह **वैश्विक स्थिरता** को आकार देने में **ग्लोबल साउथ** की एक अनिवार्य शक्ति के रूप में उभरने का प्रतीक भी होगा।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



The perils of a European peacekeeping force यूरोपीय शांति सेना की चुनौतियाँ

● Europe's enthusiasm for spearheading **peacekeeping in Ukraine** appears, at first glance, logical — its **proximity to the conflict** and **strategic stake** in the region make it a natural candidate.

यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए यूरोप का उत्साह पहली नजर में तार्किक लगता है — इसकी संघर्ष क्षेत्र के निकटता और रणनीतिक हिस्सेदारी इसे एक स्वाभाविक विकल्प बनाते हैं।

● While promoting a “**coalition of the willing**”, Mr. **Starmer** has already promised to send **British troops** as part of any **post-war peacekeeping operation**.

“इच्छुक देशों का गठबंधन” को बढ़ावा देते हुए, श्री स्टारमर पहले ही युद्ध के बाद की शांति अभियान के तहत ब्रिटिश सैनिकों को भेजने का वादा कर चुके हैं।

● Yet, this logic crumbles under the weight of **Russia's vehement opposition**.

हालांकि, यह तर्क रूस के कड़े विरोध के कारण कमजोर पड़ जाता है।

● **Moscow** views a **European-led force** as a **NATO Trojan horse**, a thinly veiled ploy to expand the alliance's reach into **Ukraine**.

मॉस्को एक यूरोपीय नेतृत्व वाली सेना को नाटो का ट्रोजन हॉर्स मानता है — यह यूक्रेन में गठबंधन के प्रभाव को फैलाने की एक चालाक कोशिश के रूप में देखी जाती है।

● Such a deployment would not only exacerbate tensions but also risk transforming **peacekeepers into catalysts for further conflict**.

इस तरह की तैनाती तनाव को बढ़ाएगी और शांति सैनिकों को संघर्ष के उत्प्रेरक में बदलने का खतरा भी उत्पन्न करेगी।

● **Russian Foreign Minister Sergei Lavrov** declared during a recent visit to **Qatar** that it would only “**further fuel the conflict and stop any attempts to calm it down**”.

रूसी विदेश मंत्री **सर्गेई लावरोव** ने हाल ही में कतर की यात्रा के दौरान कहा कि इससे केवल “संघर्ष और भड़केगा और शांति प्रयास रुक जाएंगे”।

● Moreover, **European public opinion** is far from aligned with the ambitions of its leaders.

इसके अलावा, यूरोपीय जनता की राय उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाती।

● Polls reveal **widespread resistance** to deploying troops in what would undoubtedly be a **perilous theatre of operations**.

सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सैनिकों की तैनाती को लेकर व्यापक विरोध है क्योंकि यह निश्चित रूप से एक खतरनाक युद्धक्षेत्र होगा।



- When **Mr. Macron** first suggested **French troops** for such an endeavour earlier this year, **opinion polls** showed an overwhelming majority of **French citizens opposing the idea**.

जब श्री मैक्रॉ ने इस वर्ष की शुरुआत में फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती का सुझाव दिया, तो जनमत सर्वेक्षणों ने दिखाया कि फ्रांस के नागरिकों का भारी बहुमत इस विचार के खिलाफ था।

- Even if political will is mustered, the **logistical realities** of sustaining such a mission without heavy reliance on **U.S. support** — which, in the **Trump era**, may or may not be available — would expose **Europe's limitations**.

अगर राजनीतिक इच्छा भी दिखाई जाती है, तो अमेरिकी समर्थन (जो ट्रंप युग में शायद उपलब्ध न हो) के बिना इस तरह के मिशन को बनाए रखने की लॉजिस्टिक सच्चाइयाँ यूरोप की सीमाओं को उजागर कर देंगी।

- In a conflict fraught with delicate balances, the **stakes are too high** to gamble on an arrangement perceived as **partial and provocative**.

एक सूक्ष्म संतुलन वाले संघर्ष में, दांव बहुत ऊंचे हैं, और ऐसे किसी भी पक्षपाती और भड़काऊ व्यवस्था पर दांव लगाना बहुत जोखिमभरा होगा।

The Global South has the credentials

ग्लोबल साउथ के पास उपयुक्त योग्यताएं हैं

- The presence of **NATO troops** along the front line with **Russian forces**, even in a **peacekeeping capacity**, heightens the chances of a **broader confrontation**, a risk the international community can ill afford.

रूसी सेनाओं के साथ सीमा रेखा पर **NATO सैनिकों** की उपस्थिति, चाहे वह शांति स्थापना के उद्देश्य से ही क्यों न हो, **बड़े संघर्ष** की संभावना को बढ़ा देती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक **बड़ा जोखिम** है।

- In stark contrast, the **Global South** offers a compelling alternative.

इसके विपरीत, **ग्लोबल साउथ** एक प्रभावशाली विकल्प प्रस्तुत करता है।

- Unlike Europe, **nations from Africa, Asia, and Latin America** have largely maintained a **principled neutrality** in the **Russia-Ukraine conflict**.

यूरोप के विपरीत, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों ने **रूस-यूक्रेन संघर्ष** में काफी हद तक **सैद्धांतिक तटस्थता** बनाए रखी है।

- This impartiality — **symbolised by Prime Minister Narendra Modi hugging both Russian President Vladimir Putin in Moscow and Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy in Kyiv, two weeks apart** — grants them the **moral high ground**, making them uniquely positioned to maintain the **trust** of both **Kyiv** and **Moscow**.

यह तटस्थता — जिसका प्रतीक **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** द्वारा **मॉस्को** में **रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन** और दो हफ्ते बाद **कीव** में **यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की** को गले लगाना है — उन्हें **नैतिक श्रेष्ठता** प्रदान करती है, जिससे वे **कीव और मॉस्को** दोनों का विश्वास बनाए रखने में सक्षम हैं।

- A peacekeeping mission led by the **Global South** would not only **de-escalate tensions** but also inject a much-needed sense of **fairness** into the proceedings.



ग्लोबल साउथ द्वारा नेतृत्व की गई शांति मिशन न केवल तनाव को कम करेगा, बल्कि प्रक्रियाओं में आवश्यक न्यायभाव भी लाएगा।

- The Global South's credentials are far from theoretical.

ग्लोबल साउथ की योग्यताएं केवल सैद्धांतिक नहीं हैं।

- The **African Union (AU)**'s record of peacekeeping, whether in **Sudan, Somalia**, or the **Central African Republic**, speaks volumes about its ability to navigate **volatile environments**.

अफ्रीकी संघ (AU) का शांति स्थापना का रिकॉर्ड, चाहे वह सूडान, सोमालिया, या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हो, इसके अस्थिर क्षेत्रों में काम करने की क्षमता को दर्शाता है।

- Similarly, **BRICS member countries** such as **Brazil, India, South Africa**, and **Indonesia** have demonstrated their **diplomatic acumen** and **operational expertise** in **UN peacekeeping missions**.

इसी तरह, ब्रिक्स सदस्य देशों जैसे ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अपनी राजनयिक कुशलता और संचालन विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है।

- **Even smaller nations** such as **Chile** bring specialised skills, such as **demining**, which are crucial for **Ukraine's reconstruction**.

यहां तक कि चिली जैसे छोटे देश भी खनन क्षेत्र को साफ करने जैसी विशेष क्षमताएं लाते हैं, जो यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

- Their **track record** in **UN peacekeeping missions** strengthens their **credibility** as potential leaders in **Ukraine's stabilisation efforts**.

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में उनका सफल ट्रैक रिकॉर्ड, उन्हें यूक्रेन में स्थिरता लाने के प्रयासों में विश्वसनीय नेता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- **Conditions for a successful Global South-led mission**

ग्लोबल साउथ नेतृत्व वाली सफल मिशन के लिए आवश्यक शर्तें

- For a **Global South-led peacekeeping mission** to succeed, several conditions must be met.

एक ग्लोबल साउथ नेतृत्व वाली शांति मिशन की सफलता के लिए कई शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

- **A robust and well-defined ceasefire agreement** is, of course, a **prerequisite**.

एक मजबूत और स्पष्ट युद्धविराम समझौता निश्चित रूप से एक पूर्व शर्त है।

- Equally critical is the **demarcation of a clear front line**, a task demanding **meticulous negotiations**.

उतना ही आवश्यक है कि सीमा रेखा का स्पष्ट निर्धारण हो, जिसके लिए सूक्ष्म बातचीत की आवश्यकता होगी।

- **Financial and logistical support** from **western nations**, particularly the **European Union**, would bolster the mission's **capacity**.

पश्चिमी देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ, से वित्तीय और लॉजिस्टिक समर्थन इस मिशन की क्षमता को बढ़ाएगा।

- All of these would be available if the operation was **authorised by the United Nations Security Council** and enjoyed the **approval and co-operation** of **both parties** to the conflict.



यदि यह मिशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित हो और संघर्ष के दोनों पक्षों की स्वीकृति व सहयोग प्राप्त हो, तो ये सभी समर्थन संभव हैं।

- – Crucially, **excluding NATO troops entirely** would assuage Russian concerns and underscore the mission's **neutrality**.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि **NATO सैनिकों को पूरी तरह से बाहर रखा जाए**, तो यह **रूस की चिंताओं को शांत करेगा** और मिशन की तटस्थता को उजागर करेगा।

- – Finally, as **India demonstrated in Liberia, the inclusion of female peacekeepers, whose presence has been shown to foster community trust and address gender-based violence**, would further enhance the initiative's **legitimacy**.

अंततः, जैसे कि **भारत ने लाइबेरिया में दिखाया, महिला शांति सैनिकों की भागीदारी, जिनकी उपस्थिति से समुदाय में विश्वास उत्पन्न होता है और लैंगिक हिंसा से निपटने में मदद मिलती है, इस पहल की वैधता को और मजबूत करेगी।**

India's experience in UN peacekeeping

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत का अनुभव

- **India, with its storied legacy in UN peacekeeping, is especially well-placed to take a leadership role.**

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अपने समृद्ध इतिहास के साथ **भारत, नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।**

- Having contributed over **2,90,000 peacekeepers to more than 50 UN missions, India's experience is unparalleled.**

भारत ने 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक भेजे हैं, जो एक बेजोड़ अनुभव है।

- – Currently, more than **5,000 Indian peacekeepers** are deployed in **nine of the 11 active peace operations**.

वर्तमान में **5,000 से अधिक भारतीय शांति सैनिक, 11 में से 9 सक्रिय शांति अभियानों में तैनात हैं।**

- – **In 2007, India became the first country to deploy an all-women police contingent to a peacekeeping mission, in war-torn Liberia.**

2007 में, भारत ने युद्धग्रस्त लाइबेरिया में केवल महिला पुलिस दस्ते को भेजने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा।

- – More than **160 Indian peacekeepers** have paid the **ultimate price** serving under the **UN flag** — the **highest number** for any troop-contributing country.

संयुक्त राष्ट्र ध्वज के तहत सेवा करते हुए **160 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों ने प्राणों की आहुति दी है** — जो कि किसी भी दूष-सप्लाई करने वाले देश के लिए सबसे अधिक है।

- – It was no accident that then **UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali turned to India to lead the UN peace-keeping operation in former Yugoslavia in 1992.**

यह संयोग नहीं था कि **1992 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुट्स बुट्स-घाली ने पूर्व यूगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व करने के लिए भारत को चुना।**



- As in that situation, **India's neutral stance** in the **Ukraine conflict** and its **balanced relationships** with **Russia, the West, and Ukraine** make it a **natural choice** to spearhead this effort.

उस समय की तरह, यूक्रेन संघर्ष में भारत की तटस्थ स्थिति और रूस, पश्चिम और यूक्रेन के साथ संतुलित संबंध, इसे इस प्रयास का स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता बनाते हैं।

- There is a strong case for **India** to shed its **reticence** and step forward with the **assertiveness** the moment demands.

भारत के लिए यह उपयुक्त समय है कि वह अपनी **संकोचपूर्ण नीति** को छोड़ कर **साहसिक रूप से** आगे बढ़े।

China's proactive stance

चीन की सक्रिय भूमिका

- Meanwhile, **China** has been far more **proactive**, positioning itself as a potential **peacemaker** despite its **close ties to Moscow**.

इस बीच, चीन ने खुद को संभावित शांतिदूत के रूप में प्रस्तुत किया है, भले ही उसके **मॉस्को से करीबी संबंध** हैं।

- **Beijing** has also appointed a **seasoned diplomat** as its **special envoy for Ukraine**, whereas **India** has yet to take **comparable steps**.

बीजिंग ने यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में एक अनुभवी राजनयिक को नियुक्त किया है, जबकि भारत ने अब तक ऐसा कोई **ठोस कदम** नहीं उठाया है।

The broader imperative

विस्तृत आवश्यकता

- A **peacekeeping mission in Ukraine** under the **auspices of the United Nations** offers more than just a pathway to **stability in Eastern Europe**.

संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में यूक्रेन में शांति मिशन, केवल **पूर्वी यूरोप में स्थिरता** का रास्ता ही नहीं प्रदान करता।

- It is an **opportunity** for the **Global South** to assert its **rightful place** at the high table of **international diplomacy**.

यह **ग्लोबल साउथ** के लिए **अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति** की **मुख्य मंच** पर अपने उचित स्थान का दावा करने का एक अवसर है।

- For **decades**, this grouping — still too inchoate to be termed a bloc — has been relegated to the **margins** of global decision-making, its **voice** often drowned out by the **cacophony of western powers**.

दशकों से, यह समूह — जिसे अभी एक **ठोस समूह** कहना कठिन है — को **वैश्विक निर्णय प्रक्रिया** में **हाशिये पर रखा गया है**, और इसकी **आवाज़ अक्सर पश्चिमी शक्तियों के शोर में दब जाती है**।



- – Taking the **lead in Ukraine** would signal a **shift**, a **bold declaration** that the **Global South** is not merely a **passive observer** but an **active shaper** of the world order.
यूक्रेन में नेतृत्व करना एक परिवर्तन का संकेत देगा — यह एक साहसिक घोषणा होगी कि ग्लोबल साउथ सिर्फ निरीक्षक नहीं बल्कि विश्व व्यवस्था का सक्रिय निर्माता है।
- – As we stand at this **historic juncture**, the **choice is clear**.
जैसे ही हम इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, निर्णय स्पष्ट है।
- – The task of **securing peace in Ukraine** cannot be left to actors whose **partiality** risks **undermining the very truce** they are meant to protect.
यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने का कार्य उन लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता जिनकी पक्षपातपूर्ण भूमिका ही समझौते को कमजोर कर सकती है।
- – It is time for the **Global South** to seize the **mantle of leadership**, offering a **vision of peace** that is **inclusive, credible, and enduring**.
अब समय है कि ग्लोबल साउथ, नेतृत्व की जिम्मेदारी को संभाले और एक समावेशी, विश्वसनीय और स्थायी शांति का दृष्टिकोण प्रस्तुत करे।
- – A **peacekeeping mission in Ukraine** under the **UN banner** would provide the global body with a crucial opportunity to **reaffirm its role** in **maintaining international peace and security**.
संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले यूक्रेन में शांति मिशन, इस वैश्विक संस्था को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपनी भूमिका को पुनः स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।
- – For **India**, active participation in such an effort would not only **cement its standing** as a **global power** but also **affirm its growing influence** in **shaping international diplomacy**.
भारत के लिए, इस तरह के प्रयास में सक्रिय भागीदारी न केवल इसे एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को आकार देने में इसकी बढ़ती भूमिका को भी सिद्ध करेगी।



Week after massive earthquake, focus shifts to humanitarian crisis in Myanmar

The catastrophic earthquake has left thousands struggling for aid, with the **World Food Programme** scaling up efforts to assist 8.5 lakh survivors with food and cash assistance; international rescue teams from China, Thailand, Japan, other nations are on the ground, while recovery efforts continue

GS Paper II: International Organization

Associated Press
BANGKOK

Search teams in Myanmar recovered more bodies from the ruins of buildings on Friday, a week after a massive earthquake killed more than 3,100 people, as the focus turns toward the urgent humanitarian needs in a country already devastated by a continuing civil war.

United Nations humanitarian chief Tom Fletcher, who is also the emergency relief coordinator, will visit the area on Friday in an effort to spur action following the March 28 earthquake.

Ahead of the visit, UN Secretary-General Antonio Guterres appealed to the international community to immediately step up funding for quake victims "to match the scale of this crisis," and he urged unimpeded access to reach those in need.

"The earthquake has supercharged the suffering with the monsoon season just around the corner," he said.

Continuing attacks

Myanmar's military and several key armed resistance groups have all declared ceasefires in the wake of the earthquake to



Traces of ruin: A man walks past the rubble of a collapsed building in Mandalay on Friday, one week after the 7.7-strong earthquake struck Myanmar on March 28. AFP

facilitate the flow of humanitarian aid.

But the UN's Human Rights Office on Friday accused the military of continuing attacks, claiming there were more than 60 attacks after the earthquake, including 16 since the military announced a temporary ceasefire on Wednesday.

"I urge a halt to all military operations, and for

the focus to be on assisting those impacted by the quake, as well as ensuring unhindered access to humanitarian organisations that are ready to support," UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk said.

"I hope this terrible tragedy can be a turning point for the country towards an inclusive political solution."

Announcing its ceasefire, the military also said it would still take "necessary" measures against resistance groups if they use the ceasefire to regroup, train or launch attacks, and the groups have said they reserved the right to defend themselves.

Myanmar's military seized power in 2021 from the democratically elected government of Aung San

Suu Kyi, sparking what has turned into a civil war.

The quake worsened an already dire humanitarian crisis, with more than three million people displaced from their homes and nearly 20 million in need even before it hit, according to the United Nations.

Myanmar authorities said on Thursday that 3,145 people had been killed in the earthquake, with another 4,589 people injured and 221 missing, and did not immediately update the figures on Friday.

Britain, which had already allocated \$13 million to purchase emergency items such as food, water, and shelter, pledged an additional \$6.5 million in funds to match an appeal from Myanmar's Disasters Emergency Committee, according to the U.K. Embassy in Yangon.

The World Food Programme said so far it has reached 24,000 survivors but is scaling up its efforts to assist 8,50,000 with food and cash assistance for one month.

Search on

Many international search and rescue teams are now on the scene, and eight medical crews from China, Thailand, Japan, Bangladesh, Bhutan, the Philip-

ines, Indonesia, and Russia are operating in Naypyitaw, according to Myanmar's military-run government.

Another five teams from India, Russia, Laos, Nepal, and Singapore are helping in the Mandalay region, while teams from Russia, Malaysia, and the ASEAN bloc of nations are assisting in the Sagaing region.

The Donald Trump administration has pledged \$2 million in emergency aid and sent a three-person team to assess how best to respond, given drastic cuts to U.S. foreign assistance.

On Friday, five bodies were recovered from the rubble in the capital, Naypyitaw, and the second-largest city of Mandalay, near the epicentre of the 7.7 magnitude earthquake on March 28, authorities said.

The last reported rescue came on Wednesday, some 125 hours after the earthquake struck, when a man was saved from the wreckage of a hotel in Mandalay.

The earthquake also shook neighbouring Thailand, bringing down a high-rise under construction in Bangkok, where recovery work continued on Friday. Overall, 22 people have been found dead and 35 injured in Bangkok, primarily at the construction site.

Focus Shifts to Humanitarian Crisis in Myanmar After Earthquake

भूकंप के बाद म्यांमार में मानवीय संकट पर ध्यान केंद्रित

A week after a massive earthquake killed more than 3,100 people, search teams in Myanmar recovered more bodies from the ruins on Friday.

एक सप्ताह बाद, तीव्र भूकंप से 3,100 से अधिक लोगों की मौत के बाद, म्यांमार में खोज दलों ने शुक्रवार को मलबे से और शव बरामद किए।



- The focus now shifts to the **urgent humanitarian needs** in a country already devastated by a **continuing civil war**.
अब ध्यान केंद्रित हो गया है जरूरी मानवीय ज़रूरतों पर, जो देश पहले से ही चल रहे गृह युद्ध से तबाह है।
- **UN humanitarian chief Tom Fletcher**, also the **emergency relief coordinator**, will visit the area on **Friday**, following the **March 28 earthquake**.
संयुक्त राष्ट्र मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर, जो आपातकालीन राहत समन्वयक भी हैं, 28 मार्च के भूकंप के बाद शुक्रवार को क्षेत्र का दौरा करेंगे।
- **UN Secretary-General Antonio Guterres** urged the international community to **immediately step up funding** for quake victims.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भूकंप पीड़ितों के लिए तत्काल फंडिंग बढ़ाने की अपील की।
- He emphasized the urgency by noting that the **monsoon season is just around the corner**.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानसून का मौसम निकट ही है।

Ceasefire and Continuing Conflict

सीज़फायर और जारी संघर्ष

- **Myanmar's military and several resistance groups** have declared **ceasefires** to facilitate humanitarian aid.
म्यांमार की सैन्य सरकार और कई प्रतिरोधी समूहों ने मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए सीज़फायर की घोषणा की है।
- Despite this, the **UN Human Rights Office** accused the military of conducting **more than 60 attacks** after the quake, including **16 after a ceasefire** was announced on **Wednesday**.
इसके बावजूद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने सेना पर भूकंप के बाद 60 से अधिक हमले करने का आरोप लगाया, जिनमें बुधवार को सीज़फायर की घोषणा के बाद 16 हमले शामिल हैं।
- **UN Human Rights Chief Volker Turk** called for a **halt to all military operations** and emphasized the need for **unhindered humanitarian access**.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने सभी सैन्य अभियानों को रोकने की अपील की और निर्बाध मानवीय पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया।
- He expressed hope that this **tragedy** could be a **turning point** toward an **inclusive political solution**.
उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्रासदी एक समावेशी राजनीतिक समाधान की दिशा में मोड़ बन सकती है।
- The military, while announcing its ceasefire, warned of **"necessary" measures** if resistance groups **regroup, train, or attack**.



सेना ने सीज़फायर की घोषणा करते हुए चेतावनी दी कि यदि प्रतिरोध समूह पुनर्गठन, प्रशिक्षण या हमला करते हैं, तो "ज़रूरी" कदम उठाए जाएंगे।

- The **civil war** started in **2021** when the military **seized power** from the elected government of **Aung San Suu Kyi**.

गृह युद्ध की शुरुआत 2021 में हुई जब सेना ने आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार से सत्ता छीन ली।

Humanitarian Impact

मानवीय प्रभाव

- The earthquake worsened an already **dire humanitarian crisis**. भूकंप ने पहले से ही **गंभीर मानवीय संकट** को और बदतर बना दिया।
- Over **3 million people** were already displaced, and nearly **20 million** were in need **before** the earthquake, said the **UN**.
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भूकंप से पहले ही **30 लाख लोग** विस्थापित थे और लगभग **2 करोड़ लोग** सहायता की ज़रूरत में थे।
- As of **Thursday**, authorities reported **3,145 dead, 4,589 injured, and 221 missing**.
गुरुवार तक, अधिकारियों ने **3,145 मौतें, 4,589 घायल, और 221 लापता** लोगों की जानकारी दी।

Global Aid and Relief Efforts

वैश्विक सहायता और राहत प्रयास

- **Britain** pledged an **additional \$6.5 million**, after already giving **\$13 million**, to support emergency needs.
ब्रिटेन ने आपातकालीन ज़रूरतों के लिए **\$13 मिलियन** देने के बाद **अतिरिक्त \$6.5 मिलियन** देने की घोषणा की।
- The **World Food Programme (WFP)** said it has reached **24,000 survivors** and aims to support **8.5 lakh people** with food and cash for one month.
विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने कहा कि उसने **24,000 जीवित बचे लोगों** तक सहायता पहुँचाई है और **8.5 लाख लोगों** को एक महीने तक **भोजन और नकद सहायता** देने का लक्ष्य है।

International Rescue Operations

अंतरराष्ट्रीय बचाव अभियान

- International **search and rescue teams** are present across Myanmar.
अंतरराष्ट्रीय **खोज और बचाव दल** म्यांमार में सक्रिय हैं।
- **Eight medical teams** from **China, Thailand, Japan, Bangladesh, Bhutan, the Philippines, Indonesia, and Russia** are operating in **Naypyitaw**.
चीन, थाईलैंड, जापान, बांग्लादेश, भूटान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और रूस की आठ मेडिकल टीमों



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



नायप्यिताँ में कार्यरत हैं।

- **Five more teams from India, Russia, Laos, Nepal, and Singapore** are working in **Mandalay**, while **Russia, Malaysia, and ASEAN** are aiding in **Sagaing**.
भारत, रूस, लाओस, नेपाल और सिंगापुर की पाँच और टीमों मंडाले में कार्य कर रही हैं, जबकि रूस, मलेशिया और आसियान सगाइंग में मदद कर रहे हैं।
- The **U.S.** announced **\$2 million in emergency aid** and sent a **three-person team** to assess further needs.
अमेरिका ने \$2 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की और एक तीन सदस्यीय टीम भेजी।

Recent Developments and Rescue Updates

हाल की घटनाएँ और बचाव अपडेट

- On **Friday**, **five bodies** were recovered in **Naypyitaw** and **Mandalay**, near the **epicentre** of the **7.7 magnitude earthquake**.
शुक्रवार को नायप्यिताँ और मंडाले में, जो 7.7 तीव्रता के भूकंप के केंद्र के पास हैं, पाँच शव बरामद हुए।
- The last rescue was on **Wednesday**, **125 hours** after the quake, when a man was pulled from hotel rubble in **Mandalay**.
आखिरी बचाव बुधवार को हुआ, भूकंप के 125 घंटे बाद, जब मंडाले में एक होटल के मलबे से एक व्यक्ति को निकाला गया।
- The earthquake also impacted **Thailand**, causing a **high-rise under construction** in **Bangkok** to collapse.
भूकंप ने थाईलैंड को भी प्रभावित किया, जिससे बैंकॉक में निर्माणाधीन एक ऊँची इमारत गिर गई।
- In Bangkok, **22 people** were reported **dead** and **35 injured**, mostly at the construction site.
बैंकॉक में 22 लोगों की मौत और 35 घायल होने की खबर है, मुख्य रूप से निर्माण स्थल पर।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



World Food Programme (WFP)

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

- The World Food Programme (WFP) is the world's largest humanitarian organization dedicated to combating hunger and promoting food security globally.
विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख से लड़ने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- Established in 1961, WFP operates under the auspices of the United Nations (UN), providing life-saving food assistance in emergencies and working with communities to improve nutrition and build resilience.
1961 में स्थापित WFP, संयुक्त राष्ट्र (UN) के अंतर्गत कार्य करता है और आपात स्थितियों में जीवन रक्षक खाद्य सहायता प्रदान करता है तथा पोषण सुधारने और सशक्तिकरण के लिए समुदायों के साथ कार्य करता है।

Mission and Objectives

उद्देश्य और मिशन

- **Saving Lives in Emergencies:** WFP delivers critical food assistance during crises such as conflicts, natural disasters, and pandemics to prevent famine and malnutrition.
आपात स्थितियों में जीवन की रक्षा: WFP संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों जैसे संकटों के दौरान महत्वपूर्ण खाद्य सहायता प्रदान करता है ताकि अकाल और कुपोषण को रोका जा सके।
- **Changing Lives Through Development:** Beyond immediate relief, WFP implements programs for long-term food security, including school feeding, nutritional support, and agricultural productivity projects.
विकास के माध्यम से जीवन में बदलाव: तत्काल राहत के अलावा, WFP दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कार्यक्रम लागू करता है, जिनमें स्कूल फीडिंग, पोषण सहायता, और कृषि उत्पादकता परियोजनाएं शामिल हैं।

Global Presence and Operations

वैश्विक उपस्थिति और संचालन

- **Operational Reach:** As of 2024, WFP has a presence in over 120 countries and territories, with around 23,000 staff members.
संचालन पहुंच: 2024 तक, WFP की उपस्थिति 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में है, और इसमें लगभग 23,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।
- **Scale of Assistance:** In 2023, WFP aimed to assist 123 million vulnerable people and projected a budget of US\$16.9 billion for 2025.



सहायता का स्तर: 2023 में WFP ने 123 मिलियन कमजोर लोगों की सहायता करने का लक्ष्य रखा और 2025 के लिए 16.9 अरब अमेरिकी डॉलर का बजट निर्धारित किया।

Key Initiatives

प्रमुख पहलें

- **Emergency Relief:** WFP provides food aid during **conflicts, natural disasters, and economic downturns.**
- **आपातकालीन राहत:** WFP संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं, और आर्थिक मंदी के दौरान **खाद्य सहायता** प्रदान करता है।
- **School Feeding Programs:** These aim to improve **children's nutrition and education** by providing **meals in schools.**
- **स्कूल फीडिंग कार्यक्रम:** ये स्कूलों में **भोजन प्रदान करके बच्चों के पोषण और शिक्षा** को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।
- **Nutrition Support:** WFP offers **specialized nutritional products** to **pregnant women, nursing mothers, and young children.**
- **पोषण सहायता:** WFP गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, और छोटे बच्चों को **विशेष पोषण उत्पाद** प्रदान करता है।
- **Resilience Building:** It helps communities build **sustainable food systems, improve agriculture, and adapt to climate change.**
- **सशक्तिकरण निर्माण:** यह समुदायों को **सतत खाद्य प्रणाली, कृषि सुधार, और जलवायु परिवर्तन** के अनुकूल होने में मदद करता है।

Recent Challenges and Responses

हाल की चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँ

- **Funding Shortfalls:** In **March 2025**, WFP announced cuts in food aid for **over 1 million people in Myanmar** due to **funding shortages**, showing its **dependence on voluntary contributions.**
- **वित्तीय कमी:** मार्च 2025 में, WFP ने **म्यांमार में 1 मिलियन से अधिक लोगों** के लिए **खाद्य सहायता** में **कटौती** की घोषणा की, जिससे उसकी **स्वैच्छिक योगदानों पर निर्भरता** उजागर हुई।
- **Operational Adjustments:** WFP had to **reduce rations for refugees** and **reallocate resources** to the **most vulnerable** due to **funding constraints.**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• संचालन समायोजन: वित्तीय प्रतिबंधों के कारण, WFP को शरणार्थियों के लिए राशन में कटौती और संसाधनों को सबसे कमजोर लोगों के लिए पुनः आवंटित करना पड़ा।

TOPICS COVERED GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, IS)

1. China hits back with 34% tariff on U.S. goods

चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% शुल्क लगाकर जवाबी कार्रवाई की

2. SC directs CEC to survey forests in Agasthyamalai for encroachments

अगस्थ्यमलाई में अतिक्रमणों के लिए एससी ने सीईसी को जंगलों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया

3. CSIR-NAL signs technology transfer deal with firm to make HANSA trainer-planes

CSIR-NAL ने HANSA ट्रेनर-हवाई जहाजों के निर्माण के लिए एक फर्म के साथ तकनीकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए

4. American retreat

अमेरिकी पीछे हटना

5. Tanks battle polluted groundwater

प्रदूषित भूजल से जंग लड़ते टैंक

6. The risky job

खतरनाक इंजेक्शन

7. Bengaluru's metro: India's priciest transit

बेंगलुरु मेट्रो: भारत की सबसे महंगी ट्रांजिट सेवा

8. 'U.S. tariffs may pare India's FY26 real GDP growth by up to 0.3%

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



अमेरिकी टैरिफ से भारत की FY26 की वास्तविक GDP वृद्धि में 0.3% तक की कमी संभव

9. Sensex crashes 931 points amid fears of trade war, recession

व्यापार युद्ध और मंदी के डर से सेंसेक्स 931 अंक गिरा

10. India to fast-track BTA-focussed duty cuts for U.S. products

अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत बीटीए-केंद्रित शुल्क कटौती को तेज करेगा

11. Landmine-hunting rat in Cambodia sets a world record

कंबोडिया में बारूदी सुरंग खोजने वाले चूहे ने विश्व रिकॉर्ड बनाया



China hits back with 34% tariff on U.S. goods

Beijing retaliates against Trump's 'Liberation Day' tariff increase of 34% on Chinese exports

It plans to curb export of rare earth elements, vital in production of high-tech products

Donald Trump criticises China's move; they have 'played it wrong, they panicked', he says

GS Paper III: External Sector
Asso Reuters BEIJING


China announced on Friday that it will impose a 34% tariff on imports of all U.S. products beginning April 10, part of a flurry of retaliatory measures following U.S. President Donald Trump's "Liberation Day" slate of double-digit tariffs.

The new tariff matches the rate of the U.S. "reciprocal" tariff of 34% on Chinese exports that Trump ordered this week. The Commerce Ministry in Beijing also said in a notice that it will impose more export controls on rare earth elements, which are materials used in high-tech products such as computer chips and electric vehicle batteries.

Included in the list of minerals subject to con-

Widening gap

Over years, imports from China to the U.S. has grown at a much faster rate than exports from the U.S. to China



controls was samarium and its compounds, which are used in aerospace manufacturing and the defence sector. Another element called gadolinium is used in MRI scans.

'China panicked' In his response, Mr. Trump said China "played it wrong".

"China played it wrong, they panicked - the one thing they cannot afford to

do!" Mr. Trump wrote in all caps in a post on his social media platform.

China's customs administration said it had suspended chicken imports from some U.S. suppliers after it detected furazolidone, a drug banned in China, in shipments from those companies.

Separately, it said it had found high levels of mold in the sorghum and salmonella in poultry meat from

some of the companies. The announcements affect one company exporting sorghum, C&D Inc., and four poultry companies.

'Bullying practice'

The Chinese government said it had added 27 firms to lists of companies subject to trade sanctions or export controls.

Among them, 16 are subject to a ban on the export of "dual-use" goods.

India tariff cut to 26%

Press Trust of India NEW DELHI

The U.S. has revised the import duties to be imposed on India from 27% to 26%, according to a White House document. These duties will come

into force from April 9. Industry experts said it would not have much of an impact. From 2021-22 to 2023-24, the U.S. was India's largest trading partner. The U.S. accounts for about 18% of India's total goods exports.

High Point Aerotechnologies, a defence tech firm, and Universal Logistics Holding, a publicly traded transportation and logistics company, were among those listed.

Beijing also announced it filed a lawsuit with the World Trade Organization over the tariffs. "The United States' imposition of so-called 'reciprocal tariffs' seriously violates WTO rules, seriously

damages the legitimate rights and interests of WTO members, and seriously undermines the rules-based multilateral trading system and international economic and trade order," the Commerce Ministry said. "It is a typical unilateral bullying practice that endangers the stability of the global economic and trade order. China firmly opposes this," it said.

Other actions include the launch of an anti-monopoly investigation into DuPont China Group Co., a subsidiary of the multinational chemical giant, and an anti-dumping probe into X-ray tube and CT tubes for CT scanners imported from the U.S. and India. In February, China announced a 15% tariff on imports of coal and liquefied natural gas products from the U.S. It separately added a 10% tariff on crude oil, agricultural machinery and large-engine cars. Dozens of U.S. companies are subject to controls on trade and investment, while many more Chinese companies face similar limits on dealings with U.S. firms. The latest tariffs apply to all products made in the U.S., according to a statement from the Ministry of Finance's State Council Tariff Commission.

China hits back with 34% tariff on U.S. goods

चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% शुल्क लगाकर जवाबी कार्रवाई की

China announced on Friday that it will impose a 34% tariff on imports of all U.S. products beginning April 10, part of a flurry of retaliatory measures following U.S. President Donald Trump's "Liberation Day" slate of double-digit tariffs.

• शुक्रवार को चीन ने घोषणा की कि वह 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी उत्पादों पर 34% शुल्क लगाएगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के "लिबरेशन डे" पर घोषित दोहरे अंकों वाले टैरिफ के जवाब में उठाए गए कई प्रतिशोधात्मक कदमों में से एक है।

- The new tariff matches the rate of the U.S. "reciprocal" tariff of 34% on Chinese exports that Trump ordered this week.
- यह नया शुल्क अमेरिका द्वारा इस सप्ताह चीनी निर्यात पर लगाए गए "पारस्परिक" 34% शुल्क के बराबर है, जिसे ट्रंप ने आदेशित किया।
- The **Commerce Ministry in Beijing** also said in a notice that it will impose more **export controls on rare earth elements**, which are materials used in high-tech products such as computer chips and electric vehicle batteries.
- बीजिंग के वाणिज्य मंत्रालय ने एक सूचना में यह भी कहा कि वह दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर और नियंत्रण लगाएगा, जिनका उपयोग कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों जैसे हाई-टेक उत्पादों में होता है।



- Included in the list of minerals subject to controls was **samarium and its compounds**, which are used in aerospace manufacturing and the defence sector.
 - जिन खनिजों पर नियंत्रण लगाया गया है, उनमें **सैमारीअम और इसके यौगिक** शामिल हैं, जिनका उपयोग एयरोस्पेस निर्माण और रक्षा क्षेत्र में होता है।
- Another element called **gadolinium** is used in **MRI scans**.
 - एक और तत्व जिसे **गैडोलिनियम** कहा जाता है, **MRI स्कैन** में उपयोग किया जाता है।

‘China panicked’

‘चीन घबरा गया’

- In his response, Mr. **Trump** said **China “played it wrong”**.
 - अपने जवाब में श्री ट्रंप ने कहा कि चीन ने गलत खेल खेला।
- “China played it wrong, they panicked — the one thing they cannot afford to do!” Mr. Trump wrote in all caps in a post on his **social media platform**.
 - “चीन ने गलत खेल खेला, वे घबरा गए — और यही एक चीज है जो वे नहीं कर सकते!” श्री ट्रंप ने अपने **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म** पर बड़े अक्षरों में यह पोस्ट किया।
- China’s **customs administration** said it had suspended **chicken imports** from some U.S. suppliers after it detected **furazolidone**, a **drug banned in China**, in shipments from those companies.
 - चीन के **सीमा शुल्क प्रशासन** ने कहा कि उसने कुछ अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से **मुर्गी के मांस का आयात** निलंबित कर दिया है क्योंकि उन कंपनियों की शिपमेंट में **फ्युराजोलिडोन**, जो चीन में प्रतिबंधित दवा है, पाया गया।
- Separately, it said it had found **high levels of mold** in the **sorghum** and **salmonella** in **poultry meat** from some of the companies.
 - इसके अलावा, उसने कहा कि कुछ कंपनियों के **ज्वार** में **अत्यधिक मात्रा में फफूंदी** और **पोल्ट्री मांस** में **साल्मोनेला** पाया गया।
- The announcements affect **one company exporting sorghum, C&D Inc.**, and **four poultry companies**.
 - यह घोषणाएं **ज्वार निर्यात करने वाली एक कंपनी, C&D Inc.**, और **चार पोल्ट्री कंपनियों** को प्रभावित करती हैं।


‘Bullying practice’

‘धमकाने वाला रवैया’

- The Chinese government said it had added **27 firms** to lists of companies subject to **trade sanctions or export controls**.
 - चीनी सरकार ने कहा कि उसने **27 कंपनियों** को **व्यापार प्रतिबंधों या निर्यात नियंत्रण** की सूची में जोड़ा है।



- Among them, **16** are subject to a ban on the export of “**dual-use**” goods.
 - उनमें से **16 कंपनियों** पर “**दोहरे उपयोग**” वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **High Point Aerotechnologies**, a defence tech firm, and **Universal Logistics Holding**, a publicly traded transportation and logistics company, were among those listed.
 - **हाई पॉइंट एयरो टेक्नोलॉजीज**, एक रक्षा प्रौद्योगिकी फर्म, और **यूनिवर्सल लॉजिस्टिक्स होल्डिंग**, एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध परिवहन और लॉजिस्टिक्स कंपनी, सूची में शामिल थीं।
- Beijing also announced it filed a **lawsuit with the World Trade Organization (WTO)** over the tariffs.
 - बीजिंग ने यह भी घोषणा की कि उसने इन शुल्कों के खिलाफ **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** में **मुकदमा** दायर किया है।
- “The United States’ imposition of so-called ‘reciprocal tariffs’ seriously violates **WTO rules**, seriously damages the legitimate rights and interests of WTO members, and seriously undermines the rules-based **multilateral trading system** and international **economic and trade order**,” the Commerce Ministry said.
 - वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए तथाकथित ‘पारस्परिक शुल्क’ **WTO नियमों** का गंभीर उल्लंघन करते हैं, WTO सदस्यों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, और **नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली** तथा अंतरराष्ट्रीय **आर्थिक और व्यापार व्यवस्था** को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।”
- “It is a typical **unilateral bullying practice** that endangers the stability of the **global economic and trade order**. **China firmly opposes this**,” it said.
 - “यह एक विशिष्ट **एकतरफा धमकाने वाली नीति** है जो वैश्विक **आर्थिक और व्यापार व्यवस्था** की स्थिरता को खतरे में डालती है। **चीन इसका कड़ा विरोध करता है**,” उसने कहा।
- Other actions include the launch of an **anti-monopoly investigation** into **DuPont China Group Co.**, a subsidiary of the multinational chemical giant, and an **anti-dumping probe** into **X-ray tube and CT tubes for CT scanners** imported from the **U.S. and India**.
 - अन्य कार्रवाइयों में **बहुराष्ट्रीय रासायनिक कंपनी की सहायक कंपनी इयूपॉन्ट चाइना ग्रुप कंपनी** के खिलाफ **एकाधिकार विरोधी जांच** और **अमेरिका और भारत से आयातित सीटी स्कैनर्स के एक्स-रे ट्यूब और सीटी ट्यूब्स पर एंटी-डंपिंग जांच** शुरू करना शामिल है।
- In **February**, China announced a **15% tariff** on imports of **coal and liquefied natural gas** products from the U.S.
 - **फरवरी** में चीन ने अमेरिका से आयातित **कोयला और तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादों पर 15% शुल्क** लगाने की घोषणा की थी।
- It separately added a **10% tariff** on **crude oil, agricultural machinery and large-engine cars**.
 - इसके अलावा, उसने **कच्चे तेल, कृषि मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% शुल्क** भी लगाया।
- Dozens of **U.S. companies** are subject to controls on **trade and investment**, while many more **Chinese companies** face similar limits on dealings with **U.S. firms**.



- दर्जनों अमेरिकी कंपनियों व्यापार और निवेश पर नियंत्रण के अधीन हैं, जबकि कई चीनी कंपनियों को भी अमेरिकी फर्मों के साथ लेन-देन में ऐसे ही प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।
- The latest tariffs apply to **all products made in the U.S.**, according to a statement from the **Ministry of Finance's State Council Tariff Commission.**
- वित्त मंत्रालय की राज्य परिषद टैरिफ आयोग के एक बयान के अनुसार, नवीनतम शुल्क अमेरिका में बने सभी उत्पादों पर लागू होता है

SC directs CEC to survey forests in Agasthyamalai for encroachments

GS Paper III: Environment

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court has directed the Central Empowered Committee (CEC) to conduct an extensive survey of the entire tropical forest ecosystems of the Agasthyamalai landscape in the southernmost Western Ghats to identify non-forestry activities and encroachments.

In a 16-page judgment, a Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta termed the survey as an interim measure "to initiate the process of restoration of the pristine forest areas and to protect the tiger habitats, wildlife reserves and sanctuaries falling under the Agasthyamalai biosphere".



Tropical forest: Agasthyamalai is a 3,500-km biosphere reserve within T.N. and Kerala.

The Agasthyamalai landscape is recognised by the UNESCO as a 3,500-km biosphere reserve falling within both Tamil Nadu and Kerala.

The CEC survey would include the Periyar tiger reserve, Srivilliputhur grizzled squirrel wildlife sanc-

tuary, Meghamalai and Thirunelveli wildlife sanctuaries. The judgment was pronounced on March 24 and published on Friday. The report would contain the comparative data pertaining to the forest cover as it existed earlier vis-à-vis the current position in order to gauge the extent of depletion and degradation in the forest area.

"The world at large is facing the calamities caused by climate change, and the primary culprit behind this is the depleting forest cover owing to a myriad of issues including rapid urbanisation, unchecked industrialisation, encroachments, etc.," Justice Mehta observed.

The judgment was based on a recommenda-

tion made by its amicus curiae, senior advocate K. Parmeshwar, who submitted that plantations and systematic encroachments in the landscape for almost a century have depleted the forest cover.

The judgment came in separate petitions highlighting the immediate need to preserve the reserved forests, wildlife sanctuaries and tiger reserves in Tamil Nadu as well as the rehabilitation of workers who were evicted after the Bombay Burma Trading Corporation Limited tea estate at Singampati, Tamil Nadu, was declared to be a reserved forest, wildlife sanctuary and tiger reserve under the provisions of the Wild Life (Protection) Act.

SC directs CEC to survey forests in Agasthyamalai for encroachments

अगस्थमलाई में अतिक्रमणों के लिए एससी ने सीईसी को जंगलों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया

• The Supreme Court has directed

the **Central Empowered Committee (CEC)** to conduct an extensive survey of the entire tropical forest ecosystems of the Agasthyamalai landscape in the southernmost Western Ghats to identify non-forestry activities and encroachments.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) को दक्षिणी-पश्चिमी घाट में स्थित अगस्थमलाई परिदृश्य के समस्त उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तृत



सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, ताकि गैर-वनीय गतिविधियों और अतिक्रमणों की पहचान की जा सके।

• In a **16-page judgment**, a Bench of Justices **Vikram Nath** and **Sandeep Mehta** termed the survey as an **interim measure** “to initiate the process of **restoration** of the **pristine forest areas** and to **protect the tiger habitats, wildlife reserves** and **sanctuaries** falling under the Agasthyamalai biosphere”.

16-पृष्ठों के फैसले में, न्यायमूर्ति **विक्रम नाथ** और **संदीप मेहता** की पीठ ने इस सर्वेक्षण को एक **अंतरिम उपाय** बताया, जिससे **प्राकृतिक वन क्षेत्रों की पुनर्स्थापना** की प्रक्रिया शुरू की जा सके और **अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर** के तहत आने वाले **बाघ आवास, वन्यजीव अभयारण्य, और संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा** की जा सके।

• The **Agasthyamalai landscape** is recognised by the **UNESCO** as a **3,500-km biosphere reserve** falling within both **Tamil Nadu and Kerala**.

अगस्थ्यमलाई परिदृश्य को यूनेस्को द्वारा एक **3,500 किमी का बायोस्फीयर रिजर्व** के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो **तमिलनाडु और केरल** दोनों में फैला हुआ है।

• The **CEC survey** would include the **Periyar tiger reserve, Srivilliputhur grizzled squirrel wildlife sanctuary, Meghamalai and Thirunelveli wildlife sanctuaries**.

सीईसी का सर्वेक्षण में **पेरियार टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लिपुथुर ग्रिज़ल्ड स्क्विरल वाइल्डलाइफ सैंकचुरी, मेघामलाई, और तिरुनेलवेली वाइल्डलाइफ सैंकचुरी** को शामिल किया जाएगा।

• The judgment was pronounced on **March 24** and published on **Friday**.

यह फैसला **24 मार्च** को सुनाया गया था और **शुक्रवार** को प्रकाशित किया गया।

• The report would contain the **comparative data** pertaining to the **forest cover** as it existed earlier vis-à-vis the **current position** in order to gauge the extent of **depletion and degradation** in the forest area.

रिपोर्ट में **वन आच्छादन के पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति** के बीच का **तुलनात्मक डेटा** शामिल होगा, ताकि वन क्षेत्र में **क्षरण और कमी की स्थिति का आकलन** किया जा सके।

• “The world at large is facing the calamities caused by **climate change**, and the primary culprit behind this is the **depleting forest cover** owing to a myriad of issues including **rapid urbanisation, unchecked industrialisation, encroachments, etc.**,” Justice Mehta observed.

“**पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न आपदाओं का सामना कर रही है, और इसके पीछे मुख्य कारण है वनों का क्षरण, जो कि तेजी से हो रहे शहरीकरण, बिना रोकटोक औद्योगिकीकरण, अतिक्रमण आदि जैसे कई कारणों से हो रहा है,**” न्यायमूर्ति मेहता ने कहा।

• The judgment was based on a **recommendation** made by its **amicus curiae**, senior advocate **K. Parmeshwar**, who submitted that **plantations and systematic encroachments** in the landscape for almost a **century** have **depleted the forest cover**.



यह निर्णय वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर द्वारा, जो कि न्यायालय मित्र (amicus curiae) थे, दी गई सिफारिश पर आधारित था। उन्होंने कहा कि लगभग एक शताब्दी से इस क्षेत्र में किए गए रोपण और संगठित अतिक्रमणों के कारण वन आवरण में भारी कमी आई है।

• The judgment came in **separate petitions** highlighting the **immediate need to preserve the reserved forests, wildlife sanctuaries, and tiger reserves in Tamil Nadu** as well as the **rehabilitation of workers** who were evicted after the **Bombay Burma Trading Corporation Limited tea estate at Singampatti, Tamil Nadu**, was declared to be a **reserved forest, wildlife sanctuary, and tiger reserve** under the provisions of the **Wild Life (Protection) Act**.

यह फैसला अलग-अलग याचिकाओं पर आया, जिनमें तमिलनाडु में आरक्षित वन, वन्यजीव अभयारण्यों, और बाघ अभयारण्यों को संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया गया था, साथ ही सिंगमपट्टी, तमिलनाडु में स्थित बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड टी एस्टेट को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षित वन, वन्यजीव अभयारण्य, और बाघ अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद निकाले गए श्रमिकों के पुनर्वास की मांग भी की गई थी।

Agasthyamalai Biosphere Reserve (ABR)

अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिज़र्व (ABR)

- **Location:** The Agasthyamalai Biosphere Reserve (ABR) is situated at the southernmost end of the Western Ghats in India, spanning across the states of Kerala and Tamil Nadu.

स्थान: अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिज़र्व (ABR) भारत में वेस्टर्न घाट के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, और यह केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है।

- **Geographical Spread:** It covers an area of approximately 3,500 km², encompassing parts of Thiruvananthapuram and Kollam districts in Kerala, and Tirunelveli and Kanyakumari districts in Tamil Nadu.

भौगोलिक विस्तार: यह लगभग 3,500 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है, जिसमें केरल के तिरुवनंतपुरम और कोल्लम, तथा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले शामिल हैं।

- **Topography:** The terrain is predominantly mountainous, with the Agasthyamalai peak rising to 1,868 meters above sea level.

भू-आकृति: यह क्षेत्र मुख्य रूप से पहाड़ी है, जहां अगस्त्यमाला शिखर की ऊँचाई 1,868 मीटर है।

Ecological Significance

पारिस्थितिकीय महत्व

- **Flora:** ABR is home to over 2,254 species of higher plants, with about 400 species being endemic to the region. It serves as a genetic reservoir for cultivated plants like



cardamom, jamun, nutmeg, pepper, and plantain.

वनस्पति: ABR में 2,254 से अधिक प्रजातियों की उच्च पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें लगभग 400 प्रजातियाँ स्थानिक (endemic) हैं। यह क्षेत्र इलायची, जामुन, जायफल, काली मिर्च और केला जैसे फसलों के लिए आनुवंशिक भंडार (genetic reservoir) के रूप में कार्य करता है।

- **Fauna:** The reserve hosts a diverse range of wildlife, including several rare and endangered species.

प्राणी जगत: यह बायोस्फीयर रिज़र्व विविध वन्यजीवों का आश्रय स्थल है, जिसमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी शामिल हैं।

Protected Areas within ABR

ABR के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र

- **Shendurney Wildlife Sanctuary:** Located in Kerala, this sanctuary is known for its rich biodiversity and unique ecosystems.

शंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य: यह अभयारण्य केरल में स्थित है और इसकी पहचान समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है।

- **Peppara Wildlife Sanctuary:** Also in Kerala, it provides habitat to various species of flora and fauna.

पेपारा वन्यजीव अभयारण्य: यह भी केरल में स्थित है और यह कई वनस्पतियों और जीवों को आवास प्रदान करता है।

- **Neyyar Wildlife Sanctuary:** Situated in Kerala, this sanctuary is a haven for numerous wildlife species.

नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य: यह केरल में स्थित है और कई वन्यजीव प्रजातियों का सुरक्षित स्थान है।

- **Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve:** Located in Tamil Nadu, it is renowned for its population of tigers and other wildlife.

कलक्कड़ मुंडनथुरै टाइगर रिज़र्व: यह तमिलनाडु में स्थित है और यहां की बाघों की आबादी और अन्य वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है।



CSIR-NAL signs technology transfer deal with firm to make HANSA trainer-planes

GS Paper III: Defence

Jacob Koshy
NEW DELHI

In a first, the National Aerospace Laboratories (NAL) – a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) body – has signed a technology transfer agreement with a private company to manufacture trainer airplanes in India. This would be the first time that the aircraft would be manufactured in India based on technology fully designed and developed indigenously.

The HANSA-3 NG aircraft is a two-seater aircraft and is the latest iteration of the HANSA planes that have been made by NAL since 1998. Fourteen HAN-



Union Minister Jitendra Singh during the announcement of ToT partner for HANSA-3 (NG).

SA planes have been made over the years by NAL and used by the Ministry of Civil Aviation and the Indian Institutes of Technology. “We have now managed to seal a partnership with a private company which will manufacture these planes,” said N. Kalaiselvi,

Director-General, CSIR.

The company, Pioneer Clean AMPS Pvt Limited, is expected to set up manufacturing facilities as well as handle marketing, servicing and after-sales, though NAL would be closely involved in the initial years to help them with various aspects of the manufacturing and operations, said Abhay Pashlikar, Director, CSIR-NAL.

The HANSA-NG is powered by a Rotax Digital Control Engine with features such as a composite light weight airframe, a glass cockpit, a bubble canopy with wide panoramic view, and electrically operated flaps, among other features, a brochure says.

CSIR-NAL signs technology transfer deal with firm to make HANSA trainer-planes
CSIR-NAL ने HANSA

ट्रेनर-हवाई जहाजों के निर्माण के लिए एक फर्म के साथ तकनीकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए

In a first, the National Aerospace Laboratories (NAL) — a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) body — has signed a technology transfer agreement with a private company to

manufacture trainer airplanes in India.

पहली बार, नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरीज़ (NAL) — जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक संस्था है — ने भारत में ट्रेनर हवाई जहाजों के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी के साथ तकनीकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

• This would be the **first time** that the aircraft would be manufactured in India based on **technology fully designed and developed indigenously.**

यह पहली बार होगा जब पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित की गई तकनीक के आधार पर भारत में विमान का निर्माण किया जाएगा।

• The **HANSA-3 NG aircraft** is a **two-seater aircraft** and is the latest iteration of the HANSA planes that have been made by NAL since **1998.**

HANSA-3 NG विमान एक दो-सीटर विमान है और यह 1998 से NAL द्वारा बनाए गए HANSA विमानों का नवीनतम संस्करण है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• **Fourteen HANSA planes** have been made over the years by NAL and used by the **Ministry of Civil Aviation** and the **Indian Institutes of Technology**.

अब तक NAL द्वारा 14 HANSA विमान बनाए जा चुके हैं, जिनका उपयोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) द्वारा किया गया है।

• "We have now managed to seal a **partnership with a private company** which will manufacture these planes," said **N. Kalaiselvi**, Director-General, CSIR.

"हमने अब इन विमानों के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी के साथ साझेदारी करने में सफलता प्राप्त की है," ऐसा कहना है **N. कलैसेल्वी**, महानिदेशक, CSIR का।

• The company, **Pioneer Clean AMPS Pvt Limited**, is expected to set up **manufacturing facilities** as well as handle **marketing, servicing and after-sales**, though NAL would be closely involved in the **initial years** to help them with various aspects of the manufacturing and operations, said **Abhay Pashlikar**, Director, CSIR-NAL.

कंपनी **Pioneer Clean AMPS Pvt Limited** को निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के साथ-साथ मार्केटिंग, सर्विसिंग और आफ्टर-सेल्स का कार्य भी संभालना होगा, हालांकि प्रारंभिक वर्षों में NAL उन्हें निर्माण और संचालन के विभिन्न पहलुओं में मदद करेगा, ऐसा कहना है **अभय पाश्लिकर**, निदेशक, CSIR-NAL का।

• The **HANSA-NG** is powered by a **Rotax Digital Control Engine** with features such as a **composite light weight airframe**, a **glass cockpit**, a **bubble canopy with wide panoramic view**, and **electrically operated flaps**, among other features, a brochure says.

HANSA-NG में Rotax डिजिटल कंट्रोल इंजन लगा है और इसमें कम्पोज़िट हल्का एयरफ्रेम, ग्लास कॉकपिट, वाइड पैनोरामिक व्यू वाला बबल कैनोपी, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फ्लैप्स जैसी विशेषताएं हैं, ऐसा एक ब्रोशर में बताया गया है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



GS Paper III: US

American retreat

The U.S. risks ceding its position as a global economic powerhouse

What United States President Donald Trump did to global trade on April 2 in Washington closely mirrors a disruptive precedent set by President Richard Nixon in 1971. On August 15, Nixon stunned the world by announcing the "temporary suspension" of the U.S. dollar's convertibility into gold. This effectively dismantled the Bretton Woods framework that was worked out quite unilaterally in 1944, which led to the setting up of the World Bank and the International Monetary Fund, and provided an anchor for global currency stability – an avenue to address balance of payments crises, and to finance the reconstruction efforts of former colonial powers. Though announced as a temporary move, it became permanent and upended the global financial system, as nations reckoned with a new era of financial market volatility. Similarly, Mr. Trump's reciprocal tariffs have instantly ushered in global economic uncertainty, the full extent of which will be felt in the months and the years ahead. By unilaterally altering trade relationships, he has disrupted the very system of interconnected global commerce that the U.S. helped build in the post-war era.

The international reaction has been one of shock and concern. The U.S. is the world's largest importer of manufactured goods, accounting for about 13% of global imports in 2023. The new tariffs will reroute supply chains and force countries to diversify their export strategies. In the immediate term, the cost of imports will rise for American consumers, leading to reduced demand. The ripple effects will be global, causing production slowdowns as exporters scramble to find alternative markets. Economies such as China, Japan, India and the European Union are likely to experience a temporary decline in economic growth. Yet, unlike in the Nixon era, the U.S. today holds a diminished position in global trade. In the 1970s, it was the world's dominant trader, with an estimated 13%-15% share of global trade. China's presence was negligible at the time, accounting for less than 1%. Today, China commands the largest share of global trade, at around 14%, while the U.S. has slipped to roughly 10%. The international community also accepted the dollar's supremacy in the 1970s because of America's overwhelming economic and technological dominance. Now, although the dollar remains the preferred reserve currency, the centre of economic gravity has shifted. The world's leading exporters of advanced technologies are now China and other Asian powers, including South Korea, Japan, and Taiwan. Thus, Mr. Trump's turn to protectionism – an attempt to regain American economic dominance – may well hasten the country's retreat from its hegemonic position.

American retreat अमेरिकी पीछे हटना

The U.S. risks ceding its position as a global economic powerhouse.

अमेरिका के लिए वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति खोने का जोखिम है।

• What United States President Donald Trump did to global trade on April 2 in Washington closely mirrors a disruptive precedent set by President Richard Nixon in 1971.

2 अप्रैल को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार के साथ जो किया, वह 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा स्थापित विघटनकारी मिसाल की याद दिलाता है।

• On August 15, 1971, Nixon stunned the world by announcing the "temporary suspension" of the U.S. dollar's convertibility into gold.

15 अगस्त 1971 को निक्सन ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने अमेरिकी डॉलर को सोने में बदलने की "अस्थायी निलंबन" की घोषणा की।

• This effectively dismantled the Bretton Woods framework that was worked out unilaterally in 1944, which led to the setting up of the World Bank and the International Monetary Fund.

इससे 1944 में एकतरफा रूप से तैयार की गई ब्रेटन वुड्स प्रणाली प्रभावी रूप से खत्म हो गई, जिसने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

• It provided an anchor for global currency stability, an avenue to address balance of payments crises, and to finance reconstruction efforts of former colonial powers.

इसने वैश्विक मुद्रा स्थिरता के लिए एक आधार, भुगतान संतुलन संकटों को सुलझाने का एक रास्ता, और पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के पुनर्निर्माण प्रयासों को वित्तपोषित करने का माध्यम प्रदान किया।

• Though announced as a temporary move, it became permanent and upended the global financial system, as nations reckoned with a new era of financial market volatility.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



हालांकि इसे एक अस्थायी कदम के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन यह स्थायी बन गया और इसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को उलट दिया, क्योंकि राष्ट्रों ने वित्तीय बाजार की अस्थिरता के एक नए युग का सामना किया।

• Similarly, Mr. Trump's **reciprocal tariffs** have instantly ushered in **global economic uncertainty**, the full extent of which will be felt in the **months and years ahead**.

इसी तरह, श्री ट्रंप के प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ ने तत्काल वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को जन्म दिया, जिसका पूरा प्रभाव आने वाले महीनों और वर्षों में महसूस किया जाएगा।

• By **unilaterally altering trade relationships**, he has disrupted the very system of **interconnected global commerce** that the **U.S. helped build in the post-war era**.

व्यापार संबंधों को एकतरफा रूप से बदलकर, उन्होंने युद्धोत्तर युग में अमेरिका द्वारा बनाए गए आपस में जुड़े वैश्विक व्यापार तंत्र को बाधित किया है।

• The international reaction has been one of **shock and concern**.

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में चौंकाने और चिंता की भावना देखी गई है।

• The **U.S. is the world's largest importer of manufactured goods**, accounting for about **13% of global imports in 2023**.

अमेरिका निर्मित वस्तुओं का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, जो 2023 में वैश्विक आयात का लगभग 13% हिस्सा रखता है।

• The new **tariffs will reroute supply chains** and force countries to **diversify their export strategies**.

नए टैरिफ आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनः मार्गित करेंगे और देशों को अपने निर्यात रणनीतियों में विविधता लाने के लिए मजबूर करेंगे।

• In the **immediate term**, the **cost of imports will rise for American consumers**, leading to **reduced demand**.

तत्काल प्रभाव में, अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए आयात लागत बढ़ेगी, जिससे मांग में कमी आएगी।

• The **ripple effects** will be **global**, causing **production slowdowns** as exporters scramble to find **alternative markets**.

इसके प्रभाव लहरों की तरह वैश्विक होंगे, जिससे उत्पादन में मंदी आएगी क्योंकि निर्यातक वैकल्पिक बाजारों की तलाश में लग जाएंगे।

• Economies such as **China, Japan, India and the European Union** are likely to experience a **temporary decline in economic growth**.

चीन, जापान, भारत और यूरोपीय संघ जैसी अर्थव्यवस्थाएं संभवतः आर्थिक वृद्धि में अस्थायी गिरावट का सामना करेंगी।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• Yet, unlike in the Nixon era, the **U.S. today holds a diminished position in global trade.**
हालांकि, निक्सन के युग के विपरीत, आज अमेरिका की वैश्विक व्यापार में स्थिति कमजोर हो गई है।

• In the **1970s**, it was the world's **dominant trader**, with an estimated **13%-15% share of global trade.**

1970 के दशक में, अमेरिका दुनिया का **प्रमुख व्यापारी** था, जिसका वैश्विक व्यापार में अनुमानित **13%-15% हिस्सा** था।

• **China's presence was negligible** at the time, accounting for **less than 1%.**

उस समय **चीन** की उपस्थिति **नगण्य** थी, जो **1% से भी कम** थी।

• Today, **China commands the largest share of global trade**, at around **14%**, while the **U.S.** has slipped to roughly **10%.**

आज **चीन** का वैश्विक व्यापार में **सबसे बड़ा हिस्सा** है, लगभग **14%**, जबकि **अमेरिका** गिरकर लगभग **10%** पर आ गया है।

• The international community also accepted the **dollar's supremacy** in the 1970s because of America's **overwhelming economic and technological dominance.**

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने **1970 के दशक** में **अमेरिकी डॉलर की श्रेष्ठता** को स्वीकार किया था क्योंकि अमेरिका की **विपुल आर्थिक और तकनीकी प्रभुत्वता** थी।

• Now, although the **dollar** remains the **preferred reserve currency**, the **centre of economic gravity has shifted.**

अब, भले ही **डॉलर** अभी भी **प्राथमिक रिज़र्व मुद्रा** बना हुआ है, लेकिन **आर्थिक शक्ति का केंद्र स्थानांतरित** हो गया है।

• The world's leading **exporters of advanced technologies** are now **China and other Asian powers**, including **South Korea, Japan, and Taiwan.**

अब दुनिया के **प्रमुख उन्नत तकनीकों के निर्यातक** हैं **चीन और अन्य एशियाई शक्तियां**, जैसे कि **दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान**।

• Thus, Mr. Trump's turn to **protectionism** — an attempt to **regain American economic dominance** — may well hasten the country's **retreat from its hegemonic position.**

इसलिए, श्री ट्रंप का **संरक्षणवाद** की ओर झुकाव — **अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व** को वापस पाने का प्रयास — शायद अमेरिका के **वर्चस्व की स्थिति से पीछे हटने** को और तेज़ कर सकता है।



A resident collects water from an underground water tank (kunda) at Nagina village in Nuh district of Haryana. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

PATRIOTIC



Tanks battle polluted groundwater

In Haryana, groundwater pollution has led people to build underground tanks that are fed by expensive water tank services whose costs escalate in summer. **Ashok Kumar** talks to residents to understand the extent of the problem, and to government officials, who claim that piped water supply has solved the issue

GS Paper III: Environment

Ikhal Khan, 60, speaks in Hindi accented with a strong, rough Mewati accent. He recalls a time, over 25 years ago, when women from his village of Ghaghas would fetch drinking water from a well on the outskirts of the village. As the groundwater diminished, borewells were sunk. "But over the next four to five years, the groundwater has turned salty," he says. People in Nuh district in Haryana began constructing *kundas*, underground water tanks, some with government support.

Ikhal, like most of his fellow villagers, constructed one a month ago. He spent ₹60,000, with financial aid from the Block Samiti, a rural government body. Ikhal lives below the poverty line, with an annual income of less than ₹1.8 lakh. His tank, like most others, has a capacity of around 20,000 litres. The farming family uses the water only to drink, relying on the rain to feed the crop. This cuts the produce per acre to less than half that well-irrigated land brings in.

Before his family's six got their own tank, Ikhal used to share one with other families. This is common in this village of about 5,000 people, which now has close to 200 tanks. Together, three or four families bear the cost of water, supplied by privately owned water tankers. This way, they share the financial burden.

Ghaghas is situated in the foothills of the Aravalli mountain range, 10 km off National Highway 248A, connecting Gurugram in Haryana to Alwar in Rajasthan. Nuh figures among the government think-tank NITI Aayog's list of 100 'Aspirational Districts', for faring poorly on various development parameters. But it's not just Nuh. More than two-thirds of Haryana's districts face a groundwater crisis. Harmful chemicals have entered underground streams, making the water unfit for drinking and irrigation.

The Annual Ground Water Quality Report, 2024 released by the Central Ground Water Board (CGWB) in December 2024, stated that fluoride concentrations exceeded the permissible limit in Haryana, Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana. Haryana was second on the list, with 208 out of 879 samples containing excessive fluoride. In addition, several samples had arsenic beyond permissible limits. Long-term exposure to both these contaminants can have severe health consequences, including fluorosis that degrades the skeletal system and causes cancer.

Out of Haryana's 22 districts, anomalous values of uranium (over 30 parts per billion) were found in 16 districts. This makes it part of the "over-exploited, critical, and semi-critical groundwater stress zones", the report says. Chronic exposure to uranium can lead to kidney damage. The report was based on groundwater samples collected from 15,259 background monitoring network stations in May 2023 across India.

In Haryana, 19 districts had a high electrical conductivity (EC) groundwater value. This is a measure of the ease with which water conducts electricity, indicative of the degree of salinity.

Referring to the CGWB report, Indian National Lok Dal leader and Rania MLA Arjun Chautala raised the issue of deteriorating groundwater quality during the Budget Session in the Haryana Assembly this year. The first-time MLA said the report had made alarming revelations. He said groundwater contamination is a serious matter and that attention must be paid to ensure testing and reducing rising uranium levels in the Ghaghar and other rivers.



Private tankers waiting for their turn to fill water in Karheri village in Nuh. THE HINDU



The groundwater crisis is now serious. The water here has become so salty that even birds and animals don't drink it

RAJUDDIN MEO
Activist, convener of Mewat RTI Manch

Haryana Public Health Engineering Minister Ranbir Gangwa, in his reply, informed the House that a water testing laboratory had been established in every district of the State.

Community reports

Activist and convener of community-led Mewat RTI Manch Rajuddin Meo, who led a campaign, Jal Care Mission, for clean drinking water in Nuh in 2003, says, "The groundwater crisis is now serious. The water here has become so salty that even birds and animals do not drink it." He adds that Nagina block bore the brunt. Out of 68 villages, 26, including Ghaghas, were the worst hit.

"A survey by the Haryana government in 2022 identified these 26 villages as having levels of total dissolved solids (TDS) beyond the permissible limit," he says. Nuh district water testing laboratory sources confirm this. "Of 860 borewells, 70 had a TDS over the permissible level of 2,000 mg/litre," says a source.

Meo says a locality of around 100 families in Ghaghas continues to use the groundwater as they cannot afford water from the tankers. He claims that the government's free piped drinking water to Nuh villages is yet to cover the entire district. "Also, the ₹2,100 crore three-phase Mewat Canal project, announced by former CM Manohar Lal, is yet to take off." A pipeline of the Central government's Jal Jeevan Mission and the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation for Rural and Urban Areas was laid in Ghaghas



Women fetching water from private tankers in Nagina. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

as last year. Villagers say it is being tested, so there is no regular drinking water supply.

About half an hour's drive from Ghaghas, down the highway, across the road, is Madhi village. Mohammad Jubair, 58, sits under a thorn-ridden keekar tree, often the only foliage in this water-starved area. His white beard matches white turban and kurta. He claims that the village is divided into three localities for water supply through pipelines. "Each locality gets only 10 minutes of piped water supply every third day. We need at least 30 minutes a day to meet our household's water needs," he says.

Tanker supply

Mohammad Sabir, 42, on a handicap tricycle, joins the conversation, adding that the water supply is only in name and the village is dependent on private water tankers. People in Jhajjar and Hisar had similar stories. Agroha, Barwala, and Adampur blocks of Hisar are the worst hit.

Many village panchayats in Hisar have bought their own tankers. "Dushyant Chautala (former Deputy CM) had facilitated a donation of 50 tankers through a private firm four years ago," says Suresh Kumar, the Centre of Indian Trade Unions (Hisar) president. He lives in Durjanpur village.

Raj Kumar, Jhajjar's Kheri Khumar village sarpanch, says, "The two wells in the village have been abandoned, as the water is not fit for drinking. We are dependent on a canal for irrigation and drinking water." Around a dozen villages in Jhajjar district, including Gudha, Dhor, and Palra, also face similar problems. Sushila, the sarpanch of the neighbouring Khatwas village, wonders what will happen when the canal dries up.

Sandeep Kumar, an executive engineer at the Public Health Engineering Department in Punhanna block, Nuh, says the whole district has piped water. "About 100 villages face difficulties, including those pertaining to illegal connections, but Madhi does not have a problem."

When Arjun Chautala raised the issue of groundwater in the Assembly, Chief Minister Nayab Saini had said that the government had, as part of its commitment to ensure the supply of clean drinking water, worked to provide tap water to every household in the last 10 years.

Hazi Fateh Mohammad, who has been running a water supply business for the past decade,

selling water to three or four villages in Nagina block, Nuh district, says the demand for tankers has decreased since the arrival of the pipeline. "We supplied 25-30 tankers during the month of Ramzan last year. Now it is down to 5-10 tankers." He has installed a common water point fed by his tanks in his village of Nagina, where he gives water free of cost.

Maya, 65, a fellow resident of the village, says she fetches drinking water from here twice a day despite the piped water supply to her home. "Almost all households prefer groundwater from the filling point for drinking. It tastes better. The piped water is mostly used only for washing, cleaning, and for animals," she says.

Dilshad Khan, 32, is a marginal farmer in Madhi. He owns less than an acre of land and works as a truck driver to supplement his income. He shares a *kunda* with a neighbour, but they still find the water bill high. "A tanker costs ₹1,200 in winter, but it's hard to find one for even ₹2,000 in summer. There's often a five- to six-day waiting period. We need at least two tankers a month," he says.

Like him, many others in Nuh own agricultural land, which is often too little to live off. People either rear cattle or work as drivers and helpers to make ends meet. "We are at the mercy of god! There is neither a canal nor any drain for irrigation," says Irfan Khan, 35, who holds a vocational diploma from an industrial training institute. "The groundwater here is so salty that we cannot even bathe with it. It causes a burning sensation. We put out clay pots filled with the tanker water even for the birds," he says.

In Haryana, 1.4% samples have high sodium levels and 0.34% have very high levels making the groundwater unfit for irrigation, as per the CGWB report. The CGWB has listed some of the reasons for deteriorating groundwater quality. These included an excessive use of fertilizers and pesticides in farming, improper waste disposal, sewage leakage, landfill contamination, and over-extraction of groundwater, among others.

Kumar from Hisar says the government's approach to the crisis seemed short-term, with the stress mainly on supplying water through a pipeline. "Instead of focusing on long-term sustainable solutions, such as recharging groundwater and promoting crop diversification to reduce the extraction of groundwater, the government is taking stop-gap measures," he says.

Shiv Singh Rawat retired as a superintending engineer in the Haryana government's Irrigation and Water Resources Department. He is now the convener of the Yamuna Bachao Abhiyan, a movement to clean up the river ghats and protect the river from pollution. He advocates for a comprehensive and sustainable water management strategy to move from water scarcity to water security. He suggests "holistic solutions adopted globally for water management, such as floodwater aquifer rechargers, large-scale rainwater harvesting, and the reuse of treated wastewater". He also wishes that States would cooperate to resolve interstate water disputes, like the ongoing Sutlej-Yamuna Link canal and Ravi-Beas water allocation issue between Haryana and Punjab. "Investment in climate-resilient infrastructure is needed to withstand the impact of erratic rainfall and rising temperatures," says Rawat. He calls for improving public awareness and participation in water conservation efforts.

ashok.kumar@thehindu.co.in

Tanks battle polluted groundwater

प्रदूषित भूजल से जंग लड़ते टैंक

In Haryana, groundwater pollution has led people to build underground tanks that are fed by expensive water tank services whose costs escalate in summer.

हरियाणा में भूजल प्रदूषण के कारण लोगों को भूमिगत टैंक बनवाने पड़े, जिन्हें महंगे पानी के टैंकरों से भरा जाता है, जिनकी लागत गर्मियों में बढ़ जाती है।



- **Ashok Kumar** talks to residents to understand the extent of the problem, and to **government officials**, who claim that **piped water supply** has solved the issue.
अशोक कुमार ने निवासियों से बात कर इस समस्या की गंभीरता को समझा और सरकारी अधिकारियों से बात की, जिन्होंने दावा किया कि **पाइपलाइन से जल आपूर्ति** ने समस्या का समाधान कर दिया है।
- **Ikbal Khan, 60**, speaks in **Hindi** accented with a strong, rough **Mewati accent**.
इकबाल खान, 60 वर्ष, मेवाती लहजे वाली हिंदी में बोलते हैं।
- He recalls a time, over **25 years ago**, when women from his village **Ghaghhas** would fetch drinking water from a **well** on the **outskirts** of the village.
वह 25 साल पहले का समय याद करते हैं जब उनके गांव घाघस की महिलाएं गांव की सीमा पर स्थित कुएं से पेयजल लाया करती थीं।
- As the **groundwater diminished**, **borewells** were sunk.
जब भूजल कम हुआ, तब बोरवेल खोदे गए।
- “But over the past **four to five years**, the groundwater has turned **salty**,” he says.
वह कहते हैं, “लेकिन पिछले चार से पांच वर्षों में भूजल नमकीन हो गया है।”
- People in **Nuh district** in Haryana began constructing **kundas**, **underground water tanks**, some with **government support**.
हरियाणा के नूह ज़िले के लोग कुंडा, यानी भूमिगत जल टैंक बनवाने लगे, जिनमें से कुछ को सरकारी सहायता भी मिली।
- **Ikbal**, like most of his fellow villagers, constructed one **a month ago**.
इकबाल ने, अपने अधिकांश गांववालों की तरह, एक माह पहले एक टैंक बनवाया।
- He spent **₹60,000**, with **financial aid** from the **Block Samiti**, a **rural government body**.
उन्होंने ₹60,000 खर्च किए, जिसमें ब्लॉक समिति, एक ग्रामीण सरकारी निकाय, से वित्तीय सहायता मिली।
- Ikbal lives **below the poverty line**, with an **annual income of less than ₹1.8 lakh**.
इकबाल गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, और उनकी वार्षिक आय ₹1.8 लाख से कम है।
- His tank, like most others, has a capacity of around **20,000 litres**.
उनके टैंक की क्षमता, जैसे अन्य टैंकों की, लगभग 20,000 लीटर है।
- The farming family uses the water only **to drink**, relying on **rain** to feed the crop.
यह कृषक परिवार इस पानी का उपयोग केवल पीने के लिए करता है, जबकि फसल के लिए वर्षा पर निर्भर रहता है।
- This cuts the **produce per acre** to less than **half** that **well-irrigated land** brings in.
इससे प्रति एकड़ उत्पादन अच्छी सिंचाई वाली भूमि की तुलना में आधा से भी कम हो जाता है।
- Before his **family of six** got their own tank, Ikbal used to share one with other families.
अपनी छह सदस्यों की परिवार के लिए टैंक बनने से पहले, इकबाल अन्य परिवारों के साथ एक टैंक साझा करते थे।
- This is common in this **village of about 5,000 people**, which now has close to **200 tanks**.
यह इस लगभग 5,000 लोगों की आबादी वाले गांव में सामान्य बात है, जहां अब लगभग 200 टैंक हैं।



- Together, **three or four families** bear the cost of water, supplied by **privately owned water tankers**.
तीन या चार परिवार मिलकर निजी जल टैंकरों द्वारा सप्लाई किए गए पानी की लागत साझा करते हैं।
- This way, they share the **financial burden**.
इस तरह वे **आर्थिक बोझ** साझा करते हैं।
- **Ghaghas** is situated in the **foothills of the Aravali mountain range, 10 km off National Highway 248A**, connecting **Gurugram** in Haryana to **Alwar** in Rajasthan.
घाघस गांव अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, जो नेशनल हाईवे 248A से **10 किलोमीटर दूर** है, यह हरियाणा के गुरुग्राम को राजस्थान के अलवर से जोड़ता है।
- **Nuh** figures among the government think-tank **NITI Aayog's list of 100 'Aspirational Districts'**, for faring poorly on various **development parameters**.
नूह को सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग की **100 आकांक्षी जिलों की सूची** में शामिल किया गया है, क्योंकि यह **विकास के विभिन्न मानकों** पर कमजोर प्रदर्शन करता है।
- But it's not just Nuh. **More than two-thirds of Haryana's districts** face a **groundwater crisis**.
लेकिन केवल नूह ही नहीं, **हरियाणा के दो-तिहाई से अधिक जिले भूजल संकट** का सामना कर रहे हैं।
- **Harmful chemicals** have entered **underground streams**, making the water **unfit for drinking and irrigation**.
हानिकारक रसायन **भूमिगत जलधाराओं** में मिल गए हैं, जिससे पानी पीने और सिंचाई के लिए **अनुपयुक्त** हो गया है।
- The **Annual Ground Water Quality Report, 2024**, released by the **Central Ground Water Board (CGWB)** in **December 2024**, stated that **fluoride concentrations** exceeded the **permissible limit** in **Haryana, Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana**.
दिसंबर 2024 में **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)** द्वारा जारी **वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024** में बताया गया कि **हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** में **फ्लोराइड की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई**।
- **Haryana** was **second** on the list, with **208 out of 879 samples** containing excessive **fluoride**.
हरियाणा इस सूची में **दूसरे स्थान** पर था, जहां **879 नमूनों में से 208 में अधिक फ्लोराइड** पाया गया।
- In addition, several samples had **arsenic** beyond **permissible limits**.
इसके अलावा, कई नमूनों में **आर्सेनिक** की मात्रा **अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई**।
- Long-term exposure to both these contaminants can have **severe health consequences**, including **fluorosis** that degrades the **skeletal system** and causes **cancer**.
इन दोनों प्रदूषकों के **दीर्घकालिक संपर्क** से **गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव** हो सकते हैं, जिनमें **फ्लोरोसिस**, जो **हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है**, और **कैंसर** शामिल हैं।
- Out of **Haryana's 22 districts**, **anomalous values of uranium** (over **30 parts per billion**) were found in **16 districts**.



हरियाणा के 22 जिलों में से 16 जिलों में यूरेनियम की मात्रा (जो 30 पार्ट्स पर बिलियन से अधिक थी) असामान्य पाई गई।

- This makes it part of the “over-exploited, critical, and semi-critical groundwater stress zones”, the report says.
रिपोर्ट के अनुसार, इससे यह क्षेत्र "अत्यधिक दोहन, गंभीर और अर्ध-गंभीर भूजल तनाव क्षेत्रों" में शामिल हो गया है।
- **Chronic exposure to uranium can lead to kidney damage.**
यूरेनियम के लंबे समय तक संपर्क से गुर्दों को नुकसान हो सकता है।
- The report was based on **groundwater samples** collected from **15,259 monitoring network stations** in **May 2023** across India.
यह रिपोर्ट मई 2023 में पूरे भारत में 15,259 निगरानी केंद्रों से लिए गए भूजल नमूनों पर आधारित थी।
- In **Haryana, 19 districts** had a high **electrical conductivity (EC)** groundwater value, which indicates **salinity**.
हरियाणा के 19 जिलों में भूजल की विद्युत चालकता (EC) का स्तर अधिक था, जो नमक की मात्रा को दर्शाता है।
- Referring to the CGWB report, **Indian National Lok Dal** leader and **Rania MLA Arjun Chautala** raised the issue of **deteriorating groundwater quality** during the **Budget Session** in the **Haryana Assembly** this year.
सीजीडब्ल्यूबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और रानियां विधायक अर्जुन चौटाला ने इस वर्ष हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में भूजल गुणवत्ता के गिरते स्तर का मुद्दा उठाया।
- The **first-time MLA** said the report had made **alarming revelations**.
इस पहली बार के विधायक ने कहा कि रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं।
- He said **groundwater contamination** is a **serious matter** and that attention must be paid to **testing and reducing uranium levels** in the **Ghaghar** and other rivers.
उन्होंने कहा कि भूजल प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है और घग्घर और अन्य नदियों में यूरेनियम की मात्रा की जांच और कमी पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **Haryana Public Health Engineering Minister Ranbir Gangwa**, in his reply, informed the House that a **water testing laboratory** had been established in **every district** of the State.
हरियाणा के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने अपने जवाब में सदन को बताया कि राज्य के हर जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

Community reports

सामुदायिक रिपोर्ट्स

- Activist and convener of community-led Mewat RTI Manch **Rajuddin Meo**, who led a campaign, **Jal Care Mission**, for clean drinking water in Nuh in **2009**, says, “The groundwater crisis is now serious. The water here has become so salty that even birds and animals do not drink it.”



सामुदायिक नेतृत्व वाले मेवात आरटीआई मंच के संयोजक और कार्यकर्ता राजुददीन मेव, जिन्होंने 2009 में नूंह में स्वच्छ पेयजल के लिए जल केयर मिशन अभियान चलाया था, कहते हैं, “भूजल संकट अब गंभीर हो गया है। यहां का पानी इतना खारा हो गया है कि पक्षी और जानवर भी इसे नहीं पीते।”

- He adds that **Nagina block** bore the brunt. Out of **68 villages**, **26**, including **Ghaghas**, were the worst hit.

वे जोड़ते हैं कि सबसे ज्यादा असर **नगीना ब्लॉक** में पड़ा। **68 गांवों** में से **26**, जिनमें **घाघस** शामिल है, सबसे अधिक प्रभावित हुए।

- “A survey by the **Haryana government** in **2022** identified these **26 villages** as having levels of **total dissolved solids (TDS)** beyond the permissible limit,” he says.

वे कहते हैं, “हरियाणा सरकार द्वारा 2022 में कराए गए एक सर्वेक्षण में इन **26 गांवों** को **कुल घुलित ठोस पदार्थ (TDS)** की मात्रा सीमा से अधिक होने वाले गांवों के रूप में पहचाना गया।”

- Nuh district water testing laboratory sources confirm this. “Of **860 borewells**, **70** had a TDS over the permissible level of **2,000 mg/litre**,” says a source.

नूंह जिले की जल परीक्षण प्रयोगशाला के स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं। एक स्रोत के अनुसार, “**860 बोरवेल्ल्स** में से **70** का **TDS** अनुमेय सीमा **2,000 मिलीग्राम/लीटर** से अधिक था।”

- Meo says a locality of around **100 families** in Ghaghas continues to use the groundwater as they cannot afford water from the tankers.

मेव कहते हैं कि **घाघस** में लगभग **100 परिवारों** की एक बस्ती अभी भी भूजल का उपयोग कर रही है क्योंकि वे टैंकर से पानी लेने में असमर्थ हैं।

- He claims that the government’s free piped drinking water to Nuh villages is yet to cover the entire district.

वे दावा करते हैं कि सरकार की मुफ्त नल जल योजना अभी पूरे **नूंह जिले** को कवर नहीं कर पाई है।

- “Also, the **₹2,100 crore, three-phase Mewat Canal project**, announced by former CM **Manohar Lal**, is yet to take off.”

“साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री **मनोहर लाल** द्वारा घोषित **₹2,100 करोड़** की **तीन-चरणीय मेवात नहर परियोजना** अभी शुरू नहीं हुई है।”

- A pipeline of the Central government’s **Jal Jeevan Mission and the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation** for Rural and Urban Areas was laid in Ghaghas last year.

पिछले वर्ष **घाघस** में केंद्र सरकार की **जल जीवन मिशन** और **अटल मिशन फॉर रीजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन** के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी।


- Villagers say it is being tested, so there is no regular drinking water supply.

गांव वालों का कहना है कि इसे अभी टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए नियमित पीने का पानी नहीं मिल रहा।

- About half an hour’s drive from Ghaghas, down the highway, across the road, is **Madhi village**.

घाघस से लगभग आधे घंटे की दूरी पर हाईवे पार **मधी गांव** है।

- **Mohammad Jubair**, 58, sits under a thorn-ridden keekar tree, often the only foliage in this water-starved area.



मोहम्मद जुबैर, 58 वर्ष, कांटेदार कीकर के पेड़ के नीचे बैठते हैं, जो इस जल-संकटग्रस्त क्षेत्र में अक्सर एकमात्र छायादार वृक्ष होता है।

- He claims that the village is divided into **three localities** for water supply through pipelines.
वे दावा करते हैं कि गांव को पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति के लिए **तीन हिस्सों** में बांटा गया है।
- “Each locality gets only **10 minutes** of piped water supply **every third day**. We need at least **30 minutes a day** to meet our household’s water needs,” he says.
वे कहते हैं, “हर मोहल्ले को **तीसरे दिन केवल 10 मिनट** के लिए नल से पानी मिलता है। हमें घरेलू ज़रूरतों के लिए रोज़ाना **कम से कम 30 मिनट** पानी चाहिए।”
- **Mohammad Sabir**, 42, on a handicap tricycle, joins the conversation, adding that the water supply is only in name and the village is dependent on private water tankers.
मोहम्मद साबिर, 42 वर्ष, जो एक विकलांग ट्राइसाइकिल पर हैं, बातचीत में शामिल होते हुए कहते हैं कि जल आपूर्ति केवल नाम की है और गांव निजी पानी के टैंकरों पर निर्भर है।
- People in **Jhajjar** and **Hisar** had similar stories.
झज्जर और **हिसार** में लोगों की कहानियाँ भी इसी तरह की थीं।
- **Agroha**, **Barwala**, and **Adampur blocks** of Hisar are the worst hit.
हिसार के **अग्रोहा**, **बरवाला** और **आदमपुर ब्लॉक** सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं।
- Many village panchayats in Hisar have bought their own tankers.
हिसार की कई ग्राम पंचायतों ने अपने टैंकर खरीदे हैं।
- “**Dushyant Chautala** (former Deputy CM) had facilitated a donation of **50 tankers** through a private firm **four years ago**,” says **Suresh Kumar**, the Centre of Indian Trade Unions (Hisar) president.
सुरेश कुमार, जो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (हिसार) के अध्यक्ष हैं, कहते हैं, “**चार साल पहले** तत्कालीन उपमुख्यमंत्री **दुष्यंत चौटाला** ने एक निजी कंपनी से **50 टैंकरों** का दान दिलवाया था।”
- He lives in **Durjanpur** village.
वे **दुर्जनपुर** गांव में रहते हैं।



The risky jab

The news that 10 injecting drug users in a local body in Malappuram district have tested positive for Human Immunodeficiency Virus (HIV) has come as a rude shock to the State. **Abdul Latheef Naha** tracks the risky behaviour of drug users to find out how the practice has put their lives in peril, besides upsetting the health plans of the State

GS Paper III: S&T



Illustration: Sathesh Vellinezzi

I started with a phone call. Then another. And another. Mujeeb's (name changed) phone rang non-stop on March 27, as friends and fellow Human Immunodeficiency Virus (HIV) survivors reached out in a panic.

The news of an HIV outbreak among injecting drug users (IDUs) at Valanchery in Malappuram district had spread like wildfire, sparking fears of stigma and rejection.

As many as 10 persons were found infected in a routine screening held in the district. It was the single largest HIV outbreak reported in recent memory in Kerala, a State known for its lowest HIV prevalence in the country.

A routine HIV screening of a prisoner at the Tavanur Central Prison last August uncovered a disturbing trend. The prisoner, detained for drug possession, tested positive, sparking concerns of an HIV spread among his fellow drug users in and around the area. After months of careful outreach, health officials coaxed several suspected individuals into testing, yielding alarming results: 10 were HIV-positive. Several of them are married.

Rude shock for health sector

The situation is even more worrying as six of the 10 HIV cases were identified as migrant labourers from Assam and West Bengal, a figure disputed by some health officials. They argue that all but three cases are local IDUs. The finding has come as a rude shock to those in the health sector as Kerala is preparing to achieve its ambitious goal of zero new HIV infections by 2030.

Mujeeb knew those fears all too well. He had lived with HIV for 25 years and had spent years fighting to overcome the shame and silence that surrounded the disease. He remembered the dark days of his diagnosis, the feelings of isolation and despair. But he also remembered the moment he found his voice, his strength, and his community.

Now, as he listened to his friends' worried voices, Mujeeb felt a surge of determination. He plays a key role in the Malappuram District Net-

ASHRAF ANBALATHINGAL, Valanchery municipal chairperson

work of Positive People, a 1,100-member organisation that not only works to prevent HIV transmission but also helps those living with the virus to lead a dignified life. He would do everything in his power to support them, to reassure them and to keep their community safe. He took a deep breath and began to answer the calls, one by one.

"There's no need to worry, and this isn't an extraordinary situation. The cases were detected through routine screenings of injecting drug users who shared needles. Let this serve as a warning to injecting drug users elsewhere in the State. But for us, there's no cause for concern," he pacifies one of the callers who was trembling with fear on the other side of the phone.

R. Benika, the Malappuram District Medical Officer, confirmed that 10 IDUs who shared syringes tested HIV positive. "The rate of HIV transmission through sexual contact is much lower than through blood transfusion and shared needles. Still the risk of their partners becoming infected cannot be ignored," she cautions.

"Yes, there are worries. But we understand that four spouses tested so far have been negative," chips in Mujeeb.

Problem of shared syringes

The latest HIV incident sent shock waves through the State's IDU community, who often share syringes. Many individuals connected to those diagnosed with HIV have gone underground, making it challenging to reach them. Unfortunately this means they are likely to skip the prevention programmes implemented by the Kerala State AIDS Control Society.

"The results should not have been revealed. It created panic. Many are worried that they will be identified," points out R. Sreelatha, the project director of the Society.

"The HIV and AIDS (Prevention and Control) Act of 2017, which requires informed consent for HIV testing, further complicates efforts to get them tested.

As a result, identifying and supporting this vulnerable group has become a time-consuming

and difficult task. "But we are confident that we will rope them in. We have already won their confidence," says Dr. Sreelatha.

Therapy reduces viral load

"The source of the infection in this case must have had a very high viral load, making it easier to transmit the virus to others. This is particularly surprising given that Kerala has a well-established system for managing HIV, including antiretroviral therapy that can significantly reduce the viral load in individuals living with HIV," says T.S. Anish, Professor of Community Medicine at Government Medical College, Kozhikode.

Law enforcement officers tasked with combating drug and human trafficking are often puzzled by the tactics employed by migrant workers. Vulnerable women from northern States are reportedly coerced into prostitution, confides a law enforcement officer.

"We found several instances of involvement of young women in murky deals in some parts of the district during our raids. When questioned, the migrant workers would invariably say the women are their family members. But the truth is they broadcast the women's pictures to a large number of other men, inviting them for flesh trade. When the sex trade and drugs combine, it becomes a dangerous proposition," says P.K. Jayara, Deputy Excise Commissioner, Malappuram.

Soon after news spread about the HIV outbreak, the excise, civic, police and health authorities sprang into action. "We have formed a special task force under an Assistant Excise

T.S. ANISH, Professor, Government Medical College, Kozhikode

Commissioner. They have started silent work at the grassroots level," says Jayara.

Valanchery municipal chairperson Ashraf Ambalathingal says that the civic body has launched a multi-pronged initiative to address the crisis: medical screening camps are being planned to target high-risk groups, including migrant workers, sex workers and injecting drug users.

"We have formed a 50-member vigilance team to monitor drug hotspots in and around the local body," says Ashraf.

"Injection drugs, particularly brown sugar and heroin, are showing a disturbing resurgence while synthetic drugs like MDMA are increasingly captivating the youth," says Jayara.

Two drug-trafficking channels

Excise authorities have pinpointed two distinct drug trafficking channels: one bringing brown sugar from Gujarat and Rajasthan to Kerala via Mumbai and supplying to locals, and another smuggling in brown sugar from Myanmar through Nagaland and Assam, targeting migrant workers. Both substances reach Kerala in different forms.

"We suspect that women from some northern States are bringing brown sugar and heroin to Perumbavoor, a key hub for migrant workers in Kerala," says Jayara. From there, the substance is distributed to other areas.

"The highly addictive nature of brown sugar, characterised by intense cravings and severe withdrawal symptoms, drives users to take the intravenous routes. Desperate for a quick fix, the users often become reckless. Impatience and desperation lead them to share needles, abandoning safety precautions and exposing them to all sorts of risks," says Dr. Anish.

"The growing number of IDUs poses a significant threat as their risky behaviours can rapidly spread HIV among them and the general public," says C. Shubin, District Surveillance Officer in charge of the District AIDS Control Office.

Concealed identities

With over three million migrant workers, Kerala is facing the challenge of tracking and supporting those with HIV. Many conceal their identities and constantly move, hindering data collection and follow-up efforts.

"The challenge is circumvented by making targeted interventions with focus on vulnerable groups such as female sex workers, single male migrant workers, transgenders and injecting drug users," says Dr. Shubin.

The Society's needle exchange programme and Opioid Substitution Therapy (OST) have had positive results among injecting drug users, despite evoking criticism from some quarters," says Shubin.

While the needle exchange programme prevented the drug users from sharing needles, the OST could considerably reduce the opioid dependence of the users. The OST, one of the key interventions strategies of the National AIDS Control Programme (NACP), involves replacing an opioid drug with a safer, long-acting medication like buprenorphine or methadone to help individuals overcome opioid dependence and reduce associated harms like HIV infection, explain health experts.

Even when the State witnessed a significant drop in HIV infections and related deaths in recent years, the floating migrant population, increased drug use, and inter-state and international travel constitute major reasons for concern for Kerala. "Kerala has a low risk of HIV transmission. This is largely attributed to high awareness levels in the State. However, the influx of people from other States with higher risk factors poses a potential threat, which could alter the current scenario at any time," says Anish.

Kerala has one of the lowest HIV prevalence rates in the country, according to India HIV Estimates 2023, the latest data released by the National AIDS Control Organisation on December 17, 2024. "Kerala's HIV prevalence rate is 0.07% against the national average of 0.22%," points out Dr. Sreelatha.

Kerala's prevalence rate

Kerala's prevalence rate is 684 cases per million, which is way below in comparison to neighbouring Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh. When Kerala has 24,416 people living with HIV, Andhra Pradesh has 3.20 lakh and Karnataka 2.80 lakh, she points out.

The Valanchery episode reminds Kerala that it cannot remain complacent. While being proactive and pushy, the State needs to introspect whether its awareness drives have only had positive results. "I think our awareness campaigns have had some negative impact too. It should be studied," says B. Harikumar, former coordinator of the Nasha Mukti Bharat Abhiyan, a platform for the campaign against drug use.

Mujeeb's telephone keeps on ringing throughout the day. He patiently attends each call and consoles the caller. For, he knows that every word of solace means a lot to the caller. It also makes the difference between death and survival.



The risky job

खतरनाक इंजेक्शन


The news that 10 injecting drug users in a local body in Malappuram district have tested positive for Human Immunodeficiency Virus (HIV) has come as a rude shock to the State.

मलप्पुरम जिले की एक स्थानीय संस्था में 10 इंजेक्शन लगाने वाले नशा करने वालों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने की खबर ने राज्य को चौंका दिया है।

- Abdul Latheef Naha tracks the risky behaviour of drug users to find out how the practice has put their lives in peril, besides upsetting the health plans of the State.
अब्दुल लतीफ नाहा ने नशा करने वालों के खतरनाक व्यवहार को ट्रैक किया कि कैसे इस आदत ने उनकी जान को खतरे में डाला है और राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं को भी प्रभावित किया है।
- It started with a phone call. Then another. And another. Mujeeb's (name changed) phone rang non-stop on **March 27**, as friends and fellow **HIV survivors** reached out in a panic.
यह सब एक फोन कॉल से शुरू हुआ। फिर दूसरा और फिर तीसरा। **27 मार्च** को मजीब (बदला हुआ नाम) का फोन लगातार बजता रहा, जब दोस्त और **एचआईवी से बचे हुए लोग** घबराहट में संपर्क करने लगे।
- The news of an **HIV outbreak** among injecting drug users (IDUs) at **Valanchery in Malappuram district** had spread like wildfire, sparking fears of stigma and rejection.
मलप्पुरम जिले के **वलांचेरी** में **एचआईवी फैलने** की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे कलंक और अस्वीकृति का डर पैदा हो गया।
- As many as **10 persons** were found infected in a routine screening held in the district.
जिले में हुई एक नियमित स्क्रीनिंग में **10 लोग संक्रमित** पाए गए।
- It was the single largest **HIV outbreak** reported in recent memory in **Kerala**, a State known for its lowest HIV prevalence in the country.
यह **केरल**, जो देश में **एचआईवी की सबसे कम दर** के लिए जाना जाता है, में हाल की स्मृति में **सबसे बड़ा एचआईवी संक्रमण का मामला** था।
- A routine HIV screening of a prisoner at the **Tavanur Central Prison** last **August** uncovered a disturbing trend.
पिछले **अगस्त** में **तवनूर सेंट्रल जेल** के एक कैदी की नियमित एचआईवी जांच में एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई।
- The prisoner, detained for **drug possession**, tested positive, sparking concerns of an HIV spread among his fellow drug users.
मादक पदार्थ रखने के आरोप में बंद कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाया गया, जिससे उसके साथी नशा करने वालों में एचआईवी के फैलाव को लेकर चिंता बढ़ गई।



- After months of outreach, **health officials** coaxed several suspected individuals into testing, yielding alarming results: **10 were HIV-positive**.
कई महीनों की कोशिश के बाद, **स्वास्थ्य अधिकारियों** ने कई संदिग्धों को जांच के लिए राजी किया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले रहे: **10 एचआईवी पॉजिटिव** निकले।
- Several of them are **married**.
इनमें से कई **शादीशुदा** हैं।
- The situation is even more worrying as **six of the 10 HIV cases** were identified as **migrant labourers from Assam and West Bengal**, a figure disputed by some health officials.
स्थिति और भी चिंताजनक है क्योंकि **10 में से 6 एचआईवी मामलों** की पहचान **असम और पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों** के रूप में हुई है, जिसे कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों ने खारिज किया है।
- They argue that all but **three cases** are **local IDUs**.
उनका कहना है कि **तीन मामलों** को छोड़कर सभी **स्थानीय इंजेक्शन ड्रग उपयोगकर्ता** हैं।
- The finding has come as a rude shock to those in the **health sector** as **Kerala** is preparing to achieve its ambitious goal of **zero new HIV infections by 2030**.
यह खोज **स्वास्थ्य क्षेत्र** के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि **केरल 2030 तक एचआईवी के नए संक्रमण को शून्य** करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
- Mujeeb knew those fears all too well. He had lived with **HIV for 25 years**.
मजीब इन चिंताओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह **25 वर्षों से एचआईवी के साथ** जी रहे हैं।
- He plays a key role in the **Malappuram District Network of Positive People**, a **1,100-member organisation** that not only works to prevent HIV transmission but also helps those living with the virus to lead a dignified life.
वह **मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल** में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो **1,100 सदस्यों वाला संगठन** है और एचआईवी प्रसार रोकने के साथ-साथ संक्रमित लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करता है।
- "There's no need to worry, and this isn't an extraordinary situation... Let this serve as a warning to injecting drug users elsewhere in the State," Mujeeb said to reassure others.
"चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यह असामान्य स्थिति नहीं है... यह राज्य के अन्य स्थानों पर इंजेक्शन ड्रग यूजर्स के लिए चेतावनी होनी चाहिए," मजीब ने दूसरों को आश्वस्त करते हुए कहा।
- **R. Renuka**, the **Malappuram District Medical Officer**, confirmed that **10 IDUs** who shared syringes tested **HIV positive**.
आर. रेनुका, **मलप्पुरम जिला मेडिकल ऑफिसर**, ने पुष्टि की कि **10 इंजेक्शन उपयोगकर्ताओं** जो सुई साझा कर रहे थे, **एचआईवी पॉजिटिव** पाए गए।
- "The rate of HIV transmission through sexual contact is much lower than through blood transfusion and shared needles," she cautioned.
"यौन संपर्क की तुलना में रक्त संचार और सुई साझा करने से एचआईवी के फैलने की दर बहुत अधिक है," उन्होंने चेतावनी दी।
- "Four spouses tested so far have been negative," chips in Mujeeb.
"अब तक **चार जीवनसाथी** की जांच हुई है और वे **निगेटिव** पाए गए हैं," मजीब ने जोड़ा।



- The latest HIV incident sent shock waves through the **State's IDU community**, who often **share syringes**.
हालिया एचआईवी घटना ने राज्य की इंजेक्शन ड्रग यूजर समुदाय में झटका दे दिया, जो अक्सर सुई साझा करते हैं।
- Many individuals connected to those diagnosed with HIV have gone **underground**, making it challenging to reach them.
एचआईवी पॉजिटिव पाए गए लोगों से जुड़े कई लोग **अंडरग्राउंड** हो गए हैं, जिससे उन्हें संपर्क करना मुश्किल हो गया है।
- Unfortunately this means they are likely to skip the **prevention programmes** implemented by the **Kerala State AIDS Control Society**.
दुर्भाग्यवश, इसका मतलब है कि वे **केरल स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी** द्वारा चलाए जा रहे **रोकथाम कार्यक्रमों** से दूर हो सकते हैं।
- "The results should not have been revealed. It created panic," says **R. Sreelatha**, the **project director** of the Society.
"परिणामों को उजागर नहीं करना चाहिए था। इससे घबराहट फैली," **आर. श्रीलता**, सोसाइटी की **प्रोजेक्ट डायरेक्टर**, ने कहा।
- The **HIV and AIDS (Prevention and Control) Act of 2017**, which requires **informed consent** for testing, complicates efforts to get them tested.
एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017, जो **सूचित सहमति** की आवश्यकता रखता है, उन्हें जांच के लिए राजी करने में मुश्किल पैदा करता है।
- Identifying and supporting this vulnerable group has become a **time-consuming and difficult task**.
इस कमजोर समूह की पहचान और समर्थन अब एक **समय लेने वाला और कठिन कार्य** बन गया है।
- "But we are confident that we will rope them in. We have already won their confidence," says Dr. Sreelatha.
"लेकिन हमें भरोसा है कि हम उन्हें शामिल कर लेंगे। हमने पहले ही उनका विश्वास जीत लिया है," डॉ. श्रीलता ने कहा।

Therapy reduces viral load

थेरेपी से वायरल लोड में कमी आती है

- "The source of the infection in this case must have had a **very high viral load**, making it easier to transmit the virus to others.
"इस मामले में संक्रमण के स्रोत में **बहुत अधिक वायरल लोड** रहा होगा, जिससे वायरस को दूसरों में फैलाना आसान हो गया।
- This is particularly surprising given that **Kerala** has a **well-established system** for managing **HIV**, including **antiretroviral therapy** that can significantly reduce the **viral load** in individuals living with HIV," says **T.S. Anish**, Professor of Community Medicine at **Government Medical College, Kozhikode**.



यह विशेष रूप से चौंकाने वाला है क्योंकि केरल में एचआईवी प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली है, जिसमें एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी शामिल है, जो एचआईवी से ग्रसित व्यक्तियों में वायरल लोड को काफी हद तक कम कर सकती है," टी. एस. अनीश, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड कहते हैं।

Law enforcement on migrant workers


प्रवासी मजदूरों पर कानून प्रवर्तन

- Law enforcement officers tasked with combating **drug and human trafficking** are often puzzled by the tactics employed by **migrant workers**.
मादक पदार्थ और मानव तस्करी से निपटने में लगे कानून प्रवर्तन अधिकारी अक्सर **प्रवासी मजदूरों** द्वारा अपनाई गई रणनीतियों से भ्रमित रहते हैं।
- Vulnerable women from **northern States** are reportedly **coerced into prostitution**, confides a law enforcement officer.
उत्तर भारत के राज्यों की संवेदनशील महिलाओं को **वेश्यावृत्ति में मजबूर** किया जाता है, एक अधिकारी ने बताया।
- "We found several instances of involvement of **young women in murky deals** in some parts of the district during our raids.
"हमने अपने छापों में जिले के कुछ हिस्सों में **युवतियों की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्तता** के कई मामले पाए।
- When questioned, the **migrant workers** would invariably say the women are their **family members**.
पूछताछ करने पर **प्रवासी मजदूर** हमेशा यही कहते कि महिलाएं उनकी **परिवार की सदस्य** हैं।
- But the truth is they **broadcast the women's pictures** to a large number of other men, inviting them for **flesh trade**.
लेकिन सच यह है कि वे **महिलाओं की तस्वीरें प्रसारित करते हैं** और अन्य पुरुषों को **शारीरिक व्यापार** के लिए आमंत्रित करते हैं।
- "When the **sex trade and drugs combine**, it becomes a **dangerous proposition**," says **P.K. Jayaraj**, Deputy Excise Commissioner, **Malappuram**.
"जब **यौन व्यापार और नशे** का मेल होता है, तो यह **खतरनाक स्थिति** बन जाती है," पी. के. जयराज, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, **मलप्पुरम** कहते हैं।

Government response

सरकारी प्रतिक्रिया

- Soon after news spread about the **HIV outbreak**, the **excise, civic, police and health authorities** sprang into action.
एचआईवी फैलने की खबर फैलते ही **आबकारी, नागरिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग** सक्रिय हो गए।



- “We have formed a **special task force** under an **Assistant Excise Commissioner**. They have started **silent work at the grassroots level**,” says Jayaraj.
"हमने एक विशेष कार्य बल बनाया है जो असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के अधीन है। उन्होंने नीचे स्तर पर चुपचाप कार्य करना शुरू कर दिया है," जयराज कहते हैं।

Municipal action

नगरपालिका की कार्रवाई

- **Valanchery municipal chairperson Ashraf Ambalathingal** says that the civic body has launched a **multi-pronged initiative** to address the crisis.
वलांचेरी नगर पालिका अध्यक्ष अशरफ अम्बालथिंगल ने कहा कि नगरपालिका ने इस संकट से निपटने के लिए बहुआयामी पहल शुरू की है।
- **Medical screening camps** are being planned to target **high-risk groups**, including **migrant workers, sex workers and injecting drug users**.
मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप की योजना बनाई जा रही है जो प्रवासी मजदूरों, सेक्स वर्करों और इंजेक्शन ड्रग यूजर्स जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों को लक्षित करेगी।
- “We have formed a **50-member vigilance team** to monitor **drug hotspots** in and around the local body,” says Ashraf.
"हमने स्थानीय क्षेत्र के आसपास के ड्रग हॉटस्पॉट्स की निगरानी के लिए 50 सदस्यीय सतर्कता दल गठित किया है," अशरफ ने कहा।

Rising drug usage

बढ़ता नशे का चलन

- “**Injection drugs**, particularly **brown sugar and heroin**, are showing a **disturbing resurgence**, while **synthetic drugs like MDMA** are increasingly captivating the youth,” says Jayaraj.
"इंजेक्शन ड्रग्स, खासकर ब्राउन शुगर और हेरोइन, फिर से खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं, जबकि एमडीएमए जैसे सिंथेटिक ड्रग्स युवाओं को तेजी से लुभा रहे हैं," जयराज कहते हैं।

Drug trafficking routes

ड्रग तस्करी के रास्ते

- **Excise authorities** have pinpointed **two distinct drug trafficking channels**.
आबकारी अधिकारियों ने ड्रग तस्करी के दो अलग-अलग रास्ते पहचाने हैं।
 - One brings **brown sugar from Gujarat and Rajasthan** to Kerala via **Mumbai**, supplying to **locals**.
एक रास्ता गुजरात और राजस्थान से ब्राउन शुगर को मुंबई होते हुए केरल लाता है और स्थानीय



लोगों को आपूर्ति करता है।

- Another smuggles in **brown sugar from Myanmar through Nagaland and Assam**, targeting migrant workers.
दूसरा रास्ता म्यांमार से ब्राउन शुगर को नागालैंड और असम के माध्यम से लाता है और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाता है।
- "We suspect that **women from some northern States** are bringing **brown sugar and heroin** to **Perumbavoor**, a key hub for migrant workers in Kerala," says Jayaraj.
"हमें संदेह है कि कुछ उत्तर भारतीय राज्यों की महिलाएं ब्राउन शुगर और हेरोइन को पेरुम्बवूर ला रही हैं, जो केरल में प्रवासी मजदूरों का प्रमुख केंद्र है," जयराज कहते हैं।
- From there, the substance is **distributed to other areas**.
वहां से यह सामग्री अन्य क्षेत्रों में वितरित की जाती है।

High-risk behaviour


उच्च जोखिम वाला व्यवहार

- "The highly addictive nature of **brown sugar**, characterised by **intense cravings and severe withdrawal symptoms**, drives users to take the **intravenous routes**.
"ब्राउन शुगर की अत्यधिक लत, जिससे तीव्र लालसा और गंभीर वापसी के लक्षण होते हैं, उपयोगकर्ताओं को इंजेक्शन मार्ग अपनाने के लिए मजबूर करती है।
- Desperate for a quick fix, the users often become **reckless**.
जल्दी राहत के लिए बेताब उपयोगकर्ता अक्सर लापरवाह हो जाते हैं।
- **Impatience and desperation** lead them to **share needles**, abandoning safety precautions and exposing them to **all sorts of risks**," says Dr. Anish.
"अधीरता और हताशा उन्हें सुइयां साझा करने को मजबूर करती है, जिससे वे सभी तरह के जोखिमों में पड़ जाते हैं," डॉ. अनीश कहते हैं।

Public health concern

सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता

- "The growing number of **IDUs** poses a significant threat as their risky behaviours can rapidly spread **HIV** among them and the general public," says **C. Shubin**, District Surveillance Officer.
"इंजेक्शन ड्रग उपयोगकर्ताओं (IDUs) की बढ़ती संख्या एक बड़ा खतरा है क्योंकि उनका जोखिम भरा व्यवहार एचआईवी को उनके बीच और आम जनता में तेजी से फैला सकता है," सी. शुबिन, जिला निगरानी अधिकारी कहते हैं।



Tracking migrant HIV cases

प्रवासी एचआईवी मामलों की ट्रैकिंग

- With over **three million migrant workers**, Kerala is facing the challenge of tracking and supporting those with HIV.
तीन मिलियन से अधिक प्रवासी मजदूरों के साथ, केरल को एचआईवी संक्रमितों की पहचान और सहयोग में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
- Many **conceal their identities** and **constantly move**, hindering data collection and follow-up efforts.
कई अपनी पहचान छुपाते हैं और लगातार स्थान बदलते रहते हैं, जिससे डेटा संग्रह और फॉलो-अप में बाधा आती है।

Targeted interventions

लक्षित हस्तक्षेप

- “The challenge is circumvented by making targeted interventions with focus on **vulnerable groups** such as **female sex workers, single male migrant workers, transgenders, and injecting drug users**,” says Dr. Shubin.
“यह चुनौती लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से हल की जाती है, जो संवेदनशील समूहों जैसे कि महिला यौनकर्मी, अकेले प्रवासी पुरुष मजदूर, ट्रांसजेंडर और इंजेक्शन ड्रग उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित होती है,” डॉ. शुबिन कहते हैं।

Needle exchange and OST

सुई विनिमय और OST

- “The Society’s **needle exchange programme** and **Opioid Substitution Therapy (OST)** have had **positive results** among injecting drug users, despite evoking criticism from some quarters,” says Shubin.
“सोसाइटी के सुई विनिमय कार्यक्रम और ओपिओइड प्रतिस्थापन थेरेपी (OST) ने इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में सकारात्मक परिणाम दिए हैं, हालांकि कुछ लोगों की आलोचना भी हुई है,” शुबिन कहते हैं।
- While the **needle exchange programme** prevented users from **sharing needles**, the **OST** reduced **opioid dependence**.
जहां सुई विनिमय कार्यक्रम ने उपयोगकर्ताओं को सुइयां साझा करने से रोका, वहीं OST ने ओपिओइड की लत को कम किया।
- The **OST**, a key strategy of the **National AIDS Control Programme (NACP)**, involves **replacing an opioid with safer, long-acting medication** like **buprenorphine** or **methadone**.
OST, जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) की एक प्रमुख रणनीति है, इसमें ओपिओइड को सुरक्षित और लंबी अवधि की दवा जैसे कि बूप्रेनोर्फिन या मेथाडोन से बदला जाता है।



HIV trends in Kerala

केरल में एचआईवी की प्रवृत्ति

- Even with a **significant drop in HIV infections** and related deaths in recent years, the **floating migrant population**, **increased drug use**, and **inter-state and international travel** are major concerns.
हाल के वर्षों में एचआईवी संक्रमण और संबंधित मौतों में भारी कमी के बावजूद, प्रवासी जनसंख्या, बढ़ता नशा और राज्य व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बड़ी चिंताएं हैं।
- “Kerala has a **low risk of HIV transmission**, largely due to **high awareness levels**.
“केरल में एचआईवी संक्रमण का जोखिम कम है, जो मुख्य रूप से उच्च जागरूकता स्तर के कारण है।
- However, the **influx from high-risk States** could alter the situation,” says Anish.
हालांकि, उच्च जोखिम वाले राज्यों से लोगों का आना स्थिति को बदल सकता है,” अनीश कहते हैं।
- Kerala’s HIV prevalence rate is **0.07%** against the **national average of 0.22%**, according to **India HIV Estimates 2023**.
इंडिया एचआईवी एस्टीमेट्स 2023 के अनुसार, केरल की एचआईवी प्रसार दर 0.07% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 0.22% है।
- Kerala’s prevalence rate is **684 cases per million**, far below **Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh**.
केरल की प्रसार दर प्रति मिलियन 684 मामले है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से काफी कम है।
- Kerala has **24,416 people living with HIV**, whereas **Andhra Pradesh has 3.20 lakh** and **Karnataka 2.80 lakh**, notes Dr. Sreelatha.
केरल में 24,416 लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 3.20 लाख और कर्नाटक में 2.80 लाख, डॉ. श्रीलता बताती हैं।


A wake-up call

जागने की घंटी

- The **Valanchery episode** reminds Kerala that it cannot remain **complacent**.
वलांचेरी की घटना यह याद दिलाती है कि केरल को लापरवाह नहीं होना चाहिए।
- “Our **awareness campaigns** may have had **some negative impacts** too. It should be studied,” says **B. Harikumar**, former coordinator of the **Nasha Mukta Bharat Abhiyan**.
“हमारे जागरूकता अभियान का शायद कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। इसका अध्ययन होना चाहिए,” बी. हरिकुमार, पूर्व संयोजक, नशा मुक्त भारत अभियान कहते हैं।

Mujeeb’s helpline

मजीब की मदद



- **Mujeeb's telephone** keeps ringing throughout the day.
मजीब का फोन पूरे दिन बजता रहता है।
- He **patiently attends** each call and consoles the caller.
वह धैर्यपूर्वक हर कॉल उठाते हैं और फोन करने वाले को सांत्वना देते हैं।
- He knows that every **word of solace** means a lot to the caller — it makes the **difference between death and survival**.
उन्हें पता है कि प्रत्येक सांत्वना भरा शब्द कॉल करने वाले के लिए बहुत मायने रखता है — यह मृत्यु और जीवन के बीच का अंतर होता है।



Price surge: The fare revision for Namma Metro in Bengaluru, effective February 9, has seen the maximum ticket price go up from ₹60 to ₹90. The first fare revision took place in 2017, six years after services were launched. K. BHAGYA PRAKASH

PATRIOTIC IAS



Bengaluru's metro: India's priciest transit

Commuting by Bengaluru's Namma Metro has become the most expensive service in the country, with the ticket cost surpassing those in Delhi, Chennai, and other major cities. **Darshan Devaiah B.P.** compares metro fares and other parameters across the country and explains how Bengaluru Metro became the costliest transit service

GS Paper III: Commutation in Cities

Mahinda Kumar, a daily metro rail commuter between Baiyappanahalli and Cubbon Park, used to pay ₹19 earlier for a one-way ride. Now he pays ₹28. "I am paying ₹9 more for each trip, which adds up to ₹18 daily and over ₹500 a month. It may not seem like much to some, but for regular commuters like me, it's a burden," he says.

Public transportation in Bengaluru is becoming increasingly expensive, not just the metro but also BMTC buses, says Kumar. "With rising travel costs, commuting within the city is becoming a financial strain," he said.

High Court declines to intervene

Kumar's story is similar to that of lakhs of Namma Metro passengers who were in for more disappointment as the Karnataka High Court, on April 1, declined to intervene in the Bengaluru Metro Rail Corporation Limited's decision to increase metro fares, dismissing a Public Interest Litigation petition that argued the hike amounted to a "breach of promise" as it exceeded previously stated limits.

The fare hike – the first revision in over seven years – has made Namma Metro the costliest transit service in India among the major cities with metro services. The revised fares, effective February 9, saw the maximum ticket price go up by 50%, from ₹60 to ₹90. The first fare revision since the metro began operations in Bengaluru in 2011 took place in 2017.

The fare increase, implemented on February 9, in some cases, approached 100%. Amid public outrage, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah intervened on February 13, instructing BMRL Managing Director M. Maheshwar Rao to roll back "abnormal" fare hikes. Following this, BMRL adjusted the increase, limiting the maximum stage-wise fare hike to 7%. However, the base fare and the highest ticket price remained unchanged at ₹10 and ₹90, respectively.

Under the revised pricing, the maximum fare rose from ₹60 to ₹90, while the minimum fare for the shortest distance (0.2 km) remained at ₹10. The fare for the 2-4 km distance increased from ₹15 to ₹20, while those travelling beyond 30 km now have to pay ₹30. The revised fares were implemented on February 14, with some commuters noticing reductions of ₹9 to ₹10 on certain routes.

Further aggravating commuter concerns, BMRL discontinued QR code-based fare discounts, restricting them solely to smart card users. Even for them, the discount has been reduced to 5%. Additionally, the minimum balance required on smart cards was raised from ₹50 to ₹90. However, a 5% off-peak discount remains available, bringing the total discount to 10% for those travelling outside rush hours – before 8 a.m., between 12 p.m. and 4 p.m., and after 9 p.m. on weekdays. A flat 10% discount is also applicable on Sundays and national holidays.

Kolkata Metro, the most affordable

The recent fare hike has made Bengaluru Metro the most expensive metro service in India. In contrast, Kolkata Metro, operated by Indian Railways, remains the most affordable, with fares starting at ₹5 for short distances and going up to a maximum of ₹50 for longer routes.



While fare adjustments are sometimes necessary for operations, the recent hike raises serious concerns about affordability and accessibility.

M.N. SRIHARI
Transportation expert

In contrast, for journeys beyond 25 km, Namma Metro now charges ₹90, whereas Delhi Metro's fare for distances over 32 km is ₹60, and Chennai Metro's is ₹50. Meanwhile, in Kolkata, the fare for trips between 25 and 30 km is just ₹25.

Unlike Bengaluru, most other metro systems continue to offer discounts for both QR code and smart card users. Many commuters argue that removing the QR code discount in India's tech hub contradicts the vision of Digital India. Metro operators in Chennai and Kochi still offer a 20% discount on smart cards, QR codes, and WhatsApp tickets.

BMRL has also raised the minimum balance requirement for smart cards from ₹50 to ₹90, a policy not seen in any other metro service in India. Since its launch in 2011, BMRL has issued around one crore smart cards. Additionally, the cost of daily and multi-day passes has increased significantly, with the one-day pass rising from ₹150 to ₹300, the three-day pass from ₹350 to ₹600, and the five-day pass from ₹700 to ₹800.

It has also reduced discounts on smart cards and QR code tickets, while other metro systems across India continue to offer significant fare benefits.

For instance, Delhi Metro provides multiple discounts to encourage ridership and affordability. Smart card users receive a 10% discount on



In Delhi Metro, smart card users get a 10% discount. There is a discount on Sundays and national holidays as well. MOONSHI RV



Chennai Metro provides a 20% discount for passengers using smart cards, National Common Mobility Cards, and online QR code tickets. PICHUMARI K



Kolkata Metro remains the most affordable with fares starting at ₹5 for short distances and going up to a maximum of ₹50 for longer routes. PTI

every journey, with an additional 10% off during off-peak hours to promote staggered travel. Delhi Metro also offers discounted fares on Sundays and national holidays.

Similarly, Chennai Metro provides a 20% discount for passengers using smart cards, National Common Mobility Cards, and online QR code tickets. Hyderabad Metro offers student passes where students get 10 free trips for every 20 trips purchased while Kochi Metro offers student passes, including the "Vidya" pass, with options for daily, 30-day, and 45-day travel – an initiative that Bengaluru Metro does not provide.

Meanwhile, in Hyderabad, metro authorities are considering a fare hike, and a fare fixation committee has been appointed. The previous government had not allowed any fare increase due to the Assembly elections. L&T Metro Rail Hyderabad, which built and operates the project under a public-private partnership.

Autorickshaws more economical

The cost of two end-to-end metro trips has now jumped from ₹120 to ₹180, making shared cabs or autorickshaws a more economical choice for families travelling together. Unlike Delhi and Chennai, Bengaluru lacks a shared autorickshaw system, and the limited BMTC feeder bus service forces commuters to rely on expensive private autorickshaws or bike taxis for last-mile connectivity. With the High Court on March 2 directing aggregators to stop bike taxis, it will soon no longer be an option.

Since the fare hike, commuters have expressed their discontent online and through on-ground protests, including demonstrations inside metro trains. Many have voiced concerns that the increased costs are making public transport unaffordable, pushing people toward private vehicles.

Ridership data for Namma Metro indicates a sharp decline following the fare hike on February 9. Before the increase (February 2-7), the average daily boardings stood at 8,44,899, peaking at 8,70,687 on February 7. However, post-hike (February 9-14), average daily ridership dropped to 7,51,560, with a drastic dip on February 9 (6,23,123), the lowest recorded during this period. This suggests an immediate impact, as many commuters may have switched to alternative transport options due to higher fares.

Why Namma Metro is the most expensive

BMRL stated that the fare hike was based on recommendations from a fare fixation committee (FFC) appointed by the Union government on September 7, 2024. The committee, chaired by a former High Court judge, submitted its report on December 16, suggesting a fare revision after considering operational costs, passenger feedback, and expert consultations.

BMRL Managing Director M. Maheshwar Rao explained that the FFC had recommended fare increases of up to 105.15%, resulting in an average hike of 51.5% (6.87% per year). However, the final revision was lower than the 14.02% annual increase initially proposed by BMRL.

Passengers argued that the increased fares would force low-income commuters to revert to private vehicles, further worsening Bengaluru's already severe traffic congestion.

BMRL cited Section 37 of the Metro Railway Operations and Maintenance (O&M) Act, 2002, which states that FFC recommendations are binding. However, critics pointed to Tamil Nadu's 2021 decision, when then Chief Minister, Edappadi K. Palaniswami, reduced Chennai Metro fares despite similar recommendations.

Rao admitted that technical errors had impacted the fare calculations and announced corrections to the pricing structure. "This revision aligns with the spirit of the Fare Fixation Committee's recommendations while addressing commuter concerns," he said.

Political showdown

The fare hike has sparked a political showdown between the ruling Congress and the opposition BJP. BJP leaders submitted a memorandum to BMRL demanding a rollback, accusing the Congress government of burdening citizens with higher fares.

The Congress, however, shifted the blame to the BJP-led Central government. Karnataka Transport Minister Ramalinga Reddy stated, "BMRL revised fares based on recommendations from

the fare fixation committee constituted by the BJP-led Centre. Let the BJP explain who is truly responsible."

Under mounting pressure, Chief Minister Siddaramaiah intervened on February 13, directing BMRL to reverse the "abnormal" fare increases.

This statement contradicted his earlier stance that the Karnataka government had no control over BMRL's fare decisions, as the metro operates autonomously under a 50:50 partnership between the State and Centre.

Reasons for higher cost

When asked why and how fares remain lower in Kolkata and other cities but not in Bengaluru, a BMRL official explained that Kolkata Metro is operated by Indian Railways, which heavily subsidises passenger fares. In Delhi, the Union government covers the cost of CSP security, whereas, in Bengaluru, a significant portion of revenue is allocated to staff salaries.

BMRL officials justified the fare hike by citing rising operational costs and mounting debt. Staff salaries, which make up 61% of operational expenses, have increased by 42% since 2017, while energy costs have risen by 34% due to higher electricity tariffs. Maintenance and administrative expenses saw the steepest surge – 366% – now accounting for 20% of total operational costs, according to a statement released after the fare revision.

Fare chart

City	Minimum fare	Maximum fare
Bengaluru (76 km)	₹10 (up to 2 km)	₹90 for beyond 30 km
Kolkata (61km)	₹5 (up to 2 km)	₹25 for 25-30 km; ₹50, based on distance and line interchanges. A ₹10 surcharge applies after 10.40 p.m.
Delhi (153 km)	₹10 (up to 2 km)	₹60 for more than 32 km; maximum fare for Airport Express Line is ₹70
Hyderabad (69 km)	₹10 (up to 2 km)	₹60 for more than 26 km
Chennai (45 km)	₹10 (up to 2 km)	₹50 for more than 32 km
Mumbai (59 km)	₹10 (up to 3 km)	₹80 for more than 42 km

BMRL faces substantial loan repayment obligations too. For 2024-25, it is set to repay ₹647.66 crore in loans and ₹122.94 crore in interest, bringing total liabilities to ₹770.60 crore.

Poorly planned, say experts

Transportation experts criticised BMRL's handling of the fare hike, calling for greater transparency. Ashish Verma, convener of IISc's Sustainable Transportation Lab, dismissed the explanation of technical glitches, stating, "BMRL must take responsibility. Why hasn't the Fare Fixation Committee report been made public?"

Transportation expert M.N. Srihari described the fare hike as "unscientific and poorly planned," arguing that fare revisions should be gradual rather than abrupt. "Public transport fare increases should be limited to 10-15%. BMRL had not revised fares for eight years. Instead of implementing periodic adjustments, they suddenly imposed a 100% hike, which is unacceptable."

Srihari stressed balancing financial sustainability with public welfare. "While fare adjustments are sometimes necessary for operations, the recent hike raises serious concerns about affordability and accessibility. If public transport becomes too expensive, it risks losing its role as a primary mode of daily commute, ultimately defeating its purpose," he added.


The Bangalore Metro and Suburban Rail Passenger's Association has been actively opposing the metro fare hike. Prakash Mandohi, the association's founder-president, stated that the "exorbitant hike" has led to many reverting to private transport, while a significant number of women passengers have shifted to BMTC buses, which offer them free travel.

(With additional inputs from Moyurie Som in Kolkata, Alisha Datta in New Delhi, Sheetal Matha from Mumbai, Sunitha Sekar in Chennai, and V. Geethanah in Hyderabad.)

Bengaluru's metro: India's priciest transit

बंगलुरु मेट्रो: भारत की सबसे महंगी ट्रांजिट सेवा

Commuting by Bengaluru's Namma Metro has become the most expensive service in the country, with the ticket cost surpassing those in Delhi, Chennai, and other major cities.




बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो अब देश की सबसे महंगी सेवा बन गई है, जहां टिकट की कीमत दिल्ली, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों से भी अधिक हो गई है।

- Mahindra Kumar, a daily commuter between **Baiyappanahalli and Cubbon Park**, says he now pays **₹28** instead of ₹19 — a **₹9** increase per trip.
महिंद्र कुमार, जो बैयप्पनहल्ली और कब्बन पार्क के बीच प्रतिदिन यात्रा करते हैं, कहते हैं कि उन्हें पहले ₹19 की बजाय अब **₹28** चुकाने पड़ते हैं — यानी प्रति यात्रा **₹9** अधिक।
- This adds up to **₹18 daily** and over **₹500 a month**, which he says is a burden for regular commuters.
यह रोज़ाना **₹18** और महीने में **₹500** से अधिक हो जाता है, जो नियमित यात्रियों के लिए बोझ बन गया है।
- Not just the metro, **BMTC buses** are also becoming expensive, increasing the **financial strain** of commuting.
केवल मेट्रो ही नहीं, **बीएमटीसी बसें** भी महंगी हो रही हैं, जिससे यात्रा का **वित्तीय बोझ** बढ़ रहा है।

High Court declines to intervene

उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार

- On **April 1**, the **Karnataka High Court** refused to intervene in **BMRC's** fare hike, dismissing a **PIL** calling the hike a **"breach of promise."**
1 अप्रैल को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीएमआरसीएल के किराया वृद्धि में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें इसे "वादाखिलाफी" बताया गया था।
- This was the **first fare revision in over seven years**, making Namma Metro the **costliest transit service in India**.
यह सात वर्षों में पहली बार किराया संशोधन था, जिससे नम्मा मेट्रो **भारत की सबसे महंगी ट्रांजिट सेवा** बन गई।
- The **maximum ticket price** increased by **50%**, from **₹60 to ₹90**, effective from **February 9**.
अधिकतम टिकट मूल्य **50%** बढ़कर **₹60 से ₹90** हो गया, जो **9 फरवरी** से प्रभावी हुआ।
- This was the **first revision since 2017**, the last one after the metro started in **2011**.
यह **2017 के बाद पहली बार** किराया बदला गया, जबकि मेट्रो की शुरुआत **2011** में हुई थी।
- Amid protests, **CM Siddaramaiah** on **February 13** instructed officials to roll back **"abnormal" hikes**, leading to a revision where the maximum stage-wise hike was **limited to 71%**.
विरोध के बीच, **13 फरवरी** को **मुख्यमंत्री सिद्धारमैया** ने अधिकारियों को **"असामान्य"** वृद्धि को वापस लेने का निर्देश दिया, जिससे अधिकतम चरणबद्ध वृद्धि **71%** तक सीमित की गई।
- Despite adjustments, the **base fare** and **highest fare** stayed at **₹10** and **₹90**, respectively.
समायोजन के बावजूद, **न्यूनतम किराया ₹10** और **अधिकतम किराया ₹90** पर बरकरार रहा।



- Fares for 2-4 km increased from ₹15 to ₹20, and for distances beyond 30 km, the fare is now ₹90.
2-4 किमी की दूरी के लिए किराया ₹15 से ₹20 हो गया और 30 किमी से अधिक दूरी पर अब किराया ₹90 है।
- On February 14, the revised fares were implemented, and some commuters noticed ₹9 to ₹10 reductions on select routes.
14 फरवरी को संशोधित किराया लागू हुआ और कुछ यात्रियों ने कुछ मार्गों पर ₹9 से ₹10 की कमी देखी।
- QR code-based discounts were discontinued, and only smart card users now get a 5% discount.
QR कोड आधारित छूट बंद कर दी गई, और केवल स्मार्ट कार्ड उपयोगकर्ताओं को 5% छूट मिल रही है।
- The minimum balance on smart cards was raised from ₹50 to ₹90.
स्मार्ट कार्ड पर न्यूनतम बैलेंस ₹50 से ₹90 कर दिया गया है।
- A 5% off-peak discount and a flat 10% discount on Sundays and national holidays remain applicable.
5% ऑफ-पीक छूट और रविवार व राष्ट्रीय अवकाश पर 10% की छूट अब भी लागू है।

Kolkata Metro, the most affordable

कोलकाता मेट्रो, सबसे किफायती सेवा

- Kolkata Metro, operated by Indian Railways, has fares starting at ₹5 and going up to a maximum of ₹50.
कोलकाता मेट्रो, जो भारतीय रेलवे द्वारा संचालित है, में किराया ₹5 से शुरू होकर अधिकतम ₹50 तक है।
- For journeys beyond 25 km, Namma Metro charges ₹90, while Delhi Metro charges ₹60 beyond 32 km, and Chennai Metro charges ₹50.
25 किमी से अधिक दूरी पर नम्मा मेट्रो का किराया ₹90 है, जबकि दिल्ली मेट्रो 32 किमी से अधिक पर ₹60, और चेन्नई मेट्रो ₹50 लेती है।
- In Kolkata, the fare for 25-30 km is only ₹25.
कोलकाता में 25-30 किमी की दूरी का किराया केवल ₹25 है।
- Unlike Bengaluru, other cities still offer discounts for QR code and smart card users.
बंगलुरु के विपरीत, अन्य शहरों में अब भी QR कोड और स्मार्ट कार्ड उपयोगकर्ताओं को छूट मिलती है।
- Chennai and Kochi Metros offer 20% discounts on smart cards, QR codes, and WhatsApp tickets.
चेन्नई और कोच्चि मेट्रो में स्मार्ट कार्ड, QR कोड और व्हाट्सएप टिकट पर 20% की छूट मिलती है।
- BMRCL raised the minimum smart card balance to ₹90, which no other city has implemented.
बीएमआरसीएल ने स्मार्ट कार्ड का न्यूनतम बैलेंस ₹90 कर दिया है, जो किसी अन्य शहर में नहीं है।
- Since 2011, BMRCL has issued about 1 crore smart cards.
2011 से अब तक बीएमआरसीएल ने लगभग 1 करोड़ स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- The cost of **multi-day passes** has increased: **one-day pass** from ₹150 to ₹300, **three-day pass** from ₹350 to ₹600, and **five-day pass** from ₹550 to ₹800.
मल्टी-डे पास की कीमतें बढ़ी हैं: एक दिन का पास ₹150 से ₹300, तीन दिन का पास ₹350 से ₹600, और पांच दिन का पास ₹550 से ₹800 हुआ।

Other cities offering better commuter benefits

अन्य शहरों में यात्रियों को मिल रही बेहतर सुविधाएं

- Delhi Metro** offers **10% discount** for smart card users and **another 10% during off-peak hours**.
दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड उपयोगकर्ताओं को **10% छूट** और **ऑफ-पीक समय में अतिरिक्त 10% छूट** देती है।
- Chennai Metro** provides **20% discount** for smart card, **National Common Mobility Card**, and **QR code ticket** users.
चेन्नई मेट्रो स्मार्ट कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और QR कोड टिकट उपयोगकर्ताओं को **20% छूट** देती है।
- Hyderabad Metro** offers **student passes** with **10 free trips** for every 20 purchased.
हैदराबाद मेट्रो में छात्र पास उपलब्ध हैं, जिसमें हर 20 यात्राओं पर 10 मुफ्त यात्राएं मिलती हैं।
- Kochi Metro** has **Vidya pass** options for **daily, 30-day, and 45-day travel**, which **Bengaluru Metro** lacks.
कोच्चि मेट्रो में विद्या पास के जरिए दैनिक, 30-दिन और 45-दिन की यात्रा की सुविधा मिलती है, जो बेंगलुरु मेट्रो में नहीं है।
- In **Hyderabad**, metro authorities are considering a **fare hike**, and a **fare fixation committee** has been appointed.
हैदराबाद में मेट्रो अधिकारी किराया वृद्धि पर विचार कर रहे हैं और एक किराया निर्धारण समिति नियुक्त की गई है।
- The **previous government** did not allow fare hikes due to **Assembly elections**.
पिछली सरकार ने विधानसभा चुनावों के कारण किराया बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी थी।
- L&T Metro Rail Hyderabad** operates the metro under a **public-private partnership** model.
एलएंडटी मेट्रो रेल हैदराबाद इस मेट्रो को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत संचालित करता है।

Autorickshaws more economical

ऑटोरिक्शा अधिक किफायती विकल्प

- The cost of **two end-to-end metro trips** has now jumped from ₹120 to ₹180, making **shared cabs or autorickshaws** a more economical choice for **families travelling together**.



दो सिरों के बीच मेट्रो यात्रा की लागत अब ₹120 से बढ़कर ₹180 हो गई है, जिससे एक साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए शेरर कैब या ऑटोरिक्षा अधिक किफायती विकल्प बन गए हैं।

- Unlike **Delhi and Chennai**, **Bengaluru** lacks a **shared autorickshaw system**, and the limited **BMTC feeder bus service** forces commuters to rely on **expensive private autorickshaws** or **bike taxis** for **last-mile connectivity**.

दिल्ली और चेन्नई के विपरीत, बंगलुरु में शेरर ऑटोरिक्षा प्रणाली नहीं है और सीमित बीएमटीसी फीडर बस सेवा के कारण यात्रियों को महंगे निजी ऑटोरिक्षा या बाइक टैक्सी पर आखिरी मील की कनेक्टिविटी के लिए निर्भर रहना पड़ता है।

- With the **High Court** on **March 2** directing aggregators to **stop bike taxis**, it will soon no longer be an option.
2 मार्च को हाई कोर्ट द्वारा एग्रीगेटर्स को बाइक टैक्सी बंद करने का निर्देश देने के बाद, यह जल्द ही एक विकल्प नहीं रहेगा।
- Since the **fare hike**, commuters have expressed their **discontent online** and through **onground protests**, including **demonstrations inside metro trains**.
किराया वृद्धि के बाद से यात्रियों ने ऑनलाइन असंतोष और मैदान में प्रदर्शन, यहां तक कि मेट्रो ट्रेनों के अंदर प्रदर्शन के माध्यम से विरोध जताया है।
- Many have voiced concerns that the **increased costs** are making **public transport unaffordable**, pushing people toward **private vehicles** instead.
कई लोगों ने चिंता जताई है कि बढ़ती लागत से सार्वजनिक परिवहन असुविधाजनक हो गया है, जिससे लोग निजी वाहनों की ओर जा रहे हैं।

Drop in Namma Metro ridership

नम्मा मेट्रो की सवारियों में गिरावट

- **Ridership data** for **Namma Metro** indicates a **sharp decline** following the **fare hike on February 9**.
9 फरवरी को किराया वृद्धि के बाद नम्मा मेट्रो के सवारी आंकड़े में तेज़ गिरावट देखी गई।
- Before the increase (**February 2–7**), the **average daily boardings** stood at **8,44,899**, peaking at **8,70,687** on **February 7**.
2 से 7 फरवरी के बीच, औसत दैनिक बोर्डिंग 8,44,899 थी, और 7 फरवरी को 8,70,687 पर पहुंच गई थी।
- However, post-hike (**February 9–14**), **average daily ridership** dropped to **7,51,560**, with a drastic dip on **February 9 (6,23,123)** — the **lowest recorded** during this period.
लेकिन 9 से 14 फरवरी के बीच, औसत दैनिक सवारी घटकर 7,51,560 हो गई, और 9 फरवरी को 6,23,123 पर आ गई — जो इस अवधि की सबसे कम संख्या थी।
- This suggests an **immediate impact**, as many commuters may have **switched to alternative transport** options due to **higher fares**.
यह तत्काल प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि कई यात्रियों ने उच्च किराए के कारण वैकल्पिक परिवहन साधनों को चुन लिया होगा।



Why Namma Metro is the most expensive

नम्मा मेट्रो सबसे महंगी क्यों है

- **BMRCL** stated that the **fare hike** was based on recommendations from a **Fare Fixation Committee (FFC)** appointed by the **Union government on September 7, 2024**.
बीएमआरसीएल ने कहा कि किराया वृद्धि का आधार 7 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा गठित किराया निर्धारण समिति (FFC) की सिफारिशें थीं।
- The committee, chaired by a **former High Court judge**, submitted its report on **December 16**, suggesting a fare revision after considering **operational costs, passenger feedback, and expert consultations**.
पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने 16 दिसंबर को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संचालन लागत, यात्रियों की प्रतिक्रिया, और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर किराया संशोधन की सिफारिश की गई।
- **BMRCL Managing Director M. Maheshwar Rao** explained that the FFC had recommended **fare increases up to 105.15%**, resulting in an **average hike of 51.5% (6.87% per year)**.
बीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक एम. महेश्वर राव ने बताया कि समिति ने 105.15% तक की किराया वृद्धि की सिफारिश की थी, जिससे औसतन 51.5% वृद्धि हुई (प्रति वर्ष 6.87%)।
- However, the **final revision was lower than the 14.02% annual increase** initially proposed by BMRCL.
हालांकि, अंतिम संशोधन बीएमआरसीएल द्वारा प्रस्तावित 14.02% वार्षिक वृद्धि से कम था।
- Passengers argued that the **increased fares** would force **low-income commuters** to revert to **private vehicles**, further worsening **Bengaluru's traffic congestion**.
यात्रियों का तर्क था कि बढ़े हुए किराए से कम आय वाले यात्रियों को निजी वाहनों की ओर लौटना पड़ेगा, जिससे बेंगलुरु की यातायात समस्या और बढ़ेगी।
- **BMRCL** cited **Section 37** of the **Metro Railway Operations and Maintenance (O&M) Act, 2002**, which states that **FFC recommendations are binding**.
बीएमआरसीएल ने मेट्रो रेलवे संचालन एवं अनुरक्षण अधिनियम, 2002 की धारा 37 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एफएफसी की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं।
- However, critics pointed to **Tamil Nadu's 2021 decision**, when the **then Chief Minister Edappadi K. Palaniswami** reduced **Chennai Metro fares** despite similar recommendations.
हालांकि, आलोचकों ने तमिलनाडु के 2021 के निर्णय की ओर इशारा किया, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने चेन्नई मेट्रो के किराए को सिफारिशों के बावजूद घटा दिया था।
- **Rao** admitted that **technical errors** had impacted fare calculations and announced **corrections** to the pricing structure.
राव ने माना कि तकनीकी त्रुटियों ने किराया गणना को प्रभावित किया और मूल्य निर्धारण में सुधार की घोषणा की।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- “This revision aligns with the **spirit of the FFC recommendations** while addressing **commuter concerns**,” he said.
उन्होंने कहा, "यह संशोधन एफएफसी की भावना के अनुरूप है और साथ ही यात्रियों की चिंताओं को भी संबोधित करता है।"

Political showdown

राजनीतिक टकराव

- The **fare hike** has sparked a **political showdown** between the **ruling Congress** and the **opposition BJP**.
किराया वृद्धि ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव को जन्म दिया है।
- **BJP leaders** submitted a **memorandum to BMRCL** demanding a **rollback**, accusing the **Congress government** of **burdening citizens** with higher fares.
भाजपा नेताओं ने बीएमआरसीएल को ज्ञापन सौंपकर किराया वापस लेने की मांग की और कांग्रेस सरकार पर नागरिकों पर बोझ डालने का आरोप लगाया।
- The **Congress**, however, **shifted the blame** to the **BJP-led Central government**.
हालांकि, कांग्रेस ने इसका दोष भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मढ़ दिया।
- **Karnataka Transport Minister Ramalinga Reddy** stated, “BMRCL revised fares based on recommendations from the **fare fixation committee constituted by the BJP-led Centre**. Let the BJP explain who is truly responsible.”
कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, "बीएमआरसीएल ने भाजपा सरकार द्वारा गठित किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के आधार पर किराया संशोधित किया। अब भाजपा स्पष्ट करे कि असली जिम्मेदार कौन है।"
- Under **mounting pressure**, **Chief Minister Siddaramaiah** intervened on **February 13**, directing **BMRCL to reverse “abnormal” fare increases**.
बढ़ते दबाव में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 13 फरवरी को हस्तक्षेप कर बीएमआरसीएल को "असामान्य" किराया वृद्धि वापस लेने का निर्देश दिया।
- This statement **contradicted** his earlier stance that the **Karnataka government** had **no control over BMRCL’s fare decisions**, as the metro operates autonomously under a **50:50 partnership** between the **State and Centre**.
यह बयान उनके पहले के उस रुख के विपरीत था जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटक सरकार का बीएमआरसीएल के किराया निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मेट्रो राज्य और केंद्र के बीच 50:50 की साझेदारी के तहत स्वायत्त रूप से संचालित होती है।

Reasons for higher cost

उच्च लागत के कारण

- When asked why **fares remain lower in Kolkata and other cities**, a **BMRCL official** explained that **Kolkata Metro** is operated by **Indian Railways**, which heavily



subsidises passenger fares.

जब पूछा गया कि कोलकाता और अन्य शहरों में किराया कम क्यों है, तो एक बीएमआरसीएल अधिकारी ने बताया कि कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे संचालित करता है, जो यात्रियों के किराए को भारी सब्सिडी देता है।

- In Delhi, the Union government covers the cost of CISF security, whereas in Bengaluru, a significant portion of revenue is allocated to staff salaries.

दिल्ली में केंद्र सरकार सीआईएसएफ सुरक्षा की लागत वहन करती है, जबकि बेंगलुरु में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन में खर्च होता है।

- BMRCL officials justified the fare hike by citing rising operational costs and mounting debt.

बीएमआरसीएल अधिकारियों ने बढ़ती संचालन लागत और चढ़ते कर्ज का हवाला देकर किराया वृद्धि को उचित ठहराया।

- Staff salaries, which make up 61% of operational expenses, have increased by 42% since 2017.

कर्मचारियों के वेतन, जो संचालन लागत का 61% हैं, 2017 से अब तक 42% बढ़ चुके हैं।

- Energy costs have risen by 34% due to higher electricity tariffs.

ऊर्जा लागत बिजली दरों में वृद्धि के कारण 34% बढ़ गई है।

- Maintenance and administrative expenses saw the steepest surge — 366%, now accounting for 20% of total operational costs.

रखरखाव और प्रशासनिक खर्चों में सबसे तेज़ वृद्धि — 366% देखी गई है, जो अब कुल संचालन लागत का 20% है।



'U.S. tariffs may pare India's FY26 real GDP growth by up to 0.3%'

Inflation expected to be caused by **exchange rate volatility**, its effect to be largely on the **whole sale price index**, says BoB Research

GS Paper III: Economy

Ashokamunran T.
MUMBAI

U.S. President Donald Trump's tariffs will pare India's Gross Domestic Product (GDP) growth for fiscal 2026 by a range of 0.2% to 0.4%, according to forecasts by economists.

The Bank of Baroda research cut inflation adjusted GDP growth rate estimates to come in at 6.6%, down from the Union Budget forecast of 6.8%.

Going by the Budget document, the real GDP for India would have been ₹200.7 lakh crore. The tariff effect would reduce this to ₹200.3 lakh crore, as it would grow at a slower 6.6%, according to BoB estimates.

Barclays trimmed estimates to 6.5%, which would mean that GDP would be further lower at ₹200.1 lakh crore.

On inflation, researchers at BoB said it was expected to be caused by exchange rate volatility and the effect would largely be on the whole sale price index (WPI) inflation.

"Our analysis showed that a 10% depreciation in INR can lead to a -0.12-0.16% increase in WPI in the short run, and 0.38%-0.49% in the long-run."

On monetary policy, economists at Elara Securi-

Trumped by tariffs

BoB Research cut inflation adjusted GDP growth rate estimates to 6.6%, down from the Budget forecast of 6.8%



- Going by the Budget document, the real GDP for India would have been ₹200.7 lakh crore
- The tariff effect will reduce this to ₹200.3 lakh crore, as it would grow at a slower 6.6%
- Barclays trimmed estimates to 6.5%, which would mean that GDP will be further lower at ₹200.1 lakh crore

ties expect RBI to cut rates by 50 basis points in FY26.

The Ministry of Commerce, in a statement, assured that options are being examined and economists too express the possibility of negotiations with the U.S. This is expected to mitigate the risks that may arise from tariffs.

The tariffs are expected to hit 9-11% of India's exports to the U.S., according to the economists.

This includes electronics, precious stones and machinery besides ready-made garments, according to BoB. These sectors constitute a large share of small and medium enterprises, BoB said.

Economists at Barclays, however, estimated a higher share of 11% of exports being hit.

India's exports to the U.S. were valued at about ₹6.4 lakh crore in FY24, the latest for which full-year

data is available with the Ministry of Commerce and Industry. A tenth of this (assuming the higher estimate made by BoB research) would mean a dip in exports of about ₹64,000 crore.

Up to January 2025, India's exports to the U.S. were at ₹5.76 lakh crore, which is already 2.4% lower than the same period in FY24, without accounting for the tariff effect. The 10-month export number covers more than 90% of the full year numbers. Tariffs would hit exports to the U.S. by ₹57,000 crore.

Tariffs would also hit company earnings in India as export turnovers can reduce and companies might have to cut prices for competitive edge, BoB Research said. "This is something which banks would also need to monitor given their exposures to these sectors," it added.

'U.S. tariffs may pare India's FY26 real GDP growth by up to 0.3%'
अमेरिकी टैरिफ से भारत की FY26 की वास्तविक GDP वृद्धि में 0.3% तक की कमी संभव

U.S. President Donald Trump's tariffs will pare India's GDP growth for FY26 by a range of 0.2% to 0.4%, according to forecasts by economists.

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ भारत की FY26 की GDP वृद्धि को 0.2% से 0.4% तक घटा सकते हैं।

- The Bank of Baroda (BoB) research cut inflation-adjusted GDP growth rate estimates to 6.6%, down from the Union Budget forecast of 6.8%.

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के शोध ने मुद्रास्फीति समायोजित GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया, जो पहले केंद्रीय बजट में 6.8% था।

- Going by the Budget document, the real GDP for India would have been ₹200.7 lakh crore. The tariff effect would reduce this to ₹200.3 lakh crore.

बजट दस्तावेज के अनुसार, भारत की वास्तविक GDP ₹200.7 लाख करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन टैरिफ प्रभाव के कारण यह ₹200.3 लाख करोड़ रह जाएगी।



- Barclays trimmed estimates to **6.5%**, meaning GDP would be further lower at **₹200.1 lakh crore**.
बार्कलेज ने अनुमान घटाकर **6.5%** कर दिया, जिससे GDP और घटकर **₹200.1 लाख करोड़** हो जाएगी।
- On inflation, researchers at BoB said it was expected to be caused by **exchange rate volatility** and the effect would largely be on the **Wholesale Price Index (WPI)**.
BoB के शोधकर्ताओं ने कहा कि **विनिमय दर में अस्थिरता** मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है और इसका प्रभाव मुख्य रूप से **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)** पर होगा।
- “Our analysis showed that a **10% depreciation in INR** can lead to a **~0.12-0.16% increase in WPI in the short run**, and **0.38%-0.49% in the long-run**.”
“हमारे विश्लेषण से पता चला कि **INR में 10% गिरावट** से **अल्पकाल में WPI में ~0.12-0.16%** और **दीर्घकाल में 0.38%-0.49%** की वृद्धि हो सकती है।”
- On monetary policy, economists at **Elara Securities** expect **RBI to cut rates by 50 basis points in FY26**.
मौद्रिक नीति पर **एलारा सिक्योरिटीज** के अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि **RBI FY26 में 50 बेसिस पॉइंट की दर कटौती** कर सकती है।
- The **Ministry of Commerce**, in a statement, assured that **options are being examined** and economists too express the possibility of **negotiations with the U.S**.
वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में आश्वासन दिया कि **विकल्पों की समीक्षा** की जा रही है, और अर्थशास्त्रियों ने **अमेरिका के साथ वार्ता** की संभावना जताई है।
- The **tariffs** are expected to hit **9-11% of India's exports to the U.S.**, including **electronics, precious stones, machinery, and readymade garments**, according to BoB.
BoB के अनुसार, **टैरिफ** भारत के **अमेरिका को होने वाले 9-11% निर्यात** को प्रभावित करेंगे, जिसमें **इलेक्ट्रॉनिक्स, कीमती रत्न, मशीनरी और तैयार वस्त्र** शामिल हैं।
- These sectors constitute a **large share of small and medium enterprises**, BoB said.
BoB ने कहा कि ये क्षेत्र **छोटे और मध्यम उद्यमों का बड़ा हिस्सा** हैं।
- Economists at Barclays, however, estimated a **higher share of 11%** of exports being hit.
हालांकि, बार्कलेज के अर्थशास्त्रियों ने **11% निर्यात** प्रभावित होने का **उच्च अनुमान** लगाया है।
- India's exports to the U.S. were valued at about **₹6.4 lakh crore in FY24**, the latest for which full-year data is available.
भारत का **अमेरिका को निर्यात FY24 में लगभग ₹6.4 लाख करोड़** था, जो कि उपलब्ध ताजा **पूर्ण वर्षीय आंकड़ा** है।
- A **tenth** of this (assuming the higher estimate made by BoB research) would mean a dip in exports of about **₹64,000 crore**.
इसका **दसवां हिस्सा** (BoB के उच्च अनुमान के अनुसार) लगभग **₹64,000 करोड़** के निर्यात में **कमी** को दर्शाता है।
- Up to **January 2025**, India's exports to the U.S. were at **₹5.76 lakh crore**, which is **2.4% lower** than the same period in **FY24**, without tariff impact.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



जनवरी 2025 तक, भारत का अमेरिका को निर्यात ₹5.76 लाख करोड़ था, जो FY24 की इसी अवधि से 2.4% कम है, यह आंकड़ा टैरिफ प्रभाव से पहले का है।


- The **10-month export number** covers more than **90%** of the full year numbers. Tariffs would hit exports to the U.S. by **₹57,000 crore**.
10 महीने के निर्यात आंकड़े पूरे वर्ष के 90% से अधिक को कवर करते हैं। टैरिफ से ₹57,000 करोड़ के निर्यात पर असर पड़ेगा।
- Tariffs would also hit **company earnings** in India as **export turnovers** can reduce and companies might have to **cut prices** for a **competitive edge**, BoB Research said.
BoB रिसर्च के अनुसार, टैरिफ का असर भारत में कंपनियों की कमाई पर भी होगा क्योंकि निर्यात टर्नओवर कम हो सकते हैं और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कीमतें घटानी पड़ सकती हैं।
- "This is something which **banks** would also need to monitor given their **exposures to these sectors**," it added.
"यह ऐसा क्षेत्र है जिसे बैंकों को भी देखना होगा क्योंकि उनकी इन क्षेत्रों में हिस्सेदारी है," उन्होंने जोड़ा।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



Sensex crashes 931 points amid fears of trade war, recession; pharma stocks hit

GS Paper III: Capital Market

Lalatendu Mishra
N. Ravikumar
MUMBAI/HYDERABAD

Frontline stock indices on Friday fell up to 1.5% owing to fears of a global trade war and potential recession in the global economy.

The S&P BSE Sensex plunged 931 points, or 1.22%, to 75,365 points, led by fall in Tata Steel (8.59%), Tata Motors (6.15%), L&T (4.67%), Adani Ports (4.38%), IndusInd Bank (3.83%) and RIL (3.52%).

The NSE Nifty index fell 346 points, or 1.49%, to 22,904 points. Out of the 2,947 stocks traded on the NSE, 2,230 declined, while only 646 stocks gained.

"Amid weak global cues, Indian equity markets opened on a negative note following an overnight plunge on Wall Street triggered by fears of a global trade war and rising concerns about a potential recession," said Sundar Kewat, technical and derivatives analyst, Ashika Institutional Equity.

"Nifty 50 opened lower at 23,190 and briefly touched 23,214 in early trade, but soon reversed course and slipped sharply to an intraday low of 22,874. Throughout the day, the index faced consistent selling pressure, dragging it below the crucial psychological support level of 23,000," he said.

Sectoral performance remained broadly negative with metals, pharmaceuti-

Pharma industry's joy over not figuring in the U.S. tariff list was short-lived with Trump announcing that a levy is coming

cals, oil and gas, energy, and IT witnessing the most pronounced declines.

Shares of pharma companies were hit on Friday after the industry's joy over not figuring in the U.S. reciprocal tariff list proved short-lived with President Donald Trump announcing such a levy is coming.

"Looking at pharma as a separate category and will be announcing that in not too distant future," he said, adding the tariff would be at a level "never seen before." Mr. Trump said the tariff for semiconductor chips were also to be announced soon.

Out of the 20 companies forming part of the NSE's Nifty pharma index, 18 were in the red on Friday even as the sectoral index closed 4.03% lower. Barring Torrent Pharma and Mankind, shares of other pharma companies ended lower, with some wiping the gains of Thursday.

Dr. Reddy's Laboratories intra-day touched a 52-week low of ₹1,076.20 apiece. Shares of nine companies, including Aurobindo Pharma, Lupin, Granules Pharma, Laurus Labs and Gland Pharma ended lower by 5% and more.

Sensex crashes 931 points amid fears of trade war, recession

व्यापार युद्ध और मंदी के डर से संसेक्स 931 अंक गिरा

• On Friday, frontline stock indices fell up to 1.5% due to fears of a global trade war and a possible global recession.

शुक्रवार को वैश्विक व्यापार युद्ध और संभावित वैश्विक मंदी के डर के कारण प्रमुख स्टॉक इंडेक्स में 1.5% तक की गिरावट दर्ज की गई।

• The S&P BSE Sensex plunged 931 points (1.22%) to reach 75,365 points, led by the fall in stocks like Tata Steel (8.59%), Tata Motors (6.15%), L&T (4.67%), Adani Ports (4.38%), IndusInd Bank (3.83%), and RIL (3.52%).

एसएंडपी बीएसई संसेक्स 931 अंक (1.22%) गिरकर 75,365 अंक पर पहुंच गया, जिसमें टाटा स्टील (8.59%), टाटा मोटर्स (6.15%), एलएंडटी (4.67%), अदानी पोर्ट्स (4.38%), इंडसइंड बैंक (3.83%), और आरआईएल (3.52%) की गिरावट प्रमुख रही।

• The NSE Nifty fell 346 points (1.49%) to settle at 22,904 points.

एनएसई निफ्टी 346 अंक (1.49%) गिरकर 22,904 अंक पर बंद हुआ।

• Out of 2,947 stocks traded on NSE, 2,230 declined, while only 646 stocks gained.

एनएसई पर ट्रेड हुए 2,947 शेयरों में से 2,230 में गिरावट आई, जबकि सिर्फ 646 शेयरों में बढ़त रही।

Weak Global Cues and Market Reaction

कमज़ोर वैश्विक संकेत और बाज़ार की प्रतिक्रिया

• Sundar Kewat, technical and derivatives analyst at Ashika Institutional Equity, said Indian equity markets opened on a negative note following a plunge on Wall Street due to fears of a global trade war and a potential recession.

अशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक सुंदर केवत ने कहा कि भारतीय इक्विटी बाजारों की शुरुआत



नकारात्मक रुख के साथ हुई, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में गिरावट आई थी, जिसके पीछे वैश्विक व्यापार युद्ध और संभावित मंदी का डर था।

- He added that **Nifty 50** opened lower at **23,190**, briefly touched **23,214**, but soon reversed and dropped to an intraday low of **22,874**.
उन्होंने बताया कि निफ्टी 50 की शुरुआत 23,190 पर हुई, थोड़ी देर के लिए 23,214 को छुआ, लेकिन जल्द ही गिरकर दिन के निम्नतम स्तर 22,874 तक आ गया।
- The index faced **consistent selling pressure** throughout the day and slipped below the crucial psychological level of **23,000**.
पूरे दिन इंडेक्स पर लगातार बिकवाली का दबाव रहा और यह 23,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर गया।

Sectoral Performance and Pharma Stocks

विभागीय प्रदर्शन और फार्मा स्टॉक्स

- Sectoral performance remained **broadly negative**, with **metals, pharmaceuticals, oil and gas, energy**, and **IT** witnessing major declines.
विभागीय प्रदर्शन काफी नकारात्मक रहा, जिसमें मेटल्स, फार्मास्युटिकल्स, तेल और गैस, ऊर्जा, और आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट आई।
- **Pharma stocks** fell after the industry's initial relief of not being on the **U.S. reciprocal tariff list** was shattered by **President Donald Trump's** statement.
फार्मा स्टॉक्स में गिरावट तब आई जब यह राहत कि फार्मा कंपनियाँ अमेरिका की पारस्परिक टैरिफ सूची में नहीं हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से खत्म हो गई।
- Trump announced that **pharma** would be treated as a **separate category** and would soon face a **new tariff**, at a level "**never seen before.**"
ट्रंप ने घोषणा की कि फार्मा को एक अलग श्रेणी के रूप में देखा जाएगा और उस पर जल्द ही ऐसा टैरिफ लगाया जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया।
- He also added that **tariffs on semiconductor chips** would also be announced soon.
उन्होंने यह भी कहा कि सेमीकंडक्टर चिप्स पर भी टैरिफ जल्द घोषित किए जाएंगे।

Nifty Pharma Index and Company-Wise Impact

निफ्टी फार्मा इंडेक्स और कंपनियों पर प्रभाव

- Out of **20 companies** in the **NSE's Nifty Pharma Index**, **18 closed in red**, and the sectoral index ended **4.03% lower**.
एनएसई के निफ्टी फार्मा इंडेक्स में शामिल 20 कंपनियों में से 18 का समापन घाटे में हुआ और सेक्टरल इंडेक्स 4.03% नीचे बंद हुआ।
- Except for **Torrent Pharma** and **Mankind**, most pharma stocks ended lower, **wiping out Thursday's gains**.



टॉरेंट फार्मा और मैनकाइंड को छोड़कर अधिकांश फार्मा स्टॉक्स में गिरावट आई और गुरुवार की बढ़त मिट गई।

- **Dr. Reddy's Laboratories** hit a 52-week low of ₹1,076.20 per share during the day. डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज़ ने दिन में ₹1,076.20 प्रति शेयर का 52-सप्ताह का न्यूनतम स्तर छू लिया।
- Shares of **nine companies**, including Aurobindo Pharma, Lupin, Granules Pharma, Laurus Labs, and Gland Pharma, fell by 5% or more. ऑरोबिंदो फार्मा, लुपिन, ग्रैन्यूलस फार्मा, लॉरस लैब्स, और ग्लैंड फार्मा सहित 9 कंपनियों के शेयर 5% या उससे अधिक गिर गए।

India to fast-track BTA-focussed duty cuts for U.S. products

GS Paper III: External Sector

Amiti Sen
NEW DELHI

India is focussing on fast-tracking internal decisions on duty cuts for American goods as part of the proposed India-U.S. bilateral trade agreement (BTA), as it views the pact as the best way to deal with U.S. President Donald Trump's reciprocal tariff fixed at 26% for India, sources said.

Mr. Trump's recent statement that he is ready to negotiate with other countries if they offer something "phenomenal" gives hope to New Delhi, as it has already started the negotiation process for such a pact with the U.S.

Clear signal

However, some experts caution India must not give in to demands in sensitive areas such as core agriculture and must hold its ground.

"India has given a clear signal to the U.S. through its statement on April 2 that it does not want to engage in retaliation and instead wants to expedite BTA talks. It is already in an advantageous position compared with others as the talks are already on. The focus will be on speeding up internal decisions," an official said.

Mr. Trump announced sweeping tariffs on goods from across the world on April 2, with a baseline tariff of 10% and more on "high-tariffing" countries, to end "years of unfair trade practices" and make America wealthy again.

Economists have warned that this would lead to inflation in the U.S., a fall in demand and a possible global trade war.

In India, the 26% tariffs



India must not give in to demands in sensitive areas such as core agriculture, say experts.

are set to hit exports from sectors such as gems and jewellery, engineering products, agricultural goods, textiles, shrimps and chemicals.

Sectoral meets soon

Last week, top officials from India and the U.S. discussed contours of a mutually beneficial BTA and sectoral meetings are to start soon, the Commerce Department had said.

The U.S. has indicated that it wants tariff cuts in several areas, such as agriculture, automobiles, medical equipment, and alcohol but economists say that India must draw the line wherever needed.

"India needs to negotiate from a position of strength as it has a huge market to offer. We must stop giving the U.S. concessions outside the pact. And in sensitive areas like core agriculture, such as cereals, India must draw the line and say that concessions cannot be given come what may," said Biswajit Dhar, distinguished professor, Council for Social Development.

(The writer is with The Hindu businessline)

India to fast-track BTA-focussed duty cuts for U.S. products

अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत बीटीए-केंद्रित शुल्क कटौती को तेज करेगा

India is focusing on fast-tracking internal decisions on duty cuts for American goods as part of the proposed India-U.S. Bilateral Trade Agreement (BTA).

भारत प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के तहत अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क कटौती से संबंधित आंतरिक निर्णयों को तेज करने पर ध्यान दे रहा है।

- The government views the BTA as the best way to deal with U.S. President Donald Trump's reciprocal tariff fixed at 26% for India.

सरकार इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 26% पारस्परिक शुल्क से निपटने का सबसे अच्छा तरीका मानती है। Hopes from

Trump's Offer and Ongoing Talks

ट्रंप के प्रस्ताव और जारी बातचीत से उम्मीदें

Trump's recent statement about being ready to negotiate if countries offer something "phenomenal" gives hope to New Delhi.

ट्रंप के हालिया बयान कि यदि देश कुछ "असाधारण" पेश करें तो वह बातचीत के लिए तैयार हैं, नई दिल्ली को आशा देता है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- India has already started the **negotiation process** with the U.S. for such a pact.
भारत पहले ही अमेरिका के साथ इस तरह के समझौते के लिए **बातचीत की प्रक्रिया शुरू** कर चुका है।

Clear Signal from India

भारत का स्पष्ट संकेत

- Experts caution that India must not give in on **sensitive areas** such as **core agriculture** and must **hold its ground**.
विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि भारत को **कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों** में झुकना नहीं चाहिए और उसे **अपनी स्थिति पर कायम** रहना चाहिए।
- An official said India gave a **clear signal** to the U.S. through its **April 2** statement that it wants to **avoid retaliation** and **expedite BTA talks**.
एक अधिकारी ने कहा कि भारत ने **2 अप्रैल** को दिए गए बयान के माध्यम से अमेरिका को **स्पष्ट संकेत** दिया कि वह **प्रतिशोध से बचना** चाहता है और **बीटीए वार्ता को तेज** करना चाहता है।
- India is in an **advantageous position** as negotiations are already underway, and the focus will now be on **speeding up internal decisions**.
भारत एक **फायदे की स्थिति** में है क्योंकि बातचीत पहले से चल रही है और अब ध्यान **आंतरिक निर्णयों को तेज करने** पर होगा।

Trump's Global Tariff Announcement

ट्रंप की वैश्विक टैरिफ घोषणा

- On **April 2**, Trump announced **sweeping tariffs** on goods from across the world, with a **baseline tariff of 10%** or more on "**high-tariffing**" countries.
2 अप्रैल को ट्रंप ने दुनिया भर के उत्पादों पर **व्यापक टैरिफ** की घोषणा की, जिसमें "**अधिक शुल्क लगाने वाले**" देशों पर **कम से कम 10% टैरिफ** लगाया गया।
- The aim is to end "**years of unfair trade practices**" and to **make America wealthy again**.
इसका उद्देश्य "**वर्षों की अनुचित व्यापार प्रथाओं**" को समाप्त करना और **अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाना** है।
- Economists warned that this may cause **inflation in the U.S.**, **fall in demand**, and a possible **global trade war**.
अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इससे **अमेरिका में महंगाई**, **मांग में गिरावट**, और संभावित **वैश्विक व्यापार युद्ध** हो सकता है।

Impact on Indian Sectors

भारतीय क्षेत्रों पर प्रभाव



- The 26% tariff is expected to hurt India's exports in sectors like gems and jewellery, engineering products, agriculture, textiles, shrimps, and chemicals.
26% टैरिफ भारत के निर्यात को रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, कृषि, कपड़ा, झींगे, और रसायन जैसे क्षेत्रों में प्रभावित कर सकता है।

Sectoral Meetings and U.S. Demands

विभागीय बैठकें और अमेरिका की मांगें

- Last week, top officials from India and the U.S. discussed the framework of a mutually beneficial BTA, and sectoral meetings will begin soon.
पिछले सप्ताह भारत और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने एक पारस्परिक रूप से लाभकारी BTA के ढांचे पर चर्चा की और विभागीय बैठकें जल्द शुरू होंगी।
- The U.S. has indicated it wants tariff cuts in areas such as agriculture, automobiles, medical equipment, and alcohol.
अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह कृषि, वाहन, चिकित्सा उपकरण, और शराब जैसे क्षेत्रों में टैरिफ कटौती चाहता है।
- However, economists insist India must draw the line in sensitive sectors and not offer concessions outside the pact.
हालांकि, अर्थशास्त्री जोर देते हैं कि भारत को संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा तय करनी चाहिए और समझौते के बाहर कोई रियायत नहीं देनी चाहिए।
- Biswajit Dhar, a distinguished professor at the Council for Social Development, said India should negotiate from a position of strength as it has a huge market to offer.
बिस्वजीत धर, जो सोशल डेवलपमेंट काउंसिल में प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं, ने कहा कि भारत को मजबूत स्थिति से बातचीत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास विशाल बाज़ार है।
- He emphasized that in areas like core agriculture (e.g., cereals), India must say no to concessions, no matter the pressure.
उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्य कृषि (जैसे अनाज) जैसे क्षेत्रों में भारत को किसी भी दबाव में रियायत नहीं देनी चाहिए।



Ronin, the giant African pouched rat, has tracked down 109 landmines in Preah Vihear province since 2021.

Landmine-hunting rat in Cambodia sets a world record

GS Paper III:
Environment

PHNOM PENH

A landmine-hunting rat in Cambodia has set a new world record by sniffing out more than 100 mines and pieces of unexploded ordnance, the Belgian charity APOPO said on Friday.

Ronin, a giant African pouched rat, has tracked down 109 landmines and 15 other potentially deadly war remnants since his deployment to northern Preah Vihear province in August 2021, the charity said in a statement.

Five-year-old Ronin has been named the most successful Mine Detection Rat (MDR) in the organisation's history. "His exceptional accomplishments have earned him the Guinness World Records title for most landmines detected by a rat, highlighting the critical role of HeroRats in humanitarian demining," APOPO said.

Ronin beat the previous record, held by hero rodent Magawa, who found 71 landmines and 38 UXOs during his five-year service before retirement in 2021.

Ronin may have two years or more of detection work ahead of him, APOPO said. "He is not just an asset, he is a valued partner and colleague," Phanny, Ronin's handler, said in the statement.

Cambodia remains littered with landmines, discarded ammunition, and other remnants of war from decades of conflict starting in the 1960s. After more than 30 years of civil war, which ended in 1998, Cambodia became one of the most heavily mined countries in the world.

Landmine-hunting rat in Cambodia sets a world record

कंबोडिया में बारूदी सुरंग खोजने वाले चूहे ने विश्व रिकॉर्ड बनाया

A landmine-hunting rat in Cambodia has set a new world record by sniffing out more than 100 mines and pieces of unexploded ordnance, according to Belgian charity APOPO.

कंबोडिया में एक बारूदी सुरंग खोजने वाले चूहे ने 100 से अधिक सुरंगों और अविस्फोटित हथियारों का पता लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यह जानकारी बेल्जियम की संस्था APOPO ने दी।

- Ronin, a giant African pouched rat, has detected 109 landmines and 15 other deadly war remnants since his deployment in northern Preah Vihear province in August 2021.

रॉनिन, एक विशाल अफ्रीकी पाउच वाला चूहा, ने अगस्त 2021 में उत्तर प्रेह विहेयर प्रांत में तैनाती के बाद से 109 बारूदी सुरंगों और 15 अन्य घातक युद्ध अवशेषों का पता लगाया है।

Ronin's Record and Recognition

रॉनिन का रिकॉर्ड और सम्मान

- The five-year-old Ronin has been declared the most successful Mine Detection Rat (MDR) in APOPO's history. पाँच वर्षीय रॉनिन को APOPO के इतिहास में अब तक का सबसे सफल सुरंग खोजी चूहा (MDR) घोषित किया गया है।


- His exceptional work has earned him a Guinness World Record for the most landmines detected by a rat. उसकी असाधारण उपलब्धियों के लिए उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, जिसमें उसने चूहे द्वारा सबसे अधिक बारूदी सुरंगों की पहचान की है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- This highlights the **critical role** of **HeroRats** in **humanitarian demining** operations.
यह मानवीय बारूदी सुरंग हटाने के कार्यों में हीरोरैट्स की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

Comparison with Previous Record Holder

पिछले रिकॉर्ड धारक से तुलना

- Ronin surpassed the record of previous hero rat **Magawa**, who detected **71 landmines** and **38 UXOs** in his **five-year service** before retiring in **2021**.
रॉनिन ने पूर्व हीरो चूहा मगावा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने 2021 में सेवानिवृत्ति से पहले 5 वर्षों की सेवा में 71 बारूदी सुरंगों और 38 UXOs का पता लगाया था।

Ronin's Future and Handler's Words

रॉनिन का भविष्य और प्रशिक्षक की बात

- APOPO mentioned that Ronin may continue **detection work** for **two or more years**.
APOPO ने बताया कि रॉनिन अगले दो या उससे अधिक वर्षों तक खोज कार्य जारी रख सकता है।
- His handler **Phanny** said, "He is not just an **asset**, he is a **valued partner and colleague**."
उसके प्रशिक्षक फैनी ने कहा, "वह केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि एक मूल्यवान साथी और सहयोगी हैं।"

Landmine Situation in Cambodia

कंबोडिया में बारूदी सुरंग की स्थिति

- Cambodia remains scattered with **landmines**, **discarded ammunition**, and other **war remnants** from conflicts dating back to the **1960s**.
कंबोडिया अब भी 1960 के दशक से चली आ रही बारूदी सुरंगों, फेंके गए गोला-बारूद और अन्य युद्ध अवशेषों से भरा हुआ है।
- After more than **30 years of civil war**, which ended in **1998**, Cambodia became one of the **most heavily mined countries** in the world.
1998 में समाप्त हुए 30 वर्षों से अधिक के गृहयुद्ध के बाद, कंबोडिया दुनिया के सबसे अधिक बारूदी सुरंग प्रभावित देशों में से एक बन गया।



TOPICS COVERED (GS Paper IV and Essay)

1. Manoj Kumar, who made 'Bharat' a household name, takes his final bow

‘भारत’ को घर-घर तक पहुँचाने वाले मनोज कुमार ने कहा अंतिम अलविदा

Manoj Kumar, who made 'Bharat' a household name, takes his final bow

The veteran film personality will be remembered for making patriotism aspirational and raising bread-and-butter issues in popular idiom; he created an idealist hero, who stood for national integrity, putting family and country before self, and was steadfast in raising his voice against injustices

GS Paper IV: Ethics
Anuj Kumar

Manoj Kumar, whose films played a vital role in shaping the cultural consciousness of the country, passed away in Mumbai early on Friday after a prolonged illness. He was 87.

Making 'Bharat' a household name, he created an idealist hero with a strong moral compass who stood for national integrity, putting family and country before self, and was steadfast in raising his voice against social injustice, foreign influence, unemployment, and corruption.

Unlike the nationalism portrayed by Raj Kapoor and Mehboob Khan, Kumar's imagination of Mother India was a lot more direct, almost overt. Born in Abbottabad (now in Pakistan) in 1937, his cinematic language was a product of Partition, where he lost his younger brother during riots. The personal tragedy shaped his views on nationalism and the importance of unity.

Over the years, some find the depiction of the clash of cultures between village and city and the East and the West in his iconic films *Upkar* (1967) and *Purab Aur Pachhim* (1970) simplistic. Put into

context, in the mid-1960s and early 1970s, when the Bollywood hero was on a picnic in Kashmir while India was at war with a belligerent neighbour, Kumar made loving your country an aspirational idea. He made *Shor* (1972) for the rights of the mill worker, espoused communal amity, and kept issues of *Roti Kapada Aur Makaan* (1974) relevant at the box office in a poetic fashion.

Global anthems

Songs like *Mere Desh Ki Dharti Sona Ugle* and *Bharat Ka Rehne Wala Hoon Bharat Ki Baat Sunata Hoon* became global anthems and inspired a generation, including Prime Minister Narendra Modi, who paid a rich tribute to Kumar.

The alarm for reviving the Golden Bird period and the bugle call for being vocal for local, which drive the ruling dispensation, find their echo in Kumar's universe. The filmmaker was the first recipient of the Dada Saheb Phalke Award after the NDA government came to power in 2014.

Kumar had a way with Prime Ministers. At the cusp of the Emergency, Kumar depicted the youth's growing disillusionment with the welfare state by



MANOJ KUMAR (1937-2025)

raking up issues of unemployment and rampant inflation in *Roti Kapada Aur Makaan*, where the song *Mehngai Maar Gayi* won him the ire of Indira Gandhi's bureaucracy.

Before that, when Kumar found his voice with *Shaheed* (1965), the most moving cinematic depiction of Bhagat Singh's life, he caught the eye of the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri. The film and the song *Mera Rang De Basanti Chola* struck a chord with Bhagat Singh's mother, and Shastri asked Kumar to take his slogan, *Jai Jawan, Jai Kisan*, to the public. It resulted in *Upkar*, where the character Bharat asks, "If every young man moves out of

the village, who will take care of the country's hunger?" Educated, Bharat is a farmer by choice, and he decides to put his family and his village before himself, which wins him the heroine's attention.

Romantic hero

Born as Hari Krishna Goswami, Kumar picked his screen name from Dilip Kumar's character in *Shabnam* (1949). Inspired by the thespian, he started as a romantic hero. After an uneven start, thrillers like *Woh Kaun Thi* (1964), *Poonam Ki Raat* (1965), and *Gumnam* (1965) made him a big draw at the box office, and romantic dramas like *Do Badan* (1966) and *Patthar Ke Sanam* (1967) ce-

mented his honest face in the hearts. He delivered a sensitive performance opposite Dilip Kumar in *Aadmi* (1968), and despite a strong patriotic image and moral stand, he successfully kept escaping the female trap by mixing up titles by doing a *Sanyasi* (1975) between *Be-Iman* (1972) and *Dus Numbari* (1976).

Conscious of his limitations as an actor, he covered them quite well. Long before it became material for memes, his gesture of covering his face with his palm won him a strong female fan following. It is said that covering the face was a signal to the cameraperson to zoom in, and when his fingers moved from right to left or left to right, it was to direct the trolley movement.

His collaborators say that Kumar had a grasp of every department of filmmaking. For Kumar, songs were always integral to the story, for they conveyed what dialogues could not. Composers Kalyanji-Anandji always acknowledged Kumar's contribution.


Having started his career as a ghostwriter, his creative advice was sought even when he worked outside his home production. It is said that he contributed to Raj Kapoor's *Mera*

Naam Joker, where he made a special appearance. His long-time assistant Chandra Barot, who went on to direct Amitabh Bachchan's *Don*, credits Kumar for pushing him to include *Khaike Paan Benaras Wali* at a tense moment in the caper.

Be it Saira Banu in *Purab Aur Pachhim*, Zeenat Aman in *Roti Kapada Aur Makaan*, or Hema Malini in *Kranti*, there was a touch of titillation in the way Kumar's camera captured the female figure in his films. His depiction of rape in *Roti Kapada Aur Makaan* and *Clerk* was questioned. However, in films like *Upkar* and *Shor*, we find a more robust female protagonist.

By the 1980s, Kumar had lost touch with the times. After his magnum opus *Kranti* (1981), he delivered a series of duds like *Kalyug Aur Ramayan* and *Santosh*. His style was reduced to a gimmick, and his mannerisms became forced as critics panned his works as attempts to promote his brother and son.

Meanwhile, his ideological stance moved further right. He joined the Bharatiya Janata Party in 2004 and pitched for Mr. Modi in 2014. He chose to remain away from the public eye, but Bharat missed his singular vision.



Manoj Kumar, who made 'Bharat' a household name, takes his final bow

‘भारत’ को घर-घर तक पहुँचाने वाले मनोज कुमार ने कहा अंतिम अलविदा

Manoj Kumar, whose films played a vital role in shaping the cultural consciousness of the country, passed away in Mumbai early on Friday after a prolonged illness. He was 87.

मनोज कुमार, जिनकी फिल्मों ने देश की सांस्कृतिक चेतना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, का शुक्रवार सुबह मुंबई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे।

- Making 'Bharat' a household name, he created an idealist hero with a strong moral compass who stood for **national integrity**, putting **family and country before self**, and was steadfast in raising his voice against **social injustice, foreign influence, unemployment, and corruption**.

‘भारत’ को घर-घर तक पहुँचाने वाले उन्होंने एक आदर्शवादी नायक की रचना की, जो राष्ट्रीय एकता के लिए खड़ा होता था, परिवार और देश को खुद से पहले रखता था, और सामाजिक अन्याय, विदेशी प्रभाव, बेरोजगारी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता था।

- Unlike the nationalism portrayed by **Raj Kapoor** and **Mehboob Khan**, Kumar's imagination of **Mother India** was a lot more **direct**, almost overt.

राज कपूर और मेहबूब खान द्वारा दिखाए गए राष्ट्रवाद से अलग, मनोज कुमार की भारत माता की कल्पना अधिक सीधी और प्रत्यक्ष थी।

- Born in **Abbottabad (now in Pakistan)** in **1937**, his cinematic language was a product of **Partition**, where he lost his younger brother during riots.

1937 में एबटाबाद (अब पाकिस्तान में) जन्मे, उनका सिनेमा विभाजन की उपज था, जिसमें उन्होंने दंगों के दौरान अपने छोटे भाई को खो दिया था।

- The personal tragedy shaped his views on **nationalism** and the importance of **unity**. इस व्यक्तिगत त्रासदी ने उनके राष्ट्रवाद और एकता के महत्व पर विचारों को आकार दिया।

- Some find the depiction of **village and city** and **East and West** conflicts in **Upkar (1967)** and **Purab Aur Pachhim (1970)** simplistic.

कुछ लोगों को उपकार (1967) और पूरब और पश्चिम (1970) में गाँव और शहर तथा पूर्व और पश्चिम के टकराव का चित्रण सरल लगता है।

- In the **mid-1960s** and **early 1970s**, Kumar made **loving your country** an **aspirational idea**, when Bollywood heroes were romancing in **Kashmir** despite wars.

1960 के मध्य और 1970 की शुरुआत में, जब बॉलीवुड के हीरो कश्मीर में रोमांस कर रहे थे, मनोज कुमार ने देशभक्ति को एक प्रेरणादायक विचार बना दिया।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- He made **Shor (1972)** for the rights of mill workers, espoused **communal harmony**, and kept issues of **Roti Kapada Aur Makaan (1974)** relevant at the box office.
उन्होंने शोर (1972) बनाई मिल मजदूरों के अधिकारों के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया, और रोटी कपड़ा और मकान (1974) के मुद्दों को बॉक्स ऑफिस पर प्रासंगिक बनाए रखा।

Global anthems

वैश्विक गीत

- Songs like **Mere Desh Ki Dharti Sona Ugle** and **Bharat Ka Rehne Wala Hoon** became **global anthems** and inspired a generation, including **Prime Minister Narendra Modi**.
मेरे देश की धरती सोना उगले और भारत का रहने वाला हूँ जैसे गीत वैश्विक गीत बन गए और एक पीढ़ी को प्रेरित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं।
- The call for reviving the **Golden Bird era** and promoting **vocal for local** finds resonance in Kumar's cinematic universe.
सोने की चिड़िया युग को पुनर्जीवित करने और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की पुकार, कुमार के सिनेमा में गूंजती है।
- He was the **first recipient** of the **Dada Saheb Phalke Award** after the **NDA** government came to power in **2014**.
2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद वे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे।
- At the cusp of the **Emergency**, Kumar highlighted **unemployment** and **inflation** in **Roti Kapada Aur Makaan**, which irked **Indira Gandhi's** bureaucracy.
आपातकाल की शुरुआत में, कुमार ने रोटी कपड़ा और मकान में बेरोजगारी और महँगाई जैसे मुद्दों को उठाया, जिससे इंदिरा गांधी की नौकरशाही नाराज़ हो गई।
- His earlier work **Shaheed (1965)**, a portrayal of **Bhagat Singh's** life, caught the attention of **PM Lal Bahadur Shastri**, who asked him to spread the slogan **Jai Jawan, Jai Kisan**.
उनकी पिछली फिल्म शहीद (1965), जो भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी, ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ध्यान खींचा, जिन्होंने उनसे जय जवान, जय किसान का नारा जन-जन तक पहुँचाने को कहा।
- It resulted in **Upkar**, where the character **Bharat** puts his **village and family** first and chooses to be a **farmer by choice**.
इससे प्रेरित होकर उन्होंने उपकार बनाई, जहाँ पात्र भारत अपने गाँव और परिवार को प्राथमिकता देता है और किसान बनने का चुनाव करता है।

Romantic hero

रोमांटिक हीरो

- Born as **Harikrishna Goswami**, Kumar adopted his screen name from **Dilip Kumar's** character in **Shabnam (1949)**.



हरिकृष्ण गोस्वामी के रूप में जन्मे कुमार ने अपना स्क्रीन नाम **शबनम (1949)** में दिलीप कुमार के किरदार से लिया।

- Starting as a **romantic hero**, his thrillers like **Woh Kaun Thi (1964)**, **Poonam Ki Raat (1965)**, and **Gumnam (1965)** made him a box office success.
एक रोमांटिक हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए, उनकी थ्रिलर फिल्मों जैसे **वो कौन थी (1964)**, **पूनम की रात (1965)** और **गुमनाम (1965)** ने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिलाई।
- Romantic dramas like **Do Badan (1966)** and **Patthar Ke Sanam (1967)** strengthened his honest image.
दो बदन (1966) और **पत्थर के सनम (1967)** जैसी रोमांटिक फिल्मों ने उनकी ईमानदार छवि को और मजबूत किया।
- Despite a **patriotic image**, he avoided being typecast by mixing roles like **Sanyasi (1975)** between **Be-iman (1972)** and **Dus Numbari (1976)**.
देशभक्त छवि के बावजूद, उन्होंने **सन्यासी (1975)** जैसे किरदार निभाकर **बेईमान (1972)** और **दस नंबरी (1976)** के बीच खुद को टाइपकास्ट होने से बचाया।
- Conscious of his **limitations**, he used gestures like **covering his face with his palm**, which became iconic.
अपनी **कमियों** से अवगत, उन्होंने **हाथ से चेहरा ढकने** जैसे हावभाव का उपयोग किया, जो बाद में **प्रसिद्ध** हो गया।
- The gesture also served as a signal to **camerapersons** for **zooming and trolley movement**.
यह इशारा **कैमरापर्सन** को **ज़ूम और ट्रॉली मूवमेंट** के निर्देश देने का भी काम करता था।

Filmmaking and creative vision

फिल्म निर्माण और रचनात्मक दृष्टिकोण

- Kumar had command over all aspects of **filmmaking**, and considered **songs integral to storytelling**.
कुमार को **फिल्म निर्माण** के सभी पहलुओं पर पकड़ थी, और वे **गीतों को कहानी का अनिवार्य हिस्सा** मानते थे।
- Music composers **Kalyanji-Anandji** credited him for his **musical inputs**.
कल्याणजी-आनंदजी जैसे संगीतकारों ने उनके **संगीतिक योगदान** की सराहना की।
- He began as a **ghostwriter** and offered creative input even outside his home banner.
उन्होंने एक **घोस्टराइटर** के रूप में शुरुआत की और अपने बैनर से बाहर भी रचनात्मक सुझाव दिए।
- He contributed to **Raj Kapoor's Mera Naam Joker** and appeared in a special role.
उन्होंने **राज कपूर की मेरा नाम जोकर** में योगदान दिया और एक विशेष भूमिका निभाई।
- His assistant **Chandra Barot**, who directed **Don**, credits Kumar for suggesting **Khaike Paan Banaras Wala**.
उनके सहायक **चंद्रा बारोट**, जिन्होंने **डॉन** निर्देशित की, ने बताया कि **खइके पान बनारस वाला** गाना कुमार के सुझाव पर जोड़ा गया।



Portrayal of women

महिलाओं का चित्रण

- He captured **female figures** with sensuality, especially in films like **Purab Aur Pacchim, Roti Kapada Aur Makaan, and Kranti**.
उन्होंने पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, और क्रांति जैसी फिल्मों में महिला पात्रों को कामुकता के साथ दर्शाया।
- His depiction of **rape** in **Roti Kapada Aur Makaan** and **Clerk** drew criticism.
रोटी कपड़ा और मकान और क्लर्क में बलात्कार के दृश्य की आलोचना हुई।
- However, **Upkar** and **Shor** featured **strong female characters**.
हालाँकि, उपकार और शोर जैसी फिल्मों में मजबूत महिला पात्र दिखाए गए।

Decline and political journey

पतन और राजनीतिक सफर

- By the **1980s**, his style began to appear **outdated**. After **Kranti (1981)**, he gave a series of **flops** like **Kalyug Aur Ramayan** and **Santosh**.
1980 के दशक में उनकी शैली पुरानी लगने लगी। क्रांति (1981) के बाद उन्होंने कलयुग और रामायण, संतोष जैसी कई फ्लॉप फिल्में दीं।
- Critics accused him of trying to **promote** his **brother and son** through his films.
आलोचकों ने उन पर अपनी फिल्मों के जरिए अपने भाई और बेटे को प्रचारित करने का आरोप लगाया।
- His ideology drifted **rightward**. He **joined BJP in 2004** and supported **Modi in 2014**.
उनकी विचारधारा दायीं ओर झुक गई। उन्होंने 2004 में भाजपा जॉइन की और 2014 में मोदी का समर्थन किया।
- He stayed away from the limelight in later years, but **Bharat missed his singular vision**.
बाद के वर्षों में वे जनता की नजरों से दूर रहे, लेकिन भारत उनकी अनूठी दृष्टि को याद करता रहा।